



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2013/पौष 18, 1934

No. 92]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2013/PAUSA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

का.आ. 96(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1369(अ), तारीख 18 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के जींद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 307.000 कि.मी. से 327.000 कि.मी. (जींद-रोहतक सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13 जुलाई, 2012 को "दैनिक भास्कर," और "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जींद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 307.000 कि०मी० से 327.000 कि०मी० तक (जींद-रोहतक खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम और हदबन्दी संख्या	संरचना संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल			हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				आगत संख्या	खेत संख्या			कनाल	मरला	हेक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जींद	1.जींद	1 अनुपमढ़ /58	23//	11	निजी	कृषि	3	12	0.1821	ओम प्रकाश पुत्र राम नारायण व श्रीमती कमला पत्नी ओम प्रकाश पुत्र राम नारायण
					12	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	ग्राम पंचायत
					18/1/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	हरजेन्द्र सिंह, सुखवीन्द्र सिंह, कृपाल सिंह पुत्रान राजेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र पुत्र हरी सिंह, राम धारी, प्रताप सिंह पुत्रान तारा चन्द, श्रीमती सरती पत्नी हवा सिंह
					18/1/3	निजी	कृषि	0	8	0.0202	बिजेन्द्र पुत्र व शान्ति पुत्री हरी सिंह, राजेन्द्र पुत्र हरी सिंह, राम रती पत्नी बिजेन्द्र, तारा चन्द पुत्र जुग लाल, कर्मवीर, रणधीर, धर्मवीर पुत्रान रामधारी, सुमेश पुत्र प्रताप, सुरेश, रमेश पुत्रान हवा सिंह, चन्द्र पुत्र जुग लाल, मनमरी पत्नी चन्द्र सिंह, भरत सिंह पुत्र जुगलाल, सत्यवान, रणधीर, अशोक पुत्रान धर्मपाल, नसीब कुमार, राजेश कुमार पुत्रान धुप सिंह
					18/2	निजी	कृषि	0	6	0.0152	
					19/1	पंचायत	कृषि	0	3	0.0076	ग्राम पंचायत
					19/2	निजी	कृषि	3	5	0.1644	सतवीर पुत्र हमीर सिंह
					20/1	पंचायत	कृषि	0	1	0.0025	ग्राम पंचायत
					20/2	निजी	कृषि	0	2	0.0051	सतवीर सिंह पुत्र हमीर सिंह
					22	निजी	कृषि	3	12	0.1821	श्रीमती सुनेहरी पुत्री व भीम सिंह, धज्जा राम, मेहर सिंह पुत्रान सरूप सिंह, श्रीमती दयावती विधवा व सुमन पुत्री व शोकीन पुत्र सुलतान, भरत सिंह पुत्र गोहली, अजमेर, रमेश पुत्रान बसाउ
					23	निजी	कृषि	0	19	0.0481	बिजेन्द्र पुत्र व शान्ति पुत्री हरी सिंह, राजेन्द्र पुत्र हरी सिंह, राम रती पत्नी बिजेन्द्र, तारा चन्द पुत्र जुग लाल, कर्मवीर, रणधीर, धर्मवीर पुत्रान रामधारी, सुमेश पुत्र प्रताप, सुरेश, रमेश पुत्रान हवा सिंह, चन्द्र पुत्र जुग लाल, मनमरी पत्नी चन्द्र सिंह, भरत सिंह पुत्र जुग लाल, सत्यवान, रणधीर, अशोक पुत्रान धर्मपाल, नसीब कुमार, राजेश कुमार पुत्रान धुप सिंह
				32//	2	निजी	कृषि	3	12	0.1821	अजमेर सिंह, रमेश पुत्रान बसाउ, श्रीमती सावीत्री विधवा व कृष्ण, जसवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती मुकेश पुत्री रघवीर सिंह, रणधीर पुत्र गोहली राम
					3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	बिजेन्द्र पुत्र व शान्ति पुत्री हरी सिंह, राजेन्द्र पुत्र हरी सिंह, राम रती पत्नी बिजेन्द्र, तारा चन्द पुत्र जुग लाल, कर्मवीर, रणधीर, धर्मवीर पुत्रान रामधारी, सुमेश पुत्र प्रताप, सुरेश, रमेश पुत्रान हवा सिंह, चन्द्र पुत्र जुग लाल, मनमरी पत्नी चन्द्र सिंह, भरत सिंह पुत्र जुग लाल, सत्यवान, रणधीर, अशोक पुत्रान धर्मपाल, नसीब कुमार, राजेश कुमार पुत्रान धुप सिंह
					8	निजी	कृषि	3	12	0.1821	अजमेर सिंह, रमेश पुत्रान बसाउ, श्रीमती सावीत्री विधवा व कृष्ण, जसवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती मुकेश पुत्री रघवीर सिंह, रणधीर पुत्र गोहली राम
					9	निजी	कृषि	0	1	0.0025	
					13/1	निजी	कृषि	1	10	0.0759	
					13/2	निजी	कृषि	2	2	0.1062	सतवीर पुत्र बसाउ
					18	निजी	कृषि	3	12	0.1821	
					23	निजी	कृषि	0	4	0.0101	श्रीमती खजानी देवी पत्नी जय सिंह
					24	निजी	कृषि	3	10	0.1771	दलवीर सिंह, वजीर सिंह पुत्रान जय सिंह
					25/1/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	लक्ष्मण पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व श्रीमती सरती विधवा लक्ष्मण
					25/1/2	निजी	कृषि	0	9	0.0228	दलीप पुत्र नेकी
					25/2	सरकारी	मंडक	0	1	0.0025	हरियाणा सरकार पी० डब्ल्यू० डी०
				48//	11	निजी	कृषि	0	9	0.0228	सुरेश कुमार, बिजेन्द्र पुत्रान मागेराम, श्रीमती इन्द्रायती विधवा व श्रीमती कमलेश, निर्मल, सुमित्रा पुत्रीयान मागेराम, लक्ष्मण सिंह पुत्र नेकी राम आदि हिस्सेदार
					20	निजी	कंपनी	1	0	0.0506	दरिया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर, सतवीर, राजेन्द्र, दलवीर, सुरेश पुत्रान हरफूल, चरन सिंह पुत्र लाल चन्द, रामनियास, सुभाष, रामभज पुत्रान व विमला पुत्री सुबे श्रीमती किरनबाला विधवा व अमित कुमार, सुमित कुमार, पुत्रान धर्मवीर, महेश कुमार पुत्र बजरंग दास, बिरेन्द्र कुमार पुत्र नन्द गोपाल
					21/1	निजी	कृषि	1	5	0.0632	दरिया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर, सतवीर, राजेन्द्र, दलवीर, सुरेश पुत्रान हरफूल, चरन सिंह पुत्र लाल चन्द, रामनियास, सुभाष, रामभज पुत्रान व विमला पुत्री सुबे श्रीमती किरनबाला विधवा व अमित कुमार, सुमित कुमार, पुत्रान धर्मवीर, मोती राम, जगन नाथ, विष्णु दत्तक पुत्रान चन्दगी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				21/2	निजी	कंपनी	1 0	0.0506	दरिया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर, सतवीर, राजेन्द्र, दलवीर, सुरेश पुत्रान हरफूल, चरण सिंह पुत्र लाल चन्द, रामनिवास, सुभाष, राममज पुत्रान व विमला पुत्री सुबे, श्रीमती किरनबाला विद्या व अमित कुमार, सुमित कुमार, पुत्रान धर्मवीर, 40 जिल्हल एम्प्लोईज
			49//	4	निजी	कृषि	3 4	0.1619	श्रीमती किरन बाला विद्या धर्मवीर, दरीया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर सिंह, सतवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, सुरेश कुमार पुत्रान हरफूल, अनीत कुमार, सुनीत कुमार पुत्रान धर्मवीर, दलवीर, जगवीर पुत्रान विष्णु दत्त, मैजी राम, जगनाथ पुत्रान चन्दगी
				5/1	सरकारी	सड़क	0 1	0.0025	हरियाणा सरकार पीओ डब्ल्यू डीओ
				5/2/1	निजी	कृषि	0 17	0.0430	लक्ष्मण पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व श्रीमती सरती विद्या लक्ष्मण
				6/1/2	निजी	कृषि	1 0	0.0506	दलीप पुत्र नेकी
				6/2	निजी	कृषि	0 12	0.0304	सुरेश कुमार, बिजेन्द्र पुत्रान मांगेराम, श्रीमती इन्द्रावती विद्या व श्रीमती कमलेश, निर्मल, सुमित्रा पुत्रीयान मांगेराम, लक्ष्मण सिंह पुत्र नेकी राम आदि हिस्सेदार
				7	निजी	कृषि	3 12	0.1821	श्रीमती किरन बाला विद्या धर्मवीर, दरीया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर सिंह, सतवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, सुरेश कुमार पुत्रान हरफूल, अनीत कुमार, सुनीत कुमार पुत्रान धर्मवीर, दलवीर, जगवीर पुत्रान विष्णु दत्त, मैजी राम, जगनाथ पुत्रान चन्दगी
				14	निजी	कृषि	0 2	0.0051	
				15	निजी	कृषि	3 10	0.1771	
				16	निजी	कृषि	3 12	0.1821	दरिया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर, सतवीर, राजेन्द्र, दलवीर, सुरेश पुत्रान हरफूल, चरण सिंह पुत्र लाल चन्द, रामनिवास, सुभाष, राममज पुत्रान व विमला पुत्री सुबे, श्रीमती किरनबाला विद्या व अमित कुमार, सुमित कुमार, पुत्रान धर्मवीर, मैजी राम, जगनाथ, विष्णु दत्त पुत्रान चन्दगी
				25	निजी	कृषि	2 3	0.1088	दरिया सिंह, जिले सिंह, कर्मवीर, सतवीर, राजेन्द्र, बलवीर, सुरेश पुत्रान हरफूल, चर्ण सिंह पुत्र लाल चन्द, राम निवास, सुभाष, राम भज पुत्रान व विमला पुत्री सुभा, श्रीमती किरन बाला विद्या व अमित कुमार, सुनीत कुमार पुत्रान धर्मवीर
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0 4	0.0101	436—ग्राम पंचायत
			58//	5	निजी	कृषि	0 3	0.0076	सतवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान मान सिंह, मले राम पुत्र मुन्नी, बनी सिंह, बलवीर सिंह, जगवीर सिंह, वेद प्रकाश पुत्रान मेहर सिंह, मेहर सिंह पुत्र ग्यानी राम, प्रताप सिंह पुत्र मुन्नी, रामेहर पुत्र प्रताप सिंह, बलवान सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान व श्रीमती राजकला, सेवावती पुत्रीयान गुलाब सिंह खानाकाशत प्रताप हिस्सेदार
			59//	1	निजी	कृषि	3 10	0.1771	
				2	निजी	कंपनी	1 0	0.0506	प्रभू दिवाना पुत्रान चेताराम, कर्मवीर सिंह उर्फ धर्मवीर पुत्र प्रभू, एसओ आरओ मेमोरिसल शिक्षा समिति 25 यूनिवर्सिटी मुस्तरी पटटा दहिन्दा श्रीमती विद्या देवी पत्नी भगवान दास, पटटा गरिन्दा
				9/1	निजी	कंपनी	0 6	0.0152	
				9/2	निजी	कृषि	0 15	0.0379	चन्दर पुत्र बदलु, श्रीमती बीरनी पत्नी लाल चन्द
				10	निजी	कृषि	3 14	0.1872	सतवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान मान सिंह, मले राम पुत्र मुन्नी, बनी सिंह, बलवीर सिंह, जगवीर सिंह, वेद प्रकाश पुत्रान मेहर सिंह, मेहर सिंह पुत्र ग्यानी राम, प्रताप सिंह पुत्र मुन्नी, रामेहर पुत्र प्रताप सिंह, बलवान सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान व श्रीमती राजकला, सेवावती पुत्रीयान गुलाब सिंह खानाकाशत प्रताप हिस्सेदार
				11	निजी	कृषि	3 14	0.1872	
				12	निजी	कृषि	1 0	0.0506	टेक राम, रामधारी पुत्रान टालु
				18	निजी	कृषि	1 0	0.0506	टेक राम, रामधारी पुत्रान टालु
				19	निजी	कृषि	3 10	0.1771	सतवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान मान सिंह, मले राम पुत्र मुन्नी, बनी सिंह, बलवीर सिंह, जगवीर सिंह, वेद प्रकाश पुत्रान मेहर सिंह, मेहर सिंह पुत्र ग्यानी राम, प्रताप सिंह पुत्र मुन्नी, रामेहर पुत्र प्रताप सिंह, बलवान सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान व श्रीमती राजकला, सेवावती पुत्रीयान गुलाब सिंह खानाकाशत प्रताप हिस्सेदार
				20	निजी	कृषि	0 4	0.0101	
				22	निजी	कृषि	3 14	0.1872	
				23/1/1	निजी	कंपनी	0 9	0.0228	मैसर्स नवनीत उद्योग प्रा0 लि0, डायरेक्टर महावीर
				23/1/2	निजी	कंपनी	0 7	0.0177	लाजपत राय पुत्र दीपचन्द
				23/2	निजी	कंपनी	0 3	0.0076	वेदपाल, रामधारी पुत्रान धनपत, श्रीमती सुनहरी विद्या व सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रान व निर्मला देवी पुत्री अजमेर सिंह, रूप चन्द पुत्र धारा, दिलपत पुत्र मांगे राम मुन्नी पटटा दहिन्दा रोशन लाल पुत्र ओम प्रकाश पटटा गरिन्दा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74//				सतवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान मान सिंह, भले राम पुत्र मुन्नी, बनी सिंह, बलवीर सिंह, जगवीर सिंह, वेद प्रकाश पुत्रान मेहर सिंह, मेहर सिंह पुत्र ग्यानी राम, प्रताप सिंह पुत्र मुन्नी, रामेहर पुत्र प्रताप सिंह, बलवान सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान व श्रीमती राजकला, सेवावती पुत्रीयान गुलाब सिंह खानाकाशत प्रताप हिस्सेदार
					2	निजी	कृषि	3 14 0.1872
					3/1	निजी	कंपनी	0 11 0.0278
					3/2/1	निजी	कंपनी	0 2 0.0051
					3/2/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					7/1	निजी	कंपनी	0 4 0.0101
					7/2	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					8	निजी	कृषि	3 10 0.1771
					9	निजी	कृषि	0 6 0.0152
					गौब का कुल क्षेत्रफल		89	8 4.522
					माईनर पंचायत		गैर-कृषि	0 4 0.0101
					13/1 सरकारी		गैर-कृषि	1 2 0.0556
								श्रीमती हरवंश कौर विधवा व गुरुदर्शन कौर, सर्वजीत कौर, हरविन्द कौर पुत्रीयान व कुलदीप सिंह, विक्रमजीत, बलजीत सिंह पुत्रान दलीपसिंह, शेरसिंह पुत्र चन्दन सिंह, श्रीमती चन्दपती पत्नी व राजेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह
					13/2	निजी	कृषि	1 16 0.0911
					14/1	सरकारी	गैर-कृषि	0 3 0.0076
					14/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					17	निजी	कृषि	0 14 0.0354
					18	निजी	कृषि	3 6 0.1669
					23/2	निजी	कृषि	0 10 0.0253
					24	निजी	कृषि	2 19 0.1492
					25	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					43//	11 सरकारी	गैर-कृषि	0 4 0.0101
					20	निजी	कृषि	1 4 0.0607
					246	पंचायत	गैर-कृषि	7 0 0.3541
					212	पंचायत	रास्ता	0 3 0.0076
					21	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					720	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051
					44//	4 निजी	कृषि	3 8 0.1720
					5/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076
					5/2	निजी	कृषि	0 12 0.0304
					6	निजी	कृषि	0 16 0.0404
					7	निजी	कृषि	3 8 0.1720
					गौब का कुल क्षेत्रफल		89	8 4.522
					माईनर पंचायत		गैर-कृषि	0 4 0.0101
					13/1 सरकारी		गैर-कृषि	1 2 0.0556
								श्रीमती हरवंश कौर विधवा व गुरुदर्शन कौर, सर्वजीत कौर, हरविन्द कौर पुत्रीयान व कुलदीप सिंह, विक्रमजीत, बलजीत सिंह पुत्रान दलीपसिंह, शेरसिंह पुत्र चन्दन सिंह, श्रीमती चन्दपती पत्नी व राजेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह
					13/2	निजी	कृषि	1 16 0.0911
					14/1	सरकारी	गैर-कृषि	0 3 0.0076
					14/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					17	निजी	कृषि	0 14 0.0354
					18	निजी	कृषि	3 6 0.1669
					23/2	निजी	कृषि	0 10 0.0253
					24	निजी	कृषि	2 19 0.1492
					25	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					43//	11 सरकारी	गैर-कृषि	0 4 0.0101
					20	निजी	कृषि	1 4 0.0607
					246	पंचायत	गैर-कृषि	7 0 0.3541
					212	पंचायत	रास्ता	0 3 0.0076
					21	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					720	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051
					44//	4 निजी	कृषि	3 8 0.1720
					5/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076
					5/2	निजी	कृषि	0 12 0.0304
					6	निजी	कृषि	0 16 0.0404
					7	निजी	कृषि	3 8 0.1720

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				14	निजी	कृषि	0	1	0.0025	श्रीमती बेदी विद्या व हरकेश, बलजीत, सुभाष, नरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती गीता पुत्री फूलकुमार, श्रीमती सिद्धी विद्या व सुरेन्द्र, मोहिन्द, राहुल पुत्रान शिला, सुमिता, वन्दना पुत्रीयान ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र हरचन्द खानाकास्त सिद्धी विद्या, सुरेन्द्र, मोहिन्द, राहुल, शिला, सुमिता, वन्दना
				244	पंचायत	गैर-कृषि	1	18	0.0961	ग्राम पंचायत
				245	पंचायत	गैर-कृषि	1	8	0.0708	ग्राम पंचायत
				15	निजी	कृषि	0	12	0.0304	शामलता पाना राशन खानाकास्त फूल कुमार पुत्र अमरसिंह गौ मी०
			59//	249	पंचायत	गैर-कृषि	0	1	0.0025	ग्राम पंचायत
			60//	250	पंचायत	गैर-कृषि	1	16	0.0911	ग्राम पंचायत
				2/1	निजी	कृषि	0	18	0.0455	धनाराम पुत्र कृष्णाराम, जयसिंह पुत्र चांद सिंह, कपूर पुत्र हवासिंह, ईश्वर पुत्र मंगल सिंह, कर्मवीर पुत्र हरी सिंह रमेश पुत्र होक्की, दलवीर पुत्र जयचन्द, जसवीर सिंह पुत्र रामकुमार, दीनानाथ पुत्र फूल सिंह, शेरसिंह पुत्र जोधाराम, ओमप्रकाश पुत्र सुरताराम, रमेश पुत्र दीधाना सिंह, दया सिंह, सतवीर सिंह पुत्रान जोधाराम, रामप्यारी विद्या व सुरेन्द्र, मुकेश पुत्रान व श्रीमती दयावन्ती, बबली, आशा, अनीता पुत्रीयान करतार सिंह
				9/1 मिन	निजी	गैर-कृषि	0	9	0.0228	9/1/2/2- ताराचन्द पुत्र उजाला 9/1/2/3- धान सिंह पुत्र उजाला, 9/1/2/4- भगताराम, सत्यवान, मोतीराम पुत्रान देवीराम खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				9/2	निजी	गैर-कृषि	0	1	0.0025	जिले सिंह पुत्र अमरसिंह, श्रीमती बीरमती पत्नी जिले सिंह खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				9/3	निजी	गैर-कृषि	0	1	0.0025	सुभाष पुत्र इन्द्र सिंह, श्रीमती गुड्डी पत्नी सुभाष खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				9/4	निजी	रास्ता	0	2	0.0051	अनील कुमार, नवीन कुमार पुत्र राममोहर पुत्र श्रीवन्द
				9/5	निजी	गैर-कृषि	0	2	0.0051	हवा सिंह पुत्र करण सिंह श्रीमती सुनहरी देवी पत्नी हवा सिंह खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				9/6	निजी	गैर-कृषि	0	2	0.0051	जसवंत सिंह पुत्र हरी सिंह खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				9/7	निजी	गैर-कृषि	0	2	0.0051	फूल सिंह पुत्र हरी सिंह खानाकास्त रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
				10	निजी	गैर-कृषि	4	9	0.2251	मेहर सिंह पुत्र नारायण सिंह, विजयपाल सिंह पुत्र उदेसिंह
				11/1	निजी	कृषि	3	0	0.1518	
				11/2	निजी	गैर-कृषि	0	12	0.0304	राजेश, संजय पुत्रान रामफल
				12	निजी	कंपनी	1	0	0.0506	कुसुम शर्मा पत्नी डॉ० नरेश शर्मा
				18/2	निजी	कृषि	1	0	0.0506	कुसुम शर्मा पत्नी डॉ० नरेश शर्मा
				19/1	निजी	गैर-कृषि	0	7	0.0177	राजेश, संजय पुत्रान रामफल
				19/2	निजी	कृषि	2	19	0.1492	श्रीमती बबीता रानी पत्नी प्रवीण कुमार, ईश्वर प्रकाश पुत्र श्री किशन
				20/1 मिन	निजी	गैर-कृषि	0	3	0.0076	राजेश, संजय पुत्रान रामफल
				20/2	निजी	कृषि	0	3	0.0076	श्रीमती बबीता रानी पत्नी प्रवीण कुमार, ईश्वर प्रकाश पुत्र श्री किशन
				22	निजी	कृषि	3	12	0.1821	
				23	निजी	गैर-कृषि	1	0	0.0506	कुसुम शर्मा पत्नी डॉ० नरेश शर्मा
			73//	2/2	निजी	कृषि	3	12	0.1821	मै० सैनिक ट्रान्सपोर्ट सेंटर किनाना
				3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	मनसा सिंह पुत्र गंगा सिंह, श्रीमती सुखविन्दर कौर विद्या, अमरजीत कौर पुत्री हरविन्दर सिंह, विक्रमजीत सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान धीरसिंह खानाकास्त सुखविन्दर कौर, अमरजीत कौर, हरविन्दर सिंह, विक्रमजीत सिंह, हरदेव सिंह बायान श्रीमती राजकौर पत्नी जगजीत सिंह, शकुन्ताला पत्नी दिलबाग सिंह
				7	निजी	कृषि	1	5	0.0632	
				8	निजी	कृषि	3	6	0.1669	मै० सैनिक ट्रान्सपोर्ट सेंटर किनाना
				9	निजी	कृषि	0	5	0.0126	मै० सैनिक ट्रान्सपोर्ट सेंटर किनाना
				13	निजी	कृषि	3	12	0.1821	मै० सैनिक ट्रान्सपोर्ट सेंटर किनाना
				211	पंचायत	रास्ता	0	3	0.0076	ग्राम पंचायत
				14	निजी	कृषि	0	14	0.0354	राजेंद्र, हरिओम, श्रीपाल पुत्रान पूरन, राकेश, मुकेश पुत्रान जयपाल खानाकास्त राजेंद्र हिस्सेदार बायान रविशंकर पुत्र देवराज, श्रीमती साहबी पत्नी रघवीर सिंह
				17	निजी	फैक्ट्री	1	0	0.0506	
				18	निजी	कृषि	3	12	0.1821	शामलता पाना राशन खानाकास्त चम्पादेवी पत्नी मोहनलाल गौ मी०
				23	निजी	कृषि	0	2	0.0051	शामलता पाना राशन खानाकास्त रनवीर सिंह, रामेश्वर, करनसिंह, रामकुमार, कुलदीप पुत्रान जिलेसिंह मुस्तारीयान
				24	निजी	कृषि	2	18	0.1467	
				218	पंचायत	रास्ता	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत
				25/1/1	निजी	कंपनी	0	6	0.0152	दिग्विजय सिंह पुत्र जसवीर सिंह, कुलवीर सिंह पुत्र रघवीर सिंह
				25/2/1/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	सूरतसिंह पुत्र रिसाल सिंह, जोरा सिंह पुत्र हरचन्द
				25/2/2	निजी	कृषि	0	8	0.0202	दिलावर पुत्र राजसिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				91//	4	निजी	कृषि	3 12 0.1821	शामलता पाना राशन खानाकाशत रनवीर सिंह, रामेश्वर, करनसिंह, रामकुमार, कुलदीप पुत्रान जिलेसिंह मुस्तरीयान
					5/1	निजी	कम्पनी	0 12 0.0304	मो महालक्ष्मी कौटन एण्ड जनरल मीलस किनाना जीन्द
					5/2	निजी	कृषि	0 8 0.0202	रविन्द कुमार पुत्र रामेश्वर दास
					6/1	निजी	कृषि	0 18 0.0455	सिन्धू फार्म प्रा० लि०, किनाना
					6/2	निजी	गैर-कृषि	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					7	निजी	कृषि	3 12 0.1821	दी हरियाणा मार्केटिंग सोसायटी कम्प्रेसिब सोसायटी जीन्द
					14	निजी	कृषि	0 5 0.0126	
					15/1	निजी	कृषि	3 6 0.1669	
					274	पंचायत	गैर-कृषि	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
					15/2	निजी	कृषि	0 14 0.0354	गरीबराम, नफेसिंह, दलीप सिंह, अनूपसिंह पुत्रान रामसिंह
					16	निजी	कृषि	3 12 0.1821	दी हरियाणा मार्केटिंग सोसायटी कम्प्रेसिब सोसायटी जीन्द
					25	निजी	कृषि	2 12 0.1315	अराजी मतलुका बिला अलाट हिस्सेदार बाया सूरजमान पुत्र प्रमू
				92//	11	निजी	कृषि	0 6 0.0152	अनूपसिंह, नफेसिंह, गरीबराम, दलीप सिंह पुत्रान रामसिंह
					20	निजी	कृषि	1 0 0.0506	अनूपसिंह, नफेसिंह, गरीबराम, दलीप सिंह पुत्रान रामसिंह, अयन पुत्र जोगिन्द
					21/1	निजी	कृषि	1 3 0.0582	शामलता पाना मुगलान
					21/2	निजी	कृषि	1 0 0.0506	राजसिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान नवल सिंह, विनय कुमार पुत्र होशियार सिंह
				103//	1	निजी	कृषि	3 3 0.1593	अराजी मतलुका बिला अलाट हिस्सेदार बाया जिले सिंह, अर्जुन, हवासिंह, रामकुमार पुत्रान चन्दा
					2	निजी	कृषि	1 0 0.0506	राजसिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान नवल सिंह, विनय कुमार पुत्र होशियार सिंह
					9	निजी	कृषि	1 0 0.0506	सिंह
					10	निजी	कृषि	3 12 0.1821	अराजी मतलुका बिला अलाट हिस्सेदार बाया चतरसिंह पुत्र दुर्गाराम, सतवीर पुत्र दयाराम
					11	निजी	कृषि	3 12 0.1821	अराजी मतलुका बिला अलाट चतरसिंह पुत्र दुर्गाराम
					12/1	निजी	कृषि	0 15 0.0379	परममित्र मानव निर्माण संस्थान
					12/2	सरकारी	कनाल	0 5 0.0126	हरियाणा सरकार
					18/2/1/1	सरकारी	गैर-कृषि	0 14 0.0354	परममित्र मानव निर्माण संस्थान
					18/2/1/2	पंचायत	गैर-कृषि	0 3 0.0076	ग्राम पंचायत
					18/2/2	सरकारी	कनाल	0 3 0.0076	हरियाणा सरकार
					19/1	निजी	कृषि	0 9 0.0228	अराजी मतलुका बिला अलाट चतरसिंह पुत्र दुर्गाराम
					19/2	सरकारी	कनाल	1 11 0.0784	हरियाणा सरकार
					19/3	निजी	कृषि	1 3 0.0582	अराजी मतलुका बिला अलाट चतरसिंह पुत्र दुर्गाराम
					20/1/1	निजी	कृषि	0 6 0.0152	अराजी मतलुका बिला अलाट हिस्सेदार बाया सुखदेव सिंह पुत्र कपूरसिंह पुत्र मनाराम मुश्तरी
					20/1/2	सरकारी	कनाल	0 0 0.0000	हरियाणा सरकार
					22/1	निजी	कृषि	0 2 0.0051	श्रीमती दयावन्ती पुत्र रिसाल सिंह
					22/2	निजी	कृषि	3 8 0.1720	सत्यवान पुत्र अमृतलाल, सिन्धू फार्म प्रा० लि० रोहतक
					23	निजी	कृषि	0 16 0.0405	सिन्धू एजुकेशन फाउन्डेशन
					205	निजी	गैर-कृषि	0 7 0.0177	सिद्धराम पुत्र धनसिंह, रनवीर सिंह पुत्र लहरी, साहब सिंह पुत्र बहादुर, ओमप्रकाश पुत्र बहादुर, गोपीराम, सूरजमल पुत्रान गिन्धारी, राममेहर पुत्र बलवन्त सिंह व अन्य
				104//	5	निजी	कृषि	0 7 0.0177	अराजी मतलुका बिला अलाट हिस्सेदार बाया जिले सिंह, अर्जुन, हवासिंह, रामकुमार पुत्रान चन्दा
				124//	2/1	निजी	कृषि	1 18 0.0961	सत्यवान पुत्र अमृतलाल, सिन्धू फार्म प्रा० लि० रोहतक
					2/2	निजी	कृषि	1 8 0.0708	सत्यवान पुत्र अमृतलाल
					206	निजी	गैर-कृषि	1 6 0.0658	गैर मुमकीन- रामदास पुत्र रण सिंह, रामरूप पुत्र प्रीत सिंह, भन्ता पुत्र प्रमू, राममेहर पुत्र रण सिंह, राममेहर पुत्र अमर सिंह पुत्र कलिया, विजय कुमार, अजय कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र रामरूप, संदीप पुत्र रणवीर सिंह पुत्र रामरूप, सतवीर, कृष्ण पुत्रान सुबे सिंह पुत्र जमना, प्रांतीय सरकार, नारायण पुत्र मेहताब सिंह पुत्र सूरत सिंह वासीदेह
					3/1	पंचायत	कृषि	0 7 0.0177	जुमला मुश्तरीका मालकान व दीगर हकदारान अराजी हस्ब रसद
					3/2	निजी	कृषि	0 8 0.0202	विरेन्द्र कुमार, ओमकुमार, नारायण, मुकेश, रविन्द पुत्रान महाताब सिंह
					7	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
					8	निजी	कृषि	2 11 0.1290	
					9	निजी	कृषि	0 3 0.0076	रघवीर सिंह पुत्र छोटू
					13	निजी	कृषि	3 12 0.1821	विरेन्द्र कुमार, ओमकुमार, नारायण, मुकेश, रविन्द पुत्रान महाताब सिंह
					14/1	निजी	गैर-कृषि	0 10 0.0253	धर्मवीर सिंह पुत्र चन्द सिंह, अनिल कुमार पुत्र फूलसिंह, सुभाष चन्द पुत्र दरिया
					14/2	निजी	गैर-कृषि	0 8 0.0202	सुभाष चन्द पुत्र दरिया सिंह
					772	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					17/1/1	निजी	कृषि	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					17/1/2	निजी	गैर-कृषि	0 11 0.0278	सिन्धू एजुकेशन फाउन्डेशन
					17/2	निजी	कृषि	0 8 0.0202	सिन्धू एजुकेशन फाउन्डेशन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				18	निजी	कृषि	3 12	0.1821	विरेन्द्र कुमार, ओमकुमार, नारायण, मुकेश, रविन्द्र पुत्रान महताब सिंह
				23	निजी	कृषि	0 8	0.0202	
				24	निजी	कृषि	3 4	0.1619	
				25	निजी	कृषि	1 0	0.0506	सिन्धू एजुकेशन फाउण्डेशन
			132//	11/2	निजी	कृषि	0 1	0.0025	देवेन्द्र कुमार पुत्र बहादुर चन्द, सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल
				20/1	निजी	कृषि	0 8	0.0202	
				20/2	निजी	कृषि	0 10	0.0253	
				177	पंचायत	रास्ता	0 2	0.0051	ग्राम पंचायत
				21/1	निजी	कृषि	0 14	0.0354	प्रेम सिंह पुत्र केहर सिंह
				21/2	निजी	कृषि	1 0	0.0506	कृष्णावन्ती पुत्री चंदूराम, श्रीमती कुसुम पत्नी देवेन्द्र कुमार
			133//	4	निजी	कृषि	3 12	0.1821	विरेन्द्र कुमार, ओमकुमार, नारायण, मुकेश, रविन्द्र पुत्रान महताब सिंह
				5	निजी	कृषि	1 0	0.0506	शामलात पाना राशन खानाकाश्ट दिलबाग पुत्र अमृत मुशत्री सिन्धू
				6/1	निजी	कृषि	0 16	0.0405	एजुकेशन फाउण्डेशन
				7/1	निजी	कृषि	3 6	0.1669	विरेन्द्र कुमार, ओमकुमार, नारायण, मुकेश, रविन्द्र पुत्रान महताब सिंह
				7/2	निजी	कृषि	0 6	0.0152	भैयाराम, हरीराम, रामफूल पुत्रान सीताराम, सेवा सिंह, बलवन्त सिंह, देवा सिंह पुत्रान जीवन्तसिंह, रामपाल, दयानन्द, मानसिंह, सियानन्द पुत्रान पोखर खानाकाश्ट भैयाराम, रामफूल, सेवासिंह, रामफल हिस्सेदारान बायान श्रीमती सुखदेवन्दर कौर विद्या, हरविन्द सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान व श्रीमती अमरजीत कौर पुत्री धीर सिंह जगत सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र गंगा सिंह मुस्तरीयान
				14/2	निजी	कृषि	0 10	0.0253	
				15/1	निजी	कृषि	3 2	0.1568	
				15/2	निजी	कृषि	0 4	0.0101	शामलात पाना राशन
				15/3	निजी	कृषि	0 15	0.0379	देवेन्द्र कुमार पुत्र बहादुर चन्द, सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल
				16	निजी	कृषि	3 12	0.1821	प्रेम सिंह पुत्र केहर सिंह
				25/1	निजी	कृषि	0 6	0.0152	
				25/2	निजी	कृषि	2 12	0.1315	
			152//	787	पंचायत	रास्ता	0 6	0.0152	ग्राम पंचायत
				5/1	निजी	गैर-कृषि	0 7	0.0177	प्रवीण कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल
				5/2	निजी	कृषि	0 0	0.0000	दलवीर सिंह पुत्र शादीराम
			153//	1/1	निजी	गैर-कृषि	1 2	0.0556	प्रवीण कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल
				1/2	निजी	कृषि	1 10	0.0759	दलवीर सिंह पुत्र शादीराम
				1/3	निजी	कृषि	0 4	0.0101	विक्रमजीत सिंह पुत्र धीरा सिंह
				226	पंचायत	रास्ता	0 3	0.0076	ग्राम पंचायत
				2	निजी	कृषि	0 17	0.0430	महासिंह, जिलेसिंह पुत्रान केहरसिंह
				9/1	निजी	कृषि	0 1	0.0025	महासिंह, जिलेसिंह पुत्रान केहरसिंह
				9/2	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				10	निजी	कृषि	3 12	0.1821	कर्मपाल पुत्र सतवीर
				11	निजी	कृषि	3 12	0.1821	श्रीमती सुमन देवी पत्नी ऋषिपाल
				12	निजी	कृषि	1 0	0.0506	महासिंह, जिलेसिंह पुत्रान केहरसिंह
				18	निजी	कृषि	1 0	0.0506	रतीराम, दिलबाग, अतर सिंह, सतवीर, प्रेम सिंह, भूप सिंह पुत्रान रामकिशन, करन सिंह, राजेन्द्र, रन्धीर सिंह पुत्रान हरीकिशन, सुबे सिंह, खवीर सिंह, राममेहर पुत्रान सुखलाल, भरत सिंह, विजय सिंह, करतार सिंह पुत्रान सुरत सिंह, चन्द-सिंह, सुरजमान पुत्रान शेर सिंह
				19	निजी	कृषि	3 2	0.1568	श्रीमती जोगेन्द्र कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
				20	निजी	कृषि	0 10	0.0253	श्रीमती जोगेन्द्र कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
				22	निजी	कृषि	3 12	0.1821	अमरजीत सिंह, राजपाल सिंह, चरनजीत सिंह पुत्रान सुरेन्द्र सिंह
				23	निजी	कृषि	1 0	0.0506	रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, सतवीर, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, करनसिंह, राजेन्द्र, रन्धीरसिंह पुत्रान हरीकिशन, सुबेसिंह, खवीरसिंह, राममेहर पुत्रान सुखलाल, भरतसिंह, विजय सिंह, करतार सिंह पुत्रान सुरत सिंह, चन्दसिंह, सुरजमान पुत्रान शेरसिंह
			158//	2	निजी	कृषि	3 12	0.1821	अमरजीत सिंह, राजपाल सिंह, चरनजीत सिंह पुत्रान सुरेन्द्र सिंह
				3	निजी	कृषि	1 0	0.0506	मुकेश, रविन्द्र, वीरेन्द्र, ओमकुमार, नारायण पुत्रान महताब सिंह
				7	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				8	निजी	कृषि	3 0	0.1518	अमरजीत सिंह, राजपाल सिंह, चरनजीत सिंह पुत्रान सुरेन्द्र सिंह
				9	निजी	कृषि	0 13	0.0329	
				13	निजी	कृषि	3 12	0.1821	
				14/1	निजी	कृषि	1 0	0.0506	मुकेश, रविन्द्र, वीरेन्द्र, ओमकुमार, नारायण पुत्रान महताब सिंह
				17	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				18/1	निजी	कृषि	1 8	0.0708	रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, सतवीर, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, करनसिंह, राजेन्द्र, रन्धीरसिंह पुत्रान हरीकिशन
				18/2	निजी	कृषि	2 4	0.1113	रामनारायण एजुकेशन सोसायटी किनाना
				23	निजी	कृषि	0 15	0.0379	
				24	निजी	कृषि	2 17	0.1442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25	निजी	कृषि	1 0	0.0506
			175//	4	निजी	कृषि	3 12	0.1821
				5	निजी	कृषि	1 1	0.0531
				800	निजी	गैर-कृषि	0 4	0.0101
				7	निजी	कृषि	0 7	0.0177
				गौँस का कुल क्षेत्रफल			220 6	11.1441
	2. जुलाना	1 गोसाईं खेड़ा / 60	8//	6	निजी	कृषि	1 0	0.0506
				7	निजी	कृषि	2 12	0.1315
				14/1	निजी	कृषि	0 17	0.0430
				14/2	निजी	कृषि	0 7	0.0177
				15/1/1	निजी	कृषि	0 14	0.0354
				15/1/2	निजी	कृषि	1 8	0.0708
				15/2	निजी	कृषि	0 19	0.0481
				16	निजी	कृषि	3 8	0.1720
				25	निजी	कृषि	3 8	0.1720
				9//	11	निजी	0 1	0.0025
				20/2	निजी	कृषि	0 18	0.0455
				21/1	निजी	कृषि	0 6	0.0152
				21/2	निजी	कृषि	1 0	0.0506

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी मदनलाल

रतीराम, दिलबाग सिंह, अतरसिंह, सतवीर, प्रेम, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, करनसिंह, राजेन्द्र सिंह, रन्धीर सिंह पुत्रान हरीकिशन

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी मदनलाल

अनोखा सिंह, हीरा सिंह पुत्रान हजारी, महावीर, महताब, सतपाल, श्रीपाल, कपूरसिंह पुत्रान व श्रीमती बिस्फी पुत्री धाम्, रन्धीर सिंह पुत्र हरकिशन, महेन्द्र सिंह, महीपाल पुत्रान करनसिंह, नरेश, पवन पुत्रान राजेन्द्र, रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, सतवीर, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, कुलदीप पुत्र भीमसिंह, हरीश पुत्र हजारा, अमरकीर विद्या हजारा सिंह आदि खानाकाशत हरीसिंह हिस्सेदारा बायान रन्धीर सिंह पुत्र हरीकिशन, महेन्द्र, महीपाल पुत्रान करनसिंह, नरेश, पवन पुत्रान राजेन्द्र, रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, सतवीर, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन

श्रीमती अमरकीर विद्या व अनोखा सिंह, हरीसिंह पुत्रान हजारा सिंह, महावीर, महताब, सतपाल, श्रीपाल, कपूरसिंह पुत्रान व श्रीमती ब्रह्मी पुत्री धाम्, रन्धीर सिंह पुत्र हरीकिशन, सीदागर, महेन्द्र सिंह, महीपाल सिंह पुत्रान करनसिंह, नरेश, पवन पुत्रान राजेन्द्र, रतीराम, दिलबाग सिंह, अतरसिंह, सतवीर, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, कुलदीप पुत्र भीमसिंह, हरीसिंह पुत्र दीवानसिंह खानाकाशत श्रीमती अनोखा सिंह हिस्सेदारा बायान रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, प्रेमसिंह, सतवीर सिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, करनसिंह, राजेन्द्र, रन्धीर पुत्रान हरीकिशन, महेन्द्र, महीपाल पुत्रान करनसिंह, नरेश, पवन पुत्रान राजेन्द्र

महावीर सिंह पुत्र धाम्

बनीसिंह, शीशपाल, महेन्द्र पुत्रान दरिया, रघुवीर पुत्र मुटवना, जुगलाल पुत्र मातू, सुबे, रामवीर पुत्रान सुखलाल, भूपसिंह पुत्र दीपू, सदीप, प्रदीप पुत्रान भूपसिंह, शौकल विद्या दीपू पुत्र ताले खानाकाशत सन्तोष पत्नी धर्मवीर पुत्र सुबे, सोनू पुत्र धर्मवीर व अन्य हिस्सेदारा

बनीसिंह, शीशपाल, महेन्द्र पुत्रान दरिया, रघुवीर पुत्र मुटवना, जुगलाल पुत्र मातू, सुबे, रामवीर पुत्रान सुखलाल, भूपसिंह पुत्र दीपू, सदीप, प्रदीप पुत्रान भूपसिंह, शौकल विद्या दीपू पुत्र ताले खानाकाशत बनीसिंह, भूपसिंह व अन्य हिस्सेदारा

महावीर सिंह पुत्र धाम्

अनूपसिंह, सत्यवान, कुलदीप, युधवीर पुत्रान व निर्मला, विमला पुत्रीयान महासिंह, श्रीमती लाडो व जगत सिंह, धर्मवीर, सतपाल, राजपाल पुत्रान व श्रीमती कृष्णा पुत्री होशियार सिंह, भीमसिंह पुत्र रंगी पुत्र सीदागर, रामनिवास पुत्र रामपाल, दयानन्द पुत्र पाखर, राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, रविन्द्र पुत्र सियानन्द, चन्दरसिंह, सूरजमान पुत्रान शेरसिंह, नरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान हवासिंह, रतीराम, दिलबाग, अतर, सतवीर, प्रेम, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन पुत्र सीदागर, करनसिंह, राजेन्द्र, रन्धीर पुत्रान हरीकिशन, बजेशिंह, करतार पुत्रान सूरतसिंह, जोगेन्द्र पुत्र भरतसिंह, रामपाल पुत्र नारायण सिंह, धर्मवीर, रमेश पुत्रान सुबेसिंह पुत्र सुखलाल, प्रताप सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र लहरी, रणवीर, रमेश पुत्रान पहलादा

महावीर सिंह पुत्र धाम्

महताब सिंह पुत्र धाम्

अनूपसिंह, सत्यवान, कुलदीप, युधवीर पुत्रान व निर्मला, विमला पुत्रीयान महासिंह, श्रीमती लाडो व जगत सिंह, धर्मवीर, सतपाल, राजपाल पुत्रान व श्रीमती कृष्णा पुत्री होशियार सिंह, भीमसिंह पुत्र रंगी पुत्र सीदागर, रामनिवास पुत्र रामपाल, दयानन्द पुत्र पाखर, राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, रविन्द्र पुत्र सियानन्द, चन्दरसिंह, सूरजमान पुत्रान शेरसिंह, नरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान हवासिंह, रतीराम, दिलबाग, अतर, सतवीर, प्रेम, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन पुत्र सीदागर, करनसिंह, राजेन्द्र, रन्धीर पुत्रान हरीकिशन, बजेशिंह, करतार पुत्रान सूरतसिंह, जोगेन्द्र पुत्र भरतसिंह, रामपाल पुत्र नारायण सिंह, धर्मवीर, रमेश पुत्रान सुबेसिंह पुत्र सुखलाल, प्रताप सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र लहरी, रणवीर, रमेश पुत्रान पहलादा

सन्ताराम, राजकुमार पुत्रान सेवासिंह पुत्र जीवन, महेन्द्र, खजान, मोहन, सोहनलाल पुत्रान बलवन्त, आजाद, तेजा, मदन पुत्रान देवीसिंह पुत्र जीवन, भैयाराम, हरीराम, रामपाल पुत्रान सीताराम पुत्र सुखाराम खानाकाशत भैयाराम, हरीराम, रामपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				21//				
				1	निजी	कृषि	3	2
								0.1568
								अनूपसिंह, सत्यवान, कुलदीप, कुम्हार पुत्रान व निर्मला, विमला पुत्रीयान महासिंह, श्रीमती साको व जगत सिंह, धर्मवीर, सतपाल, राजपाल पुत्रान व श्रीमती कृष्णा पुत्री होशियार सिंह, भीमसिंह पुत्र रंगी पुत्र सीदागर, रामनिवास पुत्र सतपाल, दयानन्द पुत्र पाखर, राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, रविन्द्र पुत्र सियानन्द, चन्दरसिंह, सुरजमान पुत्रान शेरसिंह, नरेश सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान हवासिंह, रतीराम, दिलबाग, अतर, सतवीर, प्रेम, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन पुत्र सीदागर, करनसिंह, राजेन्द्र, रणवीर पुत्रान हरीकिशन, बजेंसिंह, करतार पुत्रान सुरतसिंह, जोगेन्द्र पुत्र भरतसिंह, रामपाल पुत्र नारायण सिंह, धर्मवीर, रमेश पुत्रान सुबेसिंह पुत्र सुखलाल, प्रताप सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र लहरी, रणवीर, रमेश पुत्रान पहलादा
				2/1	निजी	कृषि	1	0
								0.0506
				9	निजी	कृषि	1	0
								0.0506
				10	निजी	कृषि	3	16
				11	निजी	कृषि	0	2
				12	निजी	कृषि	3	15
								0.1922
								0.0051
								0.1897
				13/1	निजी	कृषि	0	3
								0.0076
				13/2	निजी	कृषि	0	17
								0.0430
				17	निजी	कृषि	0	2
				18	निजी	कृषि	0	18
				19	निजी	कृषि	3	18
				23	निजी	कृषि	3	14
				24	निजी	कृषि	1	0
								0.0051
								0.0455
								0.1973
								0.1872
								0.0506
				22//				
				5	निजी	कृषि	0	12
								0.0304
								अनूपसिंह, सत्यवान, कुलदीप, कुम्हार पुत्रान व निर्मला, विमला पुत्रीयान महासिंह, श्रीमती साको व जगत सिंह, धर्मवीर, सतपाल, राजपाल पुत्रान व श्रीमती कृष्णा पुत्री होशियार सिंह, भीमसिंह पुत्र रंगी पुत्र सीदागर, रामनिवास पुत्र सतपाल, दयानन्द पुत्र पाखर, राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, रविन्द्र पुत्र सियानन्द, चन्दरसिंह, सुरजमान पुत्रान शेरसिंह, नरेश सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान हवासिंह, रतीराम, दिलबाग, अतर, सतवीर, प्रेम, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन पुत्र सीदागर, करनसिंह, राजेन्द्र, रणवीर पुत्रान हरीकिशन, बजेंसिंह, करतार पुत्रान सुरतसिंह, जोगेन्द्र पुत्र भरतसिंह, रामपाल पुत्र नारायण सिंह, धर्मवीर, रमेश पुत्रान सुबेसिंह पुत्र सुखलाल, प्रताप सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र लहरी, रणवीर, रमेश पुत्रान पहलादा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				26//	26 मिन	निजी	कृषि	4 0 0.2023	रामनिवास पुत्र रामपाल, दयानन्द, शिवनन्द पुत्रान पाखर, विमला विधवा व सुलेखा, रेखा, अनीता पुत्रीयान व राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, खन्दरसिंह, सुरजमान पुत्रान शेरसिंह, रतीराम, दिलबाग, अतरसिंह, सतवीर सिंह, प्रेमसिंह, भूपसिंह पुत्रान रामकिशन, महेन्द्र सिंह, महीपाल पुत्रान करणसिंह, नरेश, पवन पुत्रान राजेन्द्र, रनवीर सिंह पुत्र हरीकिशन, जिले सिंह, करतार सिंह पुत्रान सूरत सिंह, जोगेन्द्र पुत्र भरत सिंह, भीमसिंह पुत्र रंगो, कमला विधवा व गायत्री पुत्री व देवेन्द्र, नरेश पुत्रान हवासिंह, रणवीर, बलवीर, रमेश पुत्रान प्रहलाद, अंगूरी पुत्री प्रहलाद, वजीर पुत्र रंगो
					5	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
					6	निजी	कृषि	0 18 0.0455	
					7	निजी	कृषि	3 13 0.1846	
					14	निजी	कृषि	0 0 0.0000	समशेर सिंह पुत्र सुलतान, दयानन्द, सियानन्द पुत्रान पाखर, विमला विधवा व सुलेखा, रेखा, अनीता पुत्रीयान व राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, राजबाला विधवा वेदप्रकाश पुत्र देशराज, सविता पुत्री वेदप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र, बिरेंद्र, सुरेन्द्र पुत्रान वेदप्रकाश, रामनिवास पुत्र रामपाल, पुत्र पाखर
					15/1	निजी	कृषि	3 13 0.1846	
					15/2	निजी	कृषि	0 1 0.0025	रणवीर, कपूर, हरकेश पुत्रान भगवाना, भूप सिंह, महेन्द्र पुत्रान सुरजा, ओमपती विधवा व लाल सिंह, जगदीश, सुरेन्द्र, होशियार पुत्रान ईश्वर, भले, धर्मपाल, हुकमचन्द पुत्रान सरुपा, राम कुमार, कलीराम, अतर सिंह पुत्रान गोरखा, कृष्ण, राममज, ओमप्रकाश पुत्रान रामदास पुत्र माहू
					16	निजी	कृषि	1 10 0.0759	समशेर सिंह पुत्र सुलतान, दयानन्द, सियानन्द पुत्रान पाखर, विमला विधवा व सुलेखा, रेखा, अनीता पुत्रीयान व राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, राजबाला विधवा वेदप्रकाश पुत्र देशराज, सविता पुत्री वेदप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र, बिरेंद्र, सुरेन्द्र पुत्रान वेदप्रकाश, रामनिवास पुत्र रामपाल, पुत्र पाखर
				27//					रणवीर, कपूर, हरकेश पुत्रान भगवाना, भूपसिंह, महेन्द्र पुत्रान सुरजा, ओमपती विधवा व लालसिंह, जगदीश, सुरेन्द्र, होशियार पुत्रान ईश्वर, भले, धर्मपाल, हुकमचन्द पुत्रान सरुपा, रामकुमार, कलीराम, अतरसिंह पुत्रान गोरखा, कृष्ण, राममज, ओमप्रकाश पुत्रान रामदास पुत्र माहू
					11	निजी	कृषि	0 18 0.0455	
					19	निजी	कृषि	1 0 0.0506	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान छाजूराम
					20	निजी	कृषि	2 5 0.1138	समशेर सिंह पुत्र सुलतान, दयानन्द, सियानन्द पुत्रान पाखर, विमला विधवा व सुलेखा, रेखा, अनीता पुत्रीयान व राकेश, राजेश पुत्रान मानसिंह, राजबाला विधवा वेदप्रकाश पुत्र देशराज, सविता पुत्री वेदप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र, बिरेंद्र, सुरेन्द्र पुत्रान वेदप्रकाश, रामनिवास पुत्र रामपाल, पुत्र पाखर
					21	निजी	कृषि	4 0 0.2023	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान छाजूराम
					22	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
				38//	1	निजी	कृषि	0 10 0.0253	
					2	निजी	कृषि	3 10 0.1771	
					3/1	निजी	कृषि	0 19 0.0481	जयवीर पुत्र उजाला, राजवीर पुत्र वजीर सिंह
					3/2	निजी	कृषि	0 1 0.0025	सुनहरा पुत्र घतरसिंह
					7/1	निजी	कृषि	0 0 0.0000	
					7/2	पंचायत	सड़क	0 1 0.0025	हरियाणा सरकार
					8/1	निजी	कृषि	0 19 0.0481	सुनहरा पुत्र घतरसिंह
					8/2	पंचायत	सड़क	0 0 0.0000	हरियाणा सरकार
					9	निजी	कृषि	3 18 0.1973	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान छाजूराम
					13	निजी	कृषि	3 18 0.1973	
					14/1	पंचायत	सड़क	0 1 0.0025	हरियाणा सरकार
					14/2	निजी	कृषि	0 17 0.0430	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान छाजूराम श्रीमती सरोज पत्नी नरेश
					16	निजी	कृषि	1 0 0.0506	उमेश सिंह पुत्र मोती, नरेंद्र, बिरेंद्र, बिजेन्द्र, देवेन्द्र पुत्रान बिरखाराम
					17/1	निजी	कृषि	1 10 0.0759	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान साजूराम
					17/2	निजी	कृषि	1 7 0.0683	उमेश सिंह पुत्र मोती, नरेंद्र, बिरेंद्र, बिजेन्द्र, देवेन्द्र पुत्रान बिरखाराम
					18	निजी	कृषि	1 1 0.0531	रामकिशन, रनवीर सिंह, सुरजमान, रामकुमार, विजय सिंह पुत्रान साजूराम
					24	निजी	कृषि	3 16 0.1922	जगतसिंह पुत्र मौलू पुत्र उदेशम
					25	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती लक्ष्मी विधवा व कमलेश पुत्री प्रभू, रामचन्द्र, धर्मवीर, सुभाष, कुलदीप पुत्रान प्रभू, सुखविन्द, सुरेन्द्र पुत्रान प्रहलाद, समशेर सिंह पुत्र रामसिंह, तेजकोर पुत्री रामसिंह, लक्ष्मी विधवा व मूर्ती, शीतल, सावित्री पुत्रीयान प्रताप
					112	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
				47//	4	निजी	कृषि	0 2 0.0051	जियानन्द, बेदपाल पुत्रान जिलेसिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 मिन	निजी	कृषि	3 10 0.1771	5/1 जियानन्द, बेदपाल, पुत्रान जिले सिंह 5/2 श्रीमती नहनी विधवा व कमलेश पुत्री प्रभू, रामचन्द्र, धर्मवीर, सुभाष, कुलदीप पुत्रान प्रभू, सुखविन्द, सुरेन्द्र पुत्रान प्रहलाद, समरेश सिंह पुत्र रामसिंह, तेजवीर पुत्री रामसिंह, लक्ष्मी विधवा व मूर्ती, शीतल, सावित्री पुत्रीयान प्रताप
			48//	6	निजी	कृषि	2 2 0.1062	दयानन्द पुत्र मोलू मै0 हरियाणा लेदर कैमिकल्स लि0
				1/1	निजी	कृषि	0 13 0.0329	सप्तरी विधवा व रामपाल पुत्र पोहलू, सरोज पुत्री रामपाल, अजमेर पुत्र रामपाल, जसवीर पुत्र रामपाल, श्रीमती समरती पत्नी कपूरसिंह, रामकिशन पुत्र पोहलू, मगवाना पुत्र रन्धीर, चन्दन पुत्र रिसाला, बलवन्त सिंह, करतार सिंह, सत्यवान पुत्रान बनवारी लाल, जगदीर पुत्र बलवन्त, श्रीमती रामल विधवा व श्रीमती कमलेश, बिमला, सावित्री पुत्रीयान व जयमगवान, जगदीर पुत्रान देवकराम, स्नेहलता पत्नी मोहनलाल व ललिता देवी पत्नी सुखवीर सिंह, जगदीश, सतपाल पुत्रान महासिंह, मनकूल, रामेश सिंह पुत्रान शिवलाल
				1/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177	जुमला मुस्तरका मालकान
				9/2	निजी	कृषि	0 0 0.0000	जुमला मुस्तरका मालकान
				89	रास्ता	पंचायत	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
				10/1	निजी	कृषि	0 19 0.0481	जुमला मुस्तरका मालकान
				10/2	निजी	कृषि	0 17 0.0430	दयानन्द पुत्र मोलू मै0 हरियाणा लेदर कैमिकल्स लि0
				83	पंचायत	पानी की नाली	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
				11	निजी	कृषि	3 18 0.1973	दयानन्द पुत्र मोलू, मै0 हरियाणा लेदर कैमिकल्स लि0
				73	निजी	कृषि	1 0 0.0506	ग्राम पंचायत
				19/2	निजी	कृषि	2 6 0.1163	खानाकास्त श्रीमती नहनी, कमलेश व रामचन्द्र, धर्मवीर, सुभाष, कुलदीप, महासिंह, राममेश्वर, प्रहलाद सिंह, सुखविन्द, सुरेन्द्र हिस्सेदार
				20	निजी	कृषि	1 9 0.0733	श्रीमती सती विधवा व बाला पुत्री सुलतान सिंह, सुरजमल पुत्र मोला, राजकुमार पुत्र सुलतान सिंह, श्रीमती ओमवती पत्नी जगदीर सिंह व अनीता देवी पत्नी ओमवीर, संजीव पुत्र सुलतान सिंह, सुनीता पत्नी नरेन्द्र हिस्सेदार
				22	निजी	कृषि	3 8 0.1720	
				78	पंचायत	पानी की नाली	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
				23	निजी	कृषि	1 0 0.0506	दिलबाग सिंह, ओमप्रकाश, बलजीत सिंह, नफेसिंह, सजन कुमार, जितेन्द्र पुत्रान बलवन्त सिंह, सावित्री विधवा व कविता, सरिता, अंजू, पुत्रीयान धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, अजात सिंह पुत्रान भीमसिंह, राजेन्द्र सिंह, रनवीर सिंह, सुभाष पुत्रान महासिंह, कपिल देव, ललित देव पुत्रान अतरसिंह
			53//	90	पंचायत	पानी की नाली	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
				2	निजी	कृषि	1 11 0.0784	दिलबाग सिंह, ओमप्रकाश, बलजीत सिंह, नफेसिंह, सजन कुमार, जितेन्द्र पुत्रान बलवन्त सिंह, सावित्री विधवा व कविता, सरिता, अंजू, पुत्रीयान धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, अजात सिंह पुत्रान भीमसिंह, राजेन्द्र सिंह, रनवीर सिंह, सुभाष पुत्रान महासिंह, कपिल देव, ललित देव पुत्रान अतरसिंह
				3	निजी	कृषि	2 0 0.1012	
				84	पंचायत	पानी की नाली	2 0 0.1012	ग्राम पंचायत
				4	निजी	कृषि	1 0 0.0506	दिलबाग सिंह, ओमप्रकाश, बलजीत सिंह, नफेसिंह, सजन कुमार, जितेन्द्र पुत्रान बलवन्त सिंह, सावित्री विधवा व कविता, सरिता, अंजू, पुत्रीयान धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, अजात सिंह पुत्रान भीमसिंह, राजेन्द्र सिंह, रनवीर सिंह, सुभाष पुत्रान महासिंह, कपिल देव, ललित देव पुत्रान अतरसिंह
				7	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
				8	निजी	कृषि	3 8 0.1720	
				13	निजी	कृषि	3 6 0.1669	महावीर सिंह, प्रेमसिंह, बलवीर सिंह पुत्रान रतनसिंह, मूरती विधवा व सीमा, अनीता, सुनीता पुत्रीयान व जसवीर पुत्र राजकुमार
				14	निजी	कृषि	0 18 0.0455	सतवीर सिंह, गीतम पुत्र धज्जाराय
				16	निजी	कृषि	0 19 0.0481	
				17	निजी	कृषि	3 8 0.1720	श्रीमती नहनी आदि हिस्सेदारान, बलवीर व अनीता, मीनू, बिजेन्द्र हिस्सेदार
				24/1	निजी	कृषि	2 7 0.1189	गोविन्द सहाय पुत्र दियाला खानाकास्त कर्मवीर, धर्मवीर, महावीर पुत्रान हरनारायण पुत्र चन्दगी
				24/2	सरकारी	सड़क	0 4 0.0101	हरियाणा सरकार
				115	सरकारी	सड़क	0 16 0.0405	हरियाणा सरकार
				गोब का कुल क्षेत्रफल		134	3 6.7861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2 गलीली / 49	10//	25/1	निजी	कृषि	0 12 0.0304	बलवीर, सुलतान पुत्रान रामसरूप, रामकिशन पुत्र सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, शीला देवी विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					25/2	निजी	कृषि	0 13 0.0329	राजाराम पुत्र जुगलाल
					222	पंचायत	पानी की नाली	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
				12//	4	निजी	कृषि	0 1 0.0025	बलवीर, सुलतान पुत्रान रामसरूप, रामकिशन पुत्र सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, शीला देवी विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					5/1	निजी	कृषि	4 3 0.2099	
					5/2	निजी	कृषि	0 3 0.0076	रामचन्द्र, हरवंशलाल पुत्रान राधाकिशन
					6	निजी	कृषि	2 13 0.1341	बलवीर, सुलतान पुत्रान रामसरूप, रामकिशन पुत्र सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, शीला देवी विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					15	निजी	कृषि	0 2 0.0051	
				13//	1 मिन	निजी	कृषि	0 15 0.0379	रामचन्द्र, हरवंशलाल पुत्रान राधाकिशन
					10	निजी	कृषि	1 0 0.0506	रामचन्द्र, हरवंशलाल पुत्रान राधाकिशन
					11	निजी	कृषि	5 1 0.2555	बलवीर, सुलतान पुत्रान रामसरूप, रामकिशन पुत्र सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, शीला देवी विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					12	निजी	कृषि	1 0 0.0506	रामचन्द्र, हरवंशलाल पुत्रान राधाकिशन
					221	पंचायत	पानी की नाली	0 6 0.0152	ग्राम पंचायत
					242	पंचायत	पानी की नाली	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					19/1	निजी	कृषि	0 11 0.0278	बलवीर, सुलतान पुत्रान रामसरूप, रामकिशन पुत्र सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, शीला देवी विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					19/2	निजी	गैर-कृषि	0 3 0.0076	बलवीर, सुभाष पुत्रान व प्रकाश, कनहो, सुमित्रा पुत्रीयान व मंती विधवा रामसरूप, रामकिशन पुत्र व सुनहरी, जाहरो, ज्ञानवती, राजबाला, सन्तोष पुत्रीयान रामचन्द्र, ईश्वर, धर्मपाल, सतवीर, धर्मवीर, ओमप्रकाश, रामकुमार, जगदीश, विजेन्द्र पुत्रान लहरी, शीरमती पुत्री लहरी, भीमसिंह, कृष्ण, राजेन्द्र पुत्रान देशा, श्रीमती शीला विधवा व विकास पुत्र व नीतू पुत्री रघवीर
					243	पंचायत	पानी की नाली	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
					246 मिन	पंचायत	पानी की नाली	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					245	पंचायत	पानी की नाली	0 6 0.0152	ग्राम पंचायत
					903	पंचायत	पानी की नाली	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
					20/1/1	निजी	कृषि	3 16 0.1922	प्रेम सिंह पुत्र बलदेव, हरियाणा सरकार
					20/1/2	सरकारी	गैर-कृषि	0 3 0.0076	हरियाणा सरकार
					21 मिन	निजी	कृषि	0 11 0.0278	21/1 ईश्वर सिंह पुत्र बलदेव 21/2 प्रेम सिंह पुत्र बलदेव, हरियाणा सरकार
					216	पंचायत	रास्ता	3 3 0.1593	ग्राम पंचायत
					244	पंचायत	पानी की नाली	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
					23	निजी	कृषि	0 4 0.0101	गोष् पुत्र नेतराम
				27//	2	निजी	कृषि	3 13 0.1846	राजमल, रामफल पुत्रान मोलड, धर्मपाल, सुभाष, कुलदीप सिंह पुत्रान हरचन्द्र, धूपा पुत्र प्रभू
					877	पंचायत	रास्ता	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
					3	निजी	कृषि	1 0 0.0506	गोष् पुत्र नेतराम
					7	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती शान्ति विधवा व सुरेश कुमार, रमेश कुमार, रोहताश पुत्रान होशियार सिंह
					8	निजी	कृषि	3 4 0.1619	राजमल, रामफल पुत्रान मोलड, धर्मपाल, सुभाष, कुलदीप सिंह पुत्रान हरचन्द्र, धूपा पुत्र प्रभू
					9	निजी	कृषि	0 11 0.0278	
					13	निजी	कृषि	3 16 0.1922	
					14	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती शान्ति विधवा व सुरेश कुमार, रमेश कुमार, रोहताश पुत्रान होशियार सिंह
					16	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
					17	निजी	कृषि	2 14 0.1366	राजमल, रामफल पुत्रान मोलड, धर्मपाल, सुभाष, कुलदीप सिंह पुत्रान हरचन्द्र, धूपा पुत्र प्रभू
					18	निजी	कृषि	1 2 0.0556	
					24	निजी	कृषि	3 16 0.1922	
					25	निजी	कृषि	1 0 0.0506	गोष् पुत्र नेतराम
				35//	4	निजी	कृषि	3 16 0.1922	श्रीमती धौदडी पुत्री जयलाल
					5	निजी	कृषि	1 3 0.0582	गोष् पुत्र नेतराम
					6/1	निजी	कृषि	3 12 0.1821	प्रेमचन्द्र, धर्मेन्द्र, रविन्द्र पुत्रान रामकिशन

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				6/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	सुरेसिंह पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बलराज, पुत्रान सुरेसिंह, सीता विद्या व दीपक पुत्र महीपाल
				7	निजी	कृषि	0	0	0.0000	प्रेमचन्द, धर्मचन्द, रविचन्द्र पुत्रान रामकिशन
				15	निजी	कृषि	2	6	0.1163	सुरेसिंह पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बलराज, पुत्रान सुरेसिंह, सीता विद्या व दीपक पुत्र महीपाल
				231	पंचायत	रास्ता	0	8	0.0202	ग्राम पंचायत
				16	निजी	कृषि	0	0	0.0000	सुरेसिंह पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बलराज, पुत्रान सुरेसिंह, सीता विद्या व दीपक पुत्र महीपाल
			36//	920	पंचायत	रास्ता	0	3	0.0076	ग्राम पंचायत
				10	निजी	कृषि	0	13	0.0329	हरीराम पुत्र भगवाना, राजवीर, जगवीर, वीरेन्द्र पुत्रान हरीराम
				11	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				19	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				20	निजी	कृषि	4	18	0.2479	सुरेसिंह पुत्र नेकी, राजेन्द्र, बलराज, पुत्रान सुरेसिंह, सीता विद्या व दीपक पुत्र महीपाल
				21	निजी	कृषि	3	16	0.1922	मीनसिंह पुत्र गनेली, जयवीर सिंह, संजय सिंह, संदीप पुत्रान मीनसिंह
				22	निजी	कृषि	0	18	0.0455	हरीराम पुत्र भगवाना, राजवीर, जगवीर, वीरेन्द्र पुत्रान हरीराम
			52//	1	निजी	कृषि	0	4	0.0101	मीनसिंह पुत्र गनेली, जयवीर सिंह, संजय सिंह, संदीप पुत्रान मीनसिंह
				2	निजी	कृषि	3	12	0.1821	मीनसिंह
				3/1	निजी	कृषि	0	11	0.0278	हरीराम पुत्र भगवाना, राजवीर, जगवीर, वीरेन्द्र पुत्रान हरीराम
				3/2	निजी	कृषि	0	5	0.0126	कृष्ण पुत्र उजाला सिंह, जिले सिंह, वजीर सिंह, माना पुत्रान फतेसिंह
				8	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				9	निजी	कृषि	3	16	0.1922	करतार सिंह पुत्र चतर सिंह, श्रीमती मर्या पुत्री सुभा, छतर सिंह, ताराचन्द पुत्रान नानहड
				12	निजी	कृषि	0	11	0.0278	
				13	निजी	कृषि	3	6	0.1669	
				14	निजी	कृषि	1	0	0.0506	कृष्ण पुत्र उजाला सिंह, जिले सिंह, वजीर सिंह, माना पुत्रान फतेसिंह
				17	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				18	निजी	कृषि	3	10	0.1771	करतार सिंह पुत्र चतर सिंह, श्रीमती मर्या पुत्री सुभा, छतर सिंह, ताराचन्द पुत्रान नानहड
				23	निजी	कृषि	0	14	0.0354	
				24	निजी	कृषि	3	4	0.1619	
				25/1	निजी	कृषि	0	19	0.0481	कृष्ण पुत्र उजाला सिंह, जिले सिंह, वजीर सिंह, माना पुत्रान फतेसिंह
			65//	249	पंचायत	रास्ता	0	3	0.0076	ग्राम पंचायत
				250	पंचायत	रास्ता	0	9	0.0228	ग्राम पंचायत
				4	निजी	कृषि	3	7	0.1695	श्रीमती कमला पत्नी राजेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व मुकेश, नीलम पुत्रीयान राजेन्द्र पुत्र मुन्नी, ओमपती पत्नी हुकमा, श्रीमती कृष्णा पुत्री हुकमा भानपती पत्नी ओमप्रकाश, रीना, सीता पुत्रीयान व जयवीर, महेन्द्र, जीतेन्द्र पुत्रान ओमप्रकाश
				5	निजी	कृषि	0	16	0.0405	अतरसिंह, राजसिंह, सुरेश पुत्रान व कृष्णा, सुनीता पुत्रीयान मर्यासिंह, बिजेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान दयानन्द
				6/1	निजी	कृषि	0	14	0.0354	
				6/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	टेका पुत्र भागू
				6/3	निजी	कृषि	2	12	0.1315	श्रीमती कमला पत्नी राजेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व मुकेश, नीलम पुत्रीयान राजेन्द्र पुत्र मुन्नी, ओमपती पत्नी हुकमा, श्रीमती कृष्णा पुत्री हुकमा भानपती पत्नी ओमप्रकाश, रीना, सीता पुत्रीयान व जयवीर, महेन्द्र, जीतेन्द्र पुत्रान ओमप्रकाश
				7	निजी	कृषि	1	4	0.0607	
				15	निजी	कृषि	3	16	0.1922	
				16	निजी	कृषि	1	16	0.0911	
			66//	10/2	निजी	कृषि	0	2	0.0051	टेका पुत्र भागू
				11	निजी	कृषि	1	0	0.0506	टेका पुत्र भागू
				19	निजी	कृषि	0	0	0.0000	रामकुमार, ओमप्रकाश, रामनिवास, प्रेम, सेवा पुत्रान गोपी
				20/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				20/2	निजी	कृषि	2	0	0.1012	ओमप्रकाश पुत्र मुन्नी, कृष्णा पुत्री हुकमा व भागमती पत्नी ओमप्रकाश, श्रीमती कमला पत्नी राजेन्द्र, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व मुकेश, नीलम पुत्रीयान राजेन्द्र
				21	निजी	कृषि	3	16	0.1922	किशनदत्त पुत्र गृगन
				22	निजी	कृषि	1	2	0.0556	रामकुमार, ओमप्रकाश, रामनिवास, प्रेम, सेवा पुत्रान गोपी
			86//	1	निजी	कृषि	3	16	0.1922	किशनदत्त पुत्र गृगन, रिबीराम, अश्वनी कुमार, अजय कुमार पुत्रान किशनदत्त
				2	निजी	कृषि	1	2	0.0556	रामकुमार, ओमप्रकाश, रामनिवास, प्रेम, सेवा पुत्रान गोपी
				8	निजी	कृषि	1	0	0.0506	8/1 दलवीर पुत्र नियादर 8/2 राममेहर पुत्र किशनलाल
				9	निजी	कृषि	3	16	0.1922	किशनदत्त पुत्र गृगन, रिबीराम, अश्वनी कुमार, अजय कुमार पुत्रान किशनदत्त
				10	निजी	कृषि	0	1	0.0025	
				12	निजी	कृषि	3	16	0.1922	
				13	निजी	कृषि	1	0	0.0506	दरिया सिंह, रूपाली पुत्रान निगाहिया, पूषी, राममेहर पुत्रान शेरसिंह
				17/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	17/1/1 जगदीश पुत्र लहरी, 17/1/2 धर्मवीर पुत्र लहरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				17/2	निजी	कृषि	0 17	0.0430	राजेन्द्र पुत्र ईश्वर, श्रीमती सरस्वती पत्नी प्रेमचन्द
				18	निजी	कृषि	3 12	0.1821	किशनदत्त पुत्र गूगन, रिषीराम, अश्वनी कुमार, अजय कुमार पुत्रान
				19/1	निजी	कृषि	0 4	0.0101	किशनदत्त
				23	निजी	कृषि	3 16	0.1922	कृष्ण, रमेश, सुरेश पुत्रान व रामरती पत्नी टेकराम
				24	निजी	कृषि	0 19	0.0481	चन्द्रशमान पुत्र सूरतसिंह
			102//	3	निजी	कृषि	0 9	0.0228	महावीर, प्रकाश, रनवीर पुत्रान हरीराम, विमला विधवा व काली, नीता पुत्रीयान ईश्वर, बिजेन्द्र, अनिल पुत्रान ईश्वर
				4	निजी	कृषि	3 6	0.1669	पंचायत खानाकाशत सूरत सिंह पुत्र झण्डू गै0 मी0 5/1
				5/1	पंचायत	कृषि	0 19	0.0481	
				5/2	पंचायत	कृषि	0 0	0.0000	
				440	पंचायत	रास्ता	0 3	0.0076	ग्राम पंचायत
				441	पंचायत	रास्ता	0 8	0.0202	ग्राम पंचायत
				6	निजी	कृषि	0 19	0.0481	श्रीमती कौशल्या पत्नी रामफल, श्रीमती सीमा पुत्री अमृतलाल, धर्मवीर, जोगेन्द्रसिंह पुत्रान रिष्णुपाल, अमित, अशोक पुत्रान जगदीश, बलवीर, दलवीर पुत्रान किशनलाल, कृष्ण पुत्र महेन्द्र, निर्मला विधवा व कुसुम पुत्री अजीतसिंह
				7	निजी	कृषि	3 8	0.1720	दरिया सिंह, रूपाली पुत्रान निगाहिया, पुधी, राममेहर पुत्रान शेरसिंह
				14	पंचायत	कृषि	0 16	0.0405	ग्राम पंचायत
				15/1	पंचायत	कृषि	3 0	0.1518	ग्राम पंचायत
				15/2	पंचायत	गैर-कृषि	0 16	0.0405	ग्राम पंचायत
				16	पंचायत	कृषि	3 14	0.1872	ग्राम पंचायत
				25	पंचायत	कृषि	1 8	0.0708	ग्राम पंचायत
			103//	11	पंचायत	गैर-कृषि	0 4	0.0101	ग्राम पंचायत
				20	पंचायत	गैर-कृषि	1 10	0.0759	ग्राम पंचायत
				21/1	पंचायत	कृषि	2 8	0.1214	ग्राम पंचायत
				21/2	पंचायत	कृषि	1 6	0.0658	ग्राम पंचायत
				22	पंचायत	गैर-कृषि	0 0	0.0000	ग्राम पंचायत
			127//	1	निजी	कृषि	3 16	0.1922	रामनिवास, जगदीश पुत्रान जागेराम व हरियाणा सरकार
				2	पंचायत	कृषि	1 0	0.0506	ग्राम पंचायत
				9	पंचायत	कृषि	1 0	0.0506	ग्राम पंचायत
				10	निजी	कृषि	3 16	0.1922	रामनिवास, जगदीश पुत्रान जागेराम व हरियाणा सरकार
				11	निजी	कृषि	0 0	0.0000	डेरा बाबा ब्रहमपुरी ग्राहलमाम बाबा सुबेपुरी चेला लक्ष्मण पुरी गुसाई
				12	निजी	कृषि	3 16	0.1922	खानाकाशत ईश्वर पुत्र फतवा गै0 मी0
				13	पंचायत	कृषि	1 0	0.0506	ग्राम पंचायत
				18	पंचायत	कृषि	1 0	0.0506	ग्राम पंचायत
				19	निजी	कृषि	3 16	0.1922	डेरा बाबा ब्रहमपुरी ग्राहलमाम बाबा सुबेपुरी चेला लक्ष्मण पुरी गुसाई
				22	निजी	कृषि	0 3	0.0076	खानाकाशत ईश्वर पुत्र फतवा गै0 मी0
				23	निजी	कृषि	3 14	0.1872	
				253	निजी	गैर-कृषि	0 11	0.0278	ग्राम पंचायत
				254	निजी	गैर-कृषि	0 3	0.0076	ग्राम पंचायत
				24/1/1	पंचायत	कृषि	0 15	0.0379	ग्राम पंचायत
				24/1/2	निजी	कृषि	0 1	0.0025	हरियाणा सरकार
				24/2/1	निजी	गैर-कृषि	0 1	0.0025	हरियाणा सरकार
				24/2/2	निजी	कृषि	0 1	0.0025	धूपसिंह, धर्मपाल पुत्रान व अंगूरी, किताबी, कृष्ण पुत्रीयान सरूपा, वेदकोर विधवा व रेणु, कमलेश, सन्तोष पुत्रीयान व योगेश पुत्र सुभाष, महावीर, धर्मवीर पुत्रान व ओमपती, रामपती पुत्रीयान फूलसिंह, भगता पुत्र शेरचन्द, धर्मपाल पुत्र छोदराम, विष्णुदत्त पुत्र हरफूल, ईश्वर पुत्र श्योचन्द, कृष्ण कुमार पुत्र दलीप, नारायणदत्त पुत्र रामकिशन, फूलसिंह पुत्र नौरंग, रामगोपाल, सुघनसिंह पुत्रान दरिया सिंह, कुलदीप सिंह, कर्मवीर पुत्रान रामगोपाल, नवजीत, विनीत सिंह पुत्रान सुघनसिंह, जसवन्त, अशोक पुत्रान धूपसिंह, नरेन्द्र, जोगेन्द्र पुत्रान जगतसिंह, राजेन्द्र, सुबेसिंह पुत्रान दीपचन्द
			143//	3	निजी	कृषि	3 6	0.1669	श्रीमती शान्ति विधवा व बेदो पुत्री व राजेन्द्र, राधेश्याम, रमेश, प्रकाश पुत्रान ताराचन्द, सतनारायण पुत्र व श्रीमती गोमा, केतो पुत्रीयान कुन्दन, बनारसी पुत्र व श्रीमती मूरती पुत्री देशराज, सूरतसिंह, रामेश्वर दास, बालकिशन पुत्रान व लक्ष्मी, सोना पुत्रीयान शिवनारायण, रामवतार, वारू, हैमराज, होशियार पुत्रान व श्रीमती जीयनी, शीला, नीता पुत्रीयान व रिसालो विधवा जगतसिंह, श्रीमती निर्मला विधवा व पुरुषोत्तम पुत्र व शीचो पुत्री राधेश्याम, रन्धीर सिंह पुत्र टेकराम, राजेश कुमार पुत्र रन्धीर सिंह, राजवीर पुत्र भलेराम

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				4/2	निजी	कृषि	1	0	0.0506	राजवीर सिंह, रामवीर सिंह, महावीर, श्रीमंगयान पुत्रान भले, भलेराम, सतनारायण, रिछपाल पुत्रान व श्रीमती कलावती विधवा बदलू, पवन कुमार पुत्र राममगत, शिवकुमार, रामतिलक पुत्रान श्रीराम, श्रीराम, राममगत पुत्रान बदरी, सूरजमान, राजमल पुत्रान माहलू, चन्दरमान पुत्र हरीराम, सुशील कुमार, सतीश कुमार, राधेश्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरीराम, जयप्रकाश, सत्यप्रकाश पुत्रान राजमल, बारुराम, राममेहर, जयशियाराम पुत्रान सूरजमल व ओमप्रकाश, ताराचन्द, रोशनलाल पुत्रान व श्रीमती राजो पुत्री छोदू, रोशनलाल पुत्र छोदू.
				6/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	
				6/2	निजी	कृषि	0	17	0.0430	श्रीमती शान्ति विधवा व बेदो पुत्री व राजेन्द्र, राधेश्याम, रमेश, प्रकाश पुत्रान ताराचन्द, सतनारायण पुत्र व श्रीमती गोमा, केलो पुत्रीयान कुन्दन, बनारसी पुत्र व श्रीमती मुरती पुत्री देशराज, सुरतसिंह, रामेश्वर दास, बालकिशन पुत्रान व लक्ष्मी, सोना पुत्रीयान शिवनारायण, रामवतार, बारू, हेमराज, होशियार पुत्रान व श्रीमती जीवनी, शीला, गीता पुत्रीयान व रिसालो विधवा जगतसिंह, श्रीमती निर्मला विधवा व पुरुषोत्तम पुत्र व रीचो पुत्री राधेश्याम, रन्धीर सिंह पुत्र टंकराम, राजेश कुमार पुत्र रन्धीर सिंह, राजवीर पुत्र भलेराम
				7 मिन	निजी	कृषि	3	6	0.1669	
				8	निजी	कृषि	0	8	0.0202	
				14	निजी	कृषि	3	14	0.1872	श्रीमती रम्यो विधवा व रमेश पुत्र जयकरण, अमे, जोरा, सुधीर पुत्रान मुन्ही, श्रीमती रामप्यारी विधवा मुन्ही
				15	निजी	कृषि	1	18	0.0961	ओमप्रकाश, ताराचन्द, रोशनलाल पुत्रान व श्रीमती राजो पुत्री छोदू, रोशनलाल पुत्र छोदू, राजवीर सिंह, रामवीर सिंह, महावीर, श्रीमंगयान पुत्रान भले, भलेराम, सतनारायण, रिछपाल पुत्रान व श्रीमती कलावती विधवा बदलू, पवन कुमार पुत्र राममगत, शिवकुमार, रामतिलक पुत्रान श्रीराम, श्रीराम, राममगत पुत्रान बदरी, सूरजमान पुत्र माहलू, राजमल पुत्र माहलू, चन्दरमान पुत्र हरीराम, सुशील कुमार, सतीश कुमार, राधेश्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरीराम, जयप्रकाश, सत्यप्रकाश पुत्रान राजमल, बारुराम, राममेहर, जयशियाराम पुत्रान सूरजमल
				16	निजी	कृषि	3	0	0.1518	श्रीमती रम्यो विधवा व रमेश पुत्र जयकरण, अमे, जोरा, सुधीर पुत्रान मुन्ही, श्रीमती रामप्यारी विधवा मुन्ही
				17	निजी	कृषि	0	16	0.0405	श्रीमती रम्यो विधवा व रमेश पुत्र जयकरण, अमे, जोरा, सुधीर पुत्रान मुन्ही, श्रीमती रामप्यारी विधवा मुन्ही
				25	निजी	कृषि	3	12	0.1821	
				89	पंचायत	रास्ता	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
			144//	20	निजी	कृषि	0	3	0.0076	जैना पुत्र खेमचन्द, जियाराम, रघवीर पुत्रान व रोशनी पुत्री मुशददी
				21/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	रामकुमार, रामकरण, सीतकुमार, पुत्रान हरनारायण, हरनारायण पुत्र कन्हैया
				21/2 मिन	निजी	कृषि	0	19	0.0481	21/2/1 श्रीमती पुत्र सुमेरसिंह, जियाराम, रघवीर पुत्रान व रोशनी पुत्री मुशददी, 21/2/2 जैना पुत्र खेमचन्द, जियाराम, रघवीर पुत्रान व रोशनी पुत्री मुशददी
				897	पंचायत	रास्ता	0	1	0.0025	ग्राम पंचायत
			167//	1/1 मिन	निजी	कृषि	1	12	0.0809	हकिमचन्द, रामचन्द, राममेहर पुत्रान रिसाला, अजीत सिंह पुत्र धनीराम, हरीओम पुत्र धनीराम, बालादेवी विधवा मोहनलाल
				1/2	निजी	कृषि	0	18	0.0455	जियाराम, रघवीर पुत्रान मुशददीराम, ईश्वर, ओमप्रकाश, रमेश पुत्रान जयनारायण, बारुराम, राममेहर, जयशियाराम पुत्रान सूरजमान, जयप्रकाश, सत्यप्रकाश पुत्रान राजमल, चन्दरमान पुत्र हरीराम, सुशील, सतीश, राधेश्याम, स्वदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण, पुत्र तिलक, शिव कुमार पुत्रान श्रीराम, भलेराम, सतनारायण, रिछपाल पुत्रान बदलू, रोशन, ताराचन्द, ओमप्रकाश पुत्रान छोदू, पवन पुत्र राममगत
				2/2	निजी	कृषि	0	1	0.0025	जोगेन्द्र, जगदीश, रविन्द्र, सुरेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान व सन्तोष, रामवती पुत्रीयान रामकिशन
				9	निजी	कृषि	0	19	0.0481	चन्दर सिंह, प्रतापसिंह, रतन सिंह, अजमेर पुत्रान चन्दगीराम, राजेश कुमार पुत्र प्रेमसिंह
				10	निजी	कृषि	4	2	0.2074	पवन कुमार पुत्र राममगत, शिव कुमार, रामतिलक पुत्रान श्रीराम, सुशील कुमार, सतीश कुमार, राधेश्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण, चन्दमान पुत्र हरीराम खानाकास्त न्यू इण्डिया शिक्षा समिति गौली पट्टेदार
				11	निजी	कृषि	0	19	0.0481	पवन कुमार पुत्र राममगत, शिव कुमार, रामतिलक पुत्रान श्रीराम, सुशील कुमार, सतीश कुमार, राधेश्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण, चन्दमान पुत्र हरीराम खानाकास्त न्यू इण्डिया शिक्षा समिति गौली पट्टेदार
				446	पंचायत	रास्ता	0	19	0.0481	ग्राम पंचायत
				12/1	निजी	कृषि	2	0	0.1012	करनसिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह
				12/2	निजी	कृषि	1	0	0.0506	12/2/2 करनसिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह 12/2/1 करनसिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह, श्रीमती छोटी विधवा व आजाद सिंह, नरेश कुमार, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व प्रेम, निर्मला, सरोज, सुनीता पुत्रीयान मेदासिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					13	निजी	कृषि	0 0 0.0000	13/1 करनसिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह, श्रीमती छोटी विद्या व आजाद सिंह, नरेश कुमार, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व प्रेम, निर्मला, सरोज, सुनीता पुत्रीयान उमेदसिंह 13/2 करनसिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह 13/3 श्रीमती प्रतीक्षा पत्नी रमेशचन्द
					18	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती प्रतीक्षा पत्नी रमेशचन्द
					19	निजी	कृषि	3 16 0.1922	19/1 करन सिंह, राजेन्द्र पुत्रान जिले सिंह 19/2 अजीत सिंह पुत्र सुरत सिंह
					23/1	निजी	कृषि	1 7 0.0683	रमेश, राजेश पुत्रान शेरसिंह
					23/2	निजी	कृषि	1 0 0.0506	रमेश, राजेश पुत्रान शेरसिंह
			168//	5/2	निजी	कृषि	1 8 0.0708	हकिमचन्द, रामचन्द, राममहेश पुत्रान रिसाला, अजीत सिंह पुत्र धनीराम, हरीओम पुत्र धनीराम, बालादेवी विद्या मोहनलाल	
				445	पंचायत	रास्ता	0 10 0.0253	ग्राम पंचायत	
				गौव का कुल क्षेत्रफल			239 18 12.1356		
		3 जे जे बन्ती /39	4//	22	निजी	कृषि	2 13 0.1341	जीता पुत्र मातु पुत्र सिंघा, टेक राम पुत्र मातु, ओम प्रकाश, प्रेम पुत्रान सुरजमल, रणवीर, धर्मवीर, फुल कवर, पवन कुमार, विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान जीता	
			8//	21/1	निजी	कृषि	0 5 0.0126	जगदीर पुत्र राम सिंह पुत्र नथु	
				21/2	निजी	कृषि	0 1 0.0025	अतर सिंह, जयवीर, जगवीर, जसवीर पुत्रान राम सिंह पुत्र नथु व श्रीमती सुरेश विद्या व मोनीका, परीना, आशा पुत्रीयान व मनदीप पुत्र जय मगवान पुत्र राम सिंह	
			9//	225	पंचायत	गैर-कृषि	0 6 0.0152	ग्राम पंचायत	
				2	निजी	कृषि	0 4 0.0101	जीता पुत्र मातु पुत्र सिंघा, टेक राम पुत्र मातु, ओम प्रकाश, प्रेम पुत्रान सुरजमल, रणवीर, धर्मवीर, फुल कवर, पवन कुमार, विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान जीता	
				3	निजी	कृषि	3 16 0.1922		
				4	निजी	कृषि	0 19 0.0481		
				7	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती अंगूरी पुत्री रनजीत, श्रीमती रामरती पुत्री रनजीत, जयवीर, जसवीर, जगवीर पुत्रान राम सिंह, विवेक पुत्र जय प्रकाश	
				8/1	निजी	कृषि	3 17 0.1948	मुकेश कुमार पुत्र हरी राम	
				8/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177		
				13/2	निजी	कृषि	0 7 0.0177	श्रीमती अंगूरी पुत्री रनजीत, श्रीमती रामरती पुत्री रनजीत, जयवीर, जसवीर, जगवीर पुत्रान राम सिंह, विवेक पुत्र जय प्रकाश	
				14	निजी	कृषि	3 15 0.1897	14/1 राज कुमार पुत्र अंगूरी व 14/2 अंगूरी, रामरती पुत्रीयान रणजीत, जयवीर, जसवीर पुत्रान राम सिंह, विवेक पुत्र जय प्रकाश	
				15	निजी	कृषि	1 0 0.0506	उदय पुत्र शीशू, जिले सिंह पुत्र उदय सिंह, सुशील कुमार, अनिल कुमार, सतीश कुमार, सुनील कुमार पुत्रान विर सिंह, बलराज, बलजीत, सुभाष पुत्रान रिसाला पुत्र शिशू	
				16	निजी	कृषि	1 10 0.0759		
				17	निजी	कृषि	4 2 0.2074		
				24/2	निजी	कृषि	0 10 0.0253		
				25/1	निजी	कृषि	1 3 0.0582	मीना देवी पत्नी करन सिंह पुत्र हरी सिंह, श्रीमती शान्ति देवी विद्या व सदीप, प्रदीप पुत्रान अजाद पुत्र उमेद सिंह, श्रीमती छोटी विद्या व नरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती प्रेम, सरोज, निर्मला, सुनिता पुत्रीयान उमेद सिंह पुत्र काशी	
				25/2	निजी	कृषि	1 5 0.0632	हरजान सिंह पुत्र काशी	
				25/3	निजी	कृषि	1 0 0.0506	कर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान जिले सिंह पुत्र काशी राम	
			16//	5/1	निजी	कृषि	2 13 0.1341	हरजान सिंह पुत्र काशी	
				5/2	निजी	कृषि	1 3 0.0582	मीना देवी पत्नी करन सिंह पुत्र हरी सिंह, श्रीमती शान्ति देवी विद्या व सदीप, प्रदीप पुत्रान अजाद पुत्र उमेद सिंह, श्रीमती छोटी विद्या व नरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती प्रेम, सरोज, निर्मला, सुनिता पुत्रीयान उमेद सिंह पुत्र काशी	
				6	निजी	कृषि	1 0 0.0506		
			17//	1	निजी	कृषि	0 19 0.0481	जीता पुत्र मातु पुत्र सिंघा, टेक राम पुत्र मातु, ओम प्रकाश, प्रेम पुत्रान सुरजमल, रणवीर, धर्मवीर, फुल कवर, पवन कुमार, विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान जीता	
				9	निजी	कृषि	1 0 0.0506		
				10	निजी	कृषि	2 17 0.1442	मीना देवी पत्नी करन सिंह पुत्र हरी सिंह, श्रीमती शान्ति देवी विद्या व सदीप, प्रदीप पुत्रान अजाद पुत्र उमेद सिंह, श्रीमती छोटी विद्या व नरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान व श्रीमती प्रेम, सरोज, निर्मला, सुनिता पुत्रीयान उमेद सिंह पुत्र काशी	
				221	पंचायत	रास्ता	0 7 0.0177	ग्राम पंचायत	
				89	मिन	निजी	गैर-कृषि	11 11 0.5843	89/1 हरियाणा सरकार 89/2 माईराम पुत्र राजू, जय सिंह पुत्र गोकल, श्रीमती घोघडी विद्या व भगवानी, भतेरी पुत्रीयान व चंदगी, ताराचन्द, फूल सिंह पुत्रान चन्दो पुत्रीयान रंगी, रामजन पुत्र दालू देशराज, श्रीचन्द पुत्रान जुगलाल, रिसाला, बारी सिंह पुत्रान शिशू, रंजीत पुत्र नेता, श्रीमती लिक्की विद्या व जोरा सिंह, राम सिंह पुत्रान व सोई, खजानी, धनकौर पुत्रीयान चन्दू, काशीराम पुत्रान सुहिया व अन्य हिस्सेदार
				428	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत	

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				12	निजी	कृषि	0	18	0.0455	कुलदीप, रमेश पुत्रान कुप सिंह, कुपे सिंह, जय प्रकाश पुत्रान हरी चन्द पुत्र छोदु
				18	निजी	कृषि	0	1	0.0025	
				19	निजी	कृषि	0	18	0.0455	
				221	निजी	कृषि	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
				23/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	कुलदीप, रमेश पुत्रान कुप सिंह, कुपे सिंह, जय प्रकाश पुत्रान हरी चन्द पुत्र छोदु
				26/1						गैर मुनकीन असादी— जयप्रकाश, लालचहादुर पुत्रान व सरस्वती, प्रकाश, बिमला पुत्रीयान पोडकर पुत्र रामजीलाल, ओमप्रकाश, प्रेम पुत्रान सुरजमल पुत्र भातु व श्रीमती नमकीर विधवा व जयमगवान, धर्मवीर, जगदीश पुत्रान व श्रीमती संतोष, कमला पुत्रीयान रामचन्द्र पुत्र रामजीलाल
				272	सरकारी	सड़क	0	16	0.0405	
				2/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	हरियाणा सरकार पैक कम्पन्नी लि
				2/2	सरकारी	सड़क	0	3	0.0076	बाबू राम, राममैहर, सीया राम पुत्रान सुरजमल, जय प्रकाश, सताप्रकाश पुत्रान राजमल, पवन कुमार पुत्र राम भगत, शिव कुमार, राम तिलक पुत्रान श्री राम, चन्दर भान पुत्र हरी राम, सुरील कुमार, सतीश कुमार, राखे श्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण खानाकारत श्री राम, राम भगत पुत्रान बदरी प्रसाद, हरी राम पुत्र राम चन्द, भरुशम, रामेहर, जसीयाराम पुत्रान सुरजमल हिस्सेदारान
				123 मिन	सरकारी	सड़क	3	2	0.1568	123/1 प्रांतीय सरकार, 123/2 ग्राम पंचायत
				3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	बाबू राम, राममैहर, सीया राम पुत्रान सुरजमल, जय प्रकाश, सताप्रकाश पुत्रान राजमल, पवन कुमार पुत्र राम भगत, शिव कुमार, राम तिलक पुत्रान श्री राम, चन्दर भान पुत्र हरी राम, सुरील कुमार, सतीश कुमार, राखे श्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण खानाकारत श्री राम, राम भगत पुत्रान बदरी प्रसाद, हरी राम पुत्र राम चन्द, भरुशम, रामेहर, जसीयाराम पुत्रान सुरजमल गैर मैरुसीयान
				7	निजी	गैर-कृषि	1	0	0.0506	चन्दमान पुत्र हरिसम, राजेन्द्र, सुखवीर, कृष्णदत्त, नेहरू पुत्रान चन्दमान पुत्र हरिसम, सुरील कुमार, सतीश कुमार, राखे श्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण
				8/1	निजी	कृषि	1	2	0.0556	बाबू राम, राममैहर, सीया राम पुत्रान सुरजमल, जय प्रकाश, सताप्रकाश पुत्रान राजमल, पवन कुमार पुत्र राम भगत, शिव कुमार, राम तिलक पुत्रान श्री राम, चन्दर भान पुत्र हरी राम, सुरील कुमार, सतीश कुमार, राखे श्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण खानाकारत श्री राम, राम भगत पुत्रान बदरी प्रसाद, हरी राम पुत्र राम चन्द, भरुशम, रामेहर, जसीयाराम पुत्रान सुरजमल हिस्सेदारान
				8/2	निजी	कृषि	2	10	0.1265	गिन्दोडी विधवा व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान व राजो पुत्री छोदु पुत्र नेकी, भले राम पुत्र व लक्ष्मी पुत्री व कलावती विधवा बबलु पुत्र नेकी, श्रीमती रामरती विधवा व संतोष, उषा, सुरील पुत्रीयान सतनारायण पुत्र बदलु, श्रीमती सावीत्री विधवा व राजेन्द्र, राममज पुत्रान रिछपाल पुत्र बदलु खानाकारत भलेराम हिस्सेदारान
				9	निजी	कृषि	0	0	0.0000	
				13	निजी	कृषि	3	12	0.1821	गिन्दोडी विधवा व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान व राजो पुत्री छोदु पुत्र नेकी, भले राम पुत्र व लक्ष्मी पुत्री व कलावती विधवा बबलु पुत्र नेकी, श्रीमती रामरती विधवा व संतोष, उषा, सुरील पुत्रीयान सतनारायण पुत्र बदलु, श्रीमती सावीत्री विधवा व राजेन्द्र, राममज पुत्रान रिछपाल पुत्र बदलु खानाकारत गिन्दोडी विधवा व राजो पुत्री व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान छोदु हिस्सेदारान
				102	पंचायत	रास्ता	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत
				14	निजी	कृषि	0	18	0.0455	गिन्दोडी विधवा व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान व राजो पुत्री छोदु पुत्र नेकी, भले राम पुत्र व लक्ष्मी पुत्री व कलावती विधवा बबलु पुत्र नेकी, श्रीमती रामरती विधवा व संतोष, उषा, सुरील पुत्रीयान सतनारायण पुत्र बदलु, श्रीमती सावीत्री विधवा व राजेन्द्र, राममज पुत्रान रिछपाल पुत्र बदलु खानाकारत गिन्दोडी विधवा व राजो पुत्री व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान छोदु हिस्सेदारान
				16	निजी	कृषि	1	0	0.0506	गिन्दोडी विधवा व ओम प्रकाश, तारा चन्द, रोशन लाल, रामेहर पुत्रान व राजो पुत्री छोदु पुत्र नेकी, भले राम पुत्र व लक्ष्मी पुत्री व कलावती विधवा बबलु पुत्र नेकी, श्रीमती रामरती विधवा व संतोष, उषा, सुरील पुत्रीयान सतनारायण पुत्र बदलु, श्रीमती सावीत्री विधवा व राजेन्द्र, राममज पुत्रान रिछपाल पुत्र बदलु खानाकारत हरी राम, बदलु हिस्सेदारान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				17	निजी	कृषि	3 10	0.1771	पवन कुमार पुत्र राम भगत, शिव कुमार, समतिलक पुत्रान श्री राम, सुरील कुमार, सतीश कुमार, राधे श्याम, सुदेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण, चन्दर भान पुत्र हरी राम
				18	निजी	कृषि	0 2	0.0051	
				24	निजी	कृषि	3 14	0.1872	
				25	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
			38//	4	निजी	कृषि	0 9	0.0228	
				5/1	निजी	कृषि	3 5	0.1644	
				5/2	निजी	कृषि	0 5	0.0126	
				224	पंचायत	गैर-कृषि	0 3	0.0076	ग्राम पंचायत
				5/3	निजी	कृषि	0 6	0.0152	ईश्वर, ओम प्रकाश, रमेश पुत्रान जय नारायण पुत्र खेम चन्द व श्रीमती रमती विधवा व कृष्णा, शीला पुत्रीयान जय नारायण पुत्र खेम चन्द, जिया राम, रघुवीर पुत्रान मसुदी पुत्र दयोतीया
				6/1	निजी	कृषि	2 16	0.1416	6/1/1 हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द पुत्र रिसाला 6/1/2 हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द, बाला देवी विधवा मोहन लाल, हरी ओम पुत्र धनी राम, अजीत सिंह पुत्र धनी राम
				6/2	निजी	कृषि	0 15	0.0379	6/2/1 हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द पुत्र रिसाला 6/2/2 हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द, बाला देवी विधवा मोहन लाल, हरी ओम पुत्र धनी राम, अजीत सिंह पुत्र धनी राम
				15/2	निजी	कृषि	0 11	0.0278	हुकुमचन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला, बाला देवी विधवा मोहन लाल, हरी ओम पुत्र धनी राम, अजीत सिंह पुत्र धनी राम, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान रामचन्द, कमलेश, सुदेश, राजरानी पुत्री रामचन्द
			39//	1	निजी	कृषि	0 8	0.0202	ईश्वर, ओम प्रकाश, रमेश पुत्रान जय नारायण पुत्र खेम चन्द व श्रीमती रमती विधवा व कृष्णा, शीला पुत्रीयान जय नारायण पुत्र खेम चन्द, जिया राम, रघुवीर पुत्रान मसुदी पुत्र दयोतीया
				439	पंचायत	रास्ता	0 2	0.0051	ग्राम पंचायत
				10	निजी	कृषि	0 18	0.0455	हुकुमचन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला, बाला देवी विधवा मोहन लाल, हरी ओम पुत्र धनी राम, अजीत सिंह पुत्र धनी राम, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान रामचन्द, कमलेश, सुदेश, राजरानी पुत्री रामचन्द
				11/1	निजी	रास्ता	0 2	0.0051	हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द, बाला देवी विधवा मोहन लाल, हरी ओम पुत्र धनी राम, अजीत सिंह पुत्र धनी राम
				11/2	निजी	कृषि	3 13	0.1846	हुकुम चन्द, रामेहर पुत्रान रियाला पुत्र भगवाना, बिजेन्द्र, राजेश पुत्रान राम चन्द पुत्र रिसाला
				12	निजी	कृषि	1 0	0.0506	सुरजीत, सुभाष पुत्रान ओम प्रकाश, श्रीमती शीला देवी विधवा व मुकेश, संदीप, आशीष पुत्रान व श्रीमती मोनीका पुत्री तारीफ पुत्र ओम प्रकाश
				19	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				20	निजी	कृषि	4 0	0.2023	ओम प्रकाश, नरफे सिंह, धुप सिंह पुत्रान श्री चन्द पुत्र जुगलाल
				21/1	पंचायत	कृषि	1 1	0.0531	ग्राम पंचायत
				22	पंचायत	कृषि	2 18	0.1467	ग्राम पंचायत
				23	निजी	कृषि	1 0	0.0506	सुरजीत, सुभाष पुत्रान ओम प्रकाश, श्रीमती शीला देवी विधवा व मुकेश, संदीप, आशीष पुत्रान व श्रीमती मोनीका पुत्री तारीफ पुत्र ओम प्रकाश
			48//	2/1	पंचायत	कृषि	1 2	0.0556	ग्राम पंचायत
				106	पंचायत	रास्ता	0 15	0.0379	ग्राम पंचायत
				2/2	निजी	कृषि	1 17	0.0936	कर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान जिले सिंह पुत्र काशी राम, श्रीमती मीना देवी पत्नी करन सिंह पुत्र डीरा सिंह
				3	निजी	कृषि	1 1	0.0531	सुरजीत, सुभाष पुत्रान ओम प्रकाश, श्रीमती शीला देवी विधवा व मुकेश, संदीप, आशीष पुत्रान व श्रीमती मोनीका पुत्री तारीफ पुत्र ओम प्रकाश
				105	पंचायत	रास्ता	0 5	0.0126	ग्राम पंचायत
				7/2	निजी	कृषि	0 16	0.0405	धर्मवीर दत्तक पुत्र भरत सिंह, नाहनी विधवा व मुख्तार, सत्यवाम पुत्रान समेर, राजीव कुमार पुत्र दयानन्द, रामरती पुत्री समेर सिंह, ओम कुमार, सुरेश, रमेश पुत्रान कर्ण सिंह, अजाद, रामफल, राज कुमार पुत्रान जोरा सिंह, कपूर सिंह पुत्र छोदु व अन्य हिस्सेदार
				8	निजी	कृषि	2 8	0.1214	मागे राम पुत्र रामजन, सतपाल, विजय पाल, धर्मपाल, कर्ण सिंह पुत्रान मागे राम, सुरेश कुमार, अजाद सिंह पुत्रान चन्दगी, तारा चन्द, कुल सिंह पुत्र रंगी
				9	निजी	कृषि	1 10	0.0759	
				13	निजी	कृषि	3 16	0.1922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				14	निजी	कृषि	1	0	0.0506	धर्मवीर दत्तक पुत्र भरत सिंह, माहवीर विद्या व मुख्तार, सत्यवान पुत्रान समेर, राजीव कुमार पुत्र दयानन्द, रामरती पुत्री समेर सिंह, ओम कुमार, सुरेश, रमेश पुत्रान कर्ण सिंह, अजाय, रामफल, राज कुमार पुत्रान जोरा सिंह, कपुर सिंह पुत्र छोडू व अन्य हिन्दुस्तान
				17/1	निजी	कृषि	0	7	0.0177	जसवन्त सिंह, अशोक कुमार पुत्रान धुप सिंह
				17/2	निजी	कृषि	0	13	0.0329	नरेन्द्र, जोगिन्द पुत्रान जगत सिंह
				18	निजी	कृषि	3	16	0.1922	18/1 उदय पुत्र शीशू, जिले सिंह पुत्र उदय सिंह, सुरील कुमार, अनिल कुमार, सतीश कुमार, सुनील कुमार पुत्रान विर सिंह, बलराज, बलजीत, सुभाष पुत्रान रिसाला पुत्र शिशू 18/2 जिले सिंह पुत्र उदय सिंह पुत्र कुन्जा
				23	निजी	कृषि	0	1	0.0025	उदय पुत्र शीशू, जिले सिंह पुत्र उदय सिंह, सुरील कुमार, अनिल कुमार, सतीश कुमार, सुनील कुमार पुत्रान विर सिंह, बलराज, बलजीत, सुभाष पुत्रान रिसाला पुत्र शिशू
				24	निजी	कृषि	3	16	0.1922	
				25/1	निजी	कृषि	0	12	0.0304	नरेन्द्र, जोगिन्द पुत्रान जगत सिंह
				25/2	निजी	कृषि	0	8	0.0202	जिले सिंह, बलवान पुत्र किरानलाल पुत्र सुब्रह्म
			63//	4	निजी	कृषि	3	16	0.1922	छत्तर सिंह, सुलतान सिंह, रामफल पुत्रान मिश्री पुत्र पहलाब
				5	निजी	कृषि	1	2	0.0556	विरेन्द्र पुत्र देवी राम पुत्र सुरजन
				6	निजी	कृषि	3	8	0.1720	श्रीमती स्नेही पत्नी मुपेन्द्र सिंह पुत्र मुख्तार सिंह
				7	निजी	कृषि	0	6	0.0152	
				15	निजी	कृषि	3	5	0.1644	महावीर पुत्र कन्हैया
				16	निजी	कृषि	0	9	0.0228	बलवन्त, रामकण शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विद्या व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष, अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
			64//	10	निजी	कृषि	0	9	0.0228	विरेन्द्र पुत्र देवी राम पुत्र सुरजन
				93	निजी	गैर-कृषि	0	12	0.0304	शामलात ठोला बलु हर्षद रसद रकबा वालीदेह व अन्य
				20/1	निजी	कृषि	0	8	0.0202	महावीर पुत्र कन्हैया
				20/2	निजी	कृषि	3	13	0.1846	बलवन्त, शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विद्या व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष, अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
				21	निजी	कृषि	3	12	0.1821	
			69//	1	निजी	कृषि	0	16	0.0405	बलवन्त, शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विद्या व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष, अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
				2	निजी	कृषि	3	1	0.1543	
				3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	3/1 कै० के० ओ० इन्टरराइज जय जयती प्रो० संजीव सरोही 3/2 कालीराम पुत्र हरि राम, इस्तोकार पुत्र जमरोद पुत्र अस्मर अली
				8/1	निजी	कृषि	0	9	0.0228	दिलबाग, ओम प्रकाश, बलजीत सिंह, नफे सिंह, सज्जन कुमार, जितेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती इस्मती देवी पुत्री बलवन्त सिंह श्रीमती निर्मला, सुरिता पुत्री व कपिल देव, ललित देव पुत्रान अतर सिंह, हरपाल पुत्र केदार सिंह
				8/2	निजी	कृषि	0	11	0.0278	धर्मवीर दत्तक पुत्र प्रभु उर्फ भरत सिंह, श्रीमती ब्रह्मा विद्या व अंगूरी, किराना पुत्रीयान व ओम कुमार, सुरेश, रमेश पुत्रान करन सिंह, श्रीमती लक्ष्मी विद्या व आजाब, रामफल, राजकवर पुत्रान व शीला पुत्रीयान जोरा, श्रीमती कमलेश, सुदेश, बली, पूनम पुत्रीयान सज्जन
				9	निजी	कृषि	3	18	0.1973	बलवन्त, शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विद्या व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
				12	निजी	कृषि	1	8	0.0708	बलवन्त, शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विद्या व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष, अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
				13/1	निजी	कृषि	2	8	0.1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				13/2 मिन	निजी	कृषि	0 17	0.0430	धर्मवीर दत्तक पुत्र प्रमू उर्फ भरत सिंह, श्रीमती ब्रह्मा विधवा व अंगूरी, किराना पुत्रीयान व ओम कुमार, सुरेश, रमेश पुत्रान करन सिंह, श्रीमती लक्ष्मी विधवा व आजाद, रामफल, राजकवर पुत्रान व शीला पुत्रीयान जोरा, श्रीमती कमलेश, सुदेश, बली, पूनम पुत्रीयान सजन
				14	निजी	कृषि	0 3	0.0076	
				17 मिन	निजी	कृषि	1 0	0.0506	जय भगवान, राज कुमार पुत्रान रामहर
				18/1	निजी	कृषि	3 1	0.1543	बलवन्त, शक्ति पुत्रान शेर सिंह, श्रीमती फुलपती विधवा व सतपाल, सुरेश, उमेश पुत्रान व राजबाला, कविता पुत्री राम करन पुत्र शेर सिंह, जीत सिंह, करतार सिंह, सतवीर, महीपाल, सुभाष अशोक कुमार पुत्रान जसवन्त
				18/2	निजी	कृषि	0 15	0.0379	मुख्त्यार सिंह, रामफल, जगवीर, बलवान पुत्रान भगवाना व श्रीमती शान्ति विधवा व विरेन्द्र पुत्र व श्रीमती अनीला, मन्जु पुत्रीयान महावीर पुत्र भगवाना
				23	निजी	कृषि	3 5	0.1644	
				111 मिन	पंचायत	गैर-कृषि	0 11	0.0278	ग्राम पंचायत
				24/1	निजी	गैर-कृषि	0 1	0.0025	अजाद, रामफल, राज कुमार पुत्रान जोरा सिंह पुत्र छोटे, जसवन्त सिंह, अशोक कुमार पुत्रान धूप सिंह, नरेन्द्र, जोगीन्दर पुत्रान जगत सिंह पुत्र शीश पाल, कपूर सिंह, कर्ण सिंह पुत्रान छोटे, भरत पुत्र छोटे
				24/2	निजी	कृषि	0 19	0.0481	नरेन्द्र, जोगीन्दर पुत्रान जगत सिंह
				25/3	निजी	कृषि	0 0	0.0000	जसवन्त सिंह, अशोक कुमार पुत्रान धूप सिंह
			83//	3/2	निजी	कृषि	0 0	0.0000	अजाद, रामफल, राज कुमार पुत्रान जोरा सिंह पुत्र छोटे, जसवन्त सिंह, अशोक कुमार पुत्रान धूप सिंह, नरेन्द्र, जोगीन्दर पुत्रान जगत सिंह पुत्र शीश पाल, कपूर सिंह, कर्ण सिंह पुत्रान छोटे, भरत पुत्र छोटे
				4	निजी	कृषि	4 4	0.2125	
				5	निजी	कृषि	1 1	0.0531	जसवन्त सिंह, अशोक कुमार पुत्रान धूप सिंह
				227	पंचायत	रास्ता	0 5	0.0126	ग्राम पंचायत
				गौब का कुल क्षेत्रफल			175 15	8.8905	
		4 करकोटा / 48	101//	1	निजी	कृषि	0 0	0.0000	श्रीमती जगमती पुत्री अमर सिंह, बजीर सिंह पुत्र अमर सिंह, कर्मवीर पुत्र शेर सिंह, महीपाल, जयपाल पुत्रान महावीर, शेर सिंह, वजीर सिंह पुत्रान अमर सिंह, मांगे राम पुत्र हरनारायण, रघवीर, बलवीर, कल्ली राम पुत्रान हरनारायण, श्रीमती रेशमा, मुला, चन्दरपती, शान्ति पुत्रीयान हरनारायण व अन्य
				10	निजी	कृषि	1 5	0.0632	
				11/1	पंचायत	कृषि	0 2	0.0051	ग्राम पंचायत
				माईनर	सरकारी	कनाल	2 14	0.1366	243-हरियाणा सरकार
				11/2/1	पंचायत	कृषि	0 4	0.0101	ग्राम पंचायत
				11/2/2	निजी	कृषि	1 8	0.0708	समुन्दर सिंह, राज सिंह, आजाद सिंह, जोगीन्दर सिंह पुत्रान हजारी पुत्र मामन
				12/1	निजी	कृषि	0 12	0.0304	दया किशन, लख्मी पुत्रान जोगी राम, करन सिंह पुत्र बलदेवा, दिलबाग, जसवीर पुत्रान मुख्तीयारा पुत्र बलदेवा, दयानन्द पुत्र हीरा, रमेश, सुनेहरी, निरंजन, कबुल पुत्रान दरिया
				12/2	निजी	कृषि	0 4	0.0101	दया किशन, लख्मी पुत्रान जोगी राम, करन सिंह पुत्र बलदेवा, दिलबाग, जसवीर पुत्रान मुख्तीयारा पुत्र बलदेवा, दयानन्द पुत्र हीरा, रमेश, सुनेहरी, निरंजन, कबुल पुत्रान दरिया
				19	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				20/1	निजी	कृषि	2 16	0.1416	समुन्दर सिंह, राज सिंह, आजाद सिंह, जोगीन्दर सिंह पुत्रान हजारी पुत्र मामन
				20/2	निजी	कृषि	1 3	0.0582	समुन्दर सिंह, राज सिंह, आजाद सिंह, जोगीन्दर सिंह पुत्रान हजारी, श्रीमती लाडो विधवा हजारी
				21/2	निजी	कृषि	0 4	0.0101	अशोक कुमार, राजु पुत्रान महेन्द्र सिंह, अनील कुमार, अमीत कुमार
				22	निजी	कृषि	3 11	0.1796	पुत्रान दिलावर सिंह
				23	निजी	कृषि	0 18	0.0455	सतवीर, जगदीश, धर्मवीर, बिजेन्द्र, अशोक, सुरेन्द्र पुत्रान ओमप्रकाश, संजय पुत्र कृष्ण, विनोद पुत्र रामकंवर, सतवीर पुत्र लेखराम, जगवीर, राजपाल, सत्यवान, पुत्रान लेखराम पुत्र शंकर
			102//	6	निजी	कृषि	3 14	0.1872	श्रीमती जगमती पुत्री अमर सिंह, बजीर सिंह पुत्र अमर सिंह, कर्मवीर पुत्र शेर सिंह, महीपाल, जयपाल पुत्रान महावीर, शेर सिंह, वजीर सिंह पुत्रान अमर सिंह, मांगे राम पुत्र हरनारायण, रघवीर, बलवीर, कल्ली राम पुत्रान हरनारायण, श्रीमती रेशमा, मुला, चन्दरपती, शान्ति पुत्रीयान हरनारायण व अन्य
				7	निजी	कृषि	0 5	0.0126	
				15	निजी	कृषि	0 13	0.0329	
			106//	828	पंचायत	रास्ता	0 6	0.0152	ग्राम पंचायत
				2	निजी	कृषि	3 10	0.1771	समुन्दर सिंह, राज सिंह, आजाद सिंह, जोगीन्दर सिंह पुत्रान हजारी, श्रीमती लाडो विधवा हजारी

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				3/1	निजी	कृषि	0	4	0.0101	सतबीर, जगदीश, धर्मवीर, बिजेन्द्र, अशोक, सुरेन्द्र पुत्रान ओम प्रकाश, संजय पुत्र कृष्ण, विनोद पुत्र राम कंवर, सतबीर पुत्र लेख राम, जगबीर, राजपाल, सत्यवान, पुत्रान लेखराम पुत्र संकर
				3/2	निजी	कृषि	0	16	0.0405	रमेश कुमार पुत्र श्री चन्द
				8	निजी	कृषि	0	16	0.0405	
				239	पंचायत	तालाब	11	2	0.5615	ग्राम पंचायत
				268	पंचायत	रास्ता	0	5	0.0126	ग्राम पंचायत
				14	निजी	कृषि	1	0	0.0506	दलीप सिंह पुत्र नाहना, रलदु पुत्र नाहना, वजीर सिंह, प्रकाश सिंह, महाबीर सिंह, राम कुंवर पुत्रान रलदु
				17	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				829	पंचायत	रास्ता	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
				23/2 मिन	निजी	कृषि	0	17	0.0430	दलीप सिंह पुत्र नाहना, रलदु पुत्र नाहना, वजीर सिंह, प्रकाश सिंह, महाबीर सिंह, राम कुंवर पुत्रान रलदु
				24/1	निजी	कृषि	2	8	0.1214	
				24/2	निजी	कृषि	0	17	0.0430	
				25/1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	रघबीर सिंह, पुत्र श्री चन्द
				132//	11	निजी	0	12	0.0304	सुनेहरा सिंह पुत्र श्री चन्द
					20	निजी	1	0	0.0506	सुनेहरा सिंह पुत्र श्री चन्द
					21	निजी	3	2	0.1568	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द
					22/1	निजी	0	17	0.0430	सुनेहरा सिंह पुत्र श्री चन्द
					22/2	निजी	0	3	0.0076	प्रीता पुत्र गिरधारा, साधु राम पुत्र जीता, उत्तम, सुनील पुत्रान प्रीता पुत्र गिरधारा
				133//						ईश्वर सिंह, पखीर पुत्रान व श्रीमती किताबो, कुली देवी पुत्रीयान जोरा सिंह, श्रीमती लकमण कियवा व धीर सिंह, कुलदीप, दलेल, बालदन, बलवान पुत्रान व श्रीमती सुमित्रा पुत्री जगत सिंह, सुरजमल पुत्र भरतु, श्रीमती गुधा कियवा व श्रीमती मोहगा, ब्रह्मा, राजकला, बिमला पुत्रीयान व विजेन्द्र, जोगिन्द्र पुत्रान फत्ते सिंह पुत्र भरतु
					4	निजी	3	16	0.1922	
					5	निजी	1	0	0.0506	रघबीर सिंह पुत्र श्री चन्द
					6	निजी	1	10	0.0759	सुनेहरा सिंह पुत्र श्री चन्द
					7	निजी	3	16	0.1922	ईश्वर सिंह, पखीर पुत्रान व श्रीमती किताबो, कुली देवी पुत्रीयान जोरा सिंह, श्रीमती लकमण कियवा व धीर सिंह, कुलदीप, दलेल, बालदन, बलवान पुत्रान व श्रीमती सुमित्रा पुत्री जगत सिंह, सुरजमल पुत्र भरतु, श्रीमती गुधा कियवा व श्रीमती मोहगा, ब्रह्मा, राजकला, बिमला पुत्रीयान व विजेन्द्र, जोगिन्द्र पुत्रान फत्ते सिंह पुत्र भरतु
					14	निजी	0	3	0.0076	
					15	निजी	3	13	0.1846	
					16	निजी	3	10	0.1771	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द
					25	निजी	0	17	0.0430	
				136//	1/1	निजी	2	0	0.1012	दया किशन, राम कुमार पुत्रान बलदेवा व रतु पुत्री जय भगवान
					1/2	निजी	2	0	0.1012	बलदेवा पुत्र हरनारायण खानाकारत बलदेवा हिस्सेदार तबादला कुनीन्दा साधु राम पुत्र जीता राम
					2	निजी	1	8	0.0708	प्रीता पुत्र गिरधारा, साधु राम पुत्र जीता, उत्तम, सुनील पुत्रान प्रीता पुत्र गिरधारा
					10	निजी	1	3	0.0582	दया किशन, राम कुमार पुत्रान बलदेवा व रतु पुत्री जय भगवान
				159//						22/1- दयानन्द, महा सिंह पुत्रान कपूर सिंह, नफे सिंह पुत्र कुन्दन, रामदास, मान सिंह, सपुन्द सिंह पुत्रान मातु पुत्र सरजीत, दया सिंह पुत्र व कुली कियवा रामकिशन पुत्र मातु व अन्य
					22	निजी	1	11	0.0784	
				160//						ओमवती पत्नी राममेहर, सतबीर सिंह, जसबीर सिंह पुत्रान जिले सिंह, भीम सिंह पुत्र फते, कप्तान पुत्र जिले सिंह, जिले सिंह पुत्र मोलड, कपिल पुत्र ईश्वर सिंह पुत्र जिले सिंह, राममेहर पुत्र सुरत सिंह, श्रीमती किताबो, प्रेम्पु पुत्रीया व रामफल पुत्र उदे सिंह, श्रीमती रामकली कियवा व रामनिवास, अज्जक पुत्रान व पिकी पुत्री बलराज, रणबीर पुत्र उदय सिंह, ओम सिंह पुत्र जिले सिंह पुत्र मोलड राम, विक्की, अनुप पुत्रान रामेहर
					2	निजी	6	12	0.3339	
					3	निजी	3	0	0.1518	
					4	निजी	0	1	0.0025	
				162//						दिमान सिंह पुत्र तारा चन्द, ओम सिंह, सत्यवान पुत्रान लखमी चन्द, धर्मपाल पुत्र राम चन्दर, प्रीथी सिंह, अजायब सिंह पुत्रान हेम राज, विजय सिंह, अत्तर सिंह पुत्रान सिध राम, मेहर सिंह, मोहर सिंह पुत्रान गंगा सिंह, करम सिंह, अरविन्द पुत्रान सतबीर सिंह
					18	निजी	0	7	0.0177	
					24	निजी	2	0	0.1012	
					25	निजी	1	2	0.0556	
					गोब का कुल क्षेत्रफल		89	1	4.5047	
			5 जुलाना/33	12//	480	निजी	0	4	0.0101	जुमला मालकान व हस्ब रसद रकबा वासीदेह
					9 मिन	निजी	0	14	0.0354	9/1 नफे सिंह पुत्र रिसाला पुत्र खूबाराम
					10	निजी	1	17	0.0936	रनवीर पुत्र रामचन्द्र पुत्र रलदु
					12	निजी	3	0	0.1518	रनवीर पुत्र रामचन्द्र पुत्र रलदु
					13 मिन	निजी	1	0	0.0506	13/1 नफे सिंह पुत्र रिसाला, 13/2 रामचन्द्र पुत्र भगवाना, रामफल, बिजेन्द्र पुत्रान रामचन्द्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18	निजी	कृषि	1 0 0.0506	सत्यनारायण पुत्र भगवाना पुत्र बखतावर, श्रीमती रामरती पत्नी सत्यनारायण पुत्र भगवाना, श्रीमती निमला देवी विधवा व रामरती माता व भारती पुत्री व मोहित, रोहित पुत्रान जितेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, विजेन्द्र सिंह पुत्र किताब सिंह पुत्र फतेह सिंह
				19	निजी	कृषि	3 6 0.1669	कपूर सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र रलदू, सुमित्रा, कमली, सावित्री, शीला
				22	निजी	कृषि	0 4 0.0101	पुत्रीयान रामचन्द्र पुत्र रलदू
				23	निजी	कृषि	3 5 0.1644	
				24	निजी	कृषि	0 17 0.0430	सत्यनारायण पुत्र भगवाना पुत्र बखतावर, श्रीमती रामरती पत्नी सत्यनारायण पुत्र भगवाना, श्रीमती निमला देवी विधवा व रामरती माता व भारती पुत्री व मोहित, रोहित पुत्रान जितेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, विजेन्द्र सिंह पुत्र किताब सिंह पुत्र फतेह सिंह
				482	निजी	रास्ता	0 1 0.0025	जुमला मालकान व हस्ब रसद रकबा वासीदेह
				485	निजी	रास्ता	0 4 0.0101	जुमला मालकान व हस्ब रसद रकबा वासीदेह
			24//	3	निजी	कृषि	3 6 0.1669	कपूर सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र रलदू, सुमित्रा, कमली, सावित्री, शीला पुत्रीयान रामचन्द्र पुत्र रलदू
				4	निजी	कृषि	0 18 0.0455	बृहडिया पुत्र दलीप पुत्र सन्ता, कृष्ण पत्नी बृहडिया पुत्र दलीप
				6	निजी	कृषि	1 10 0.0759	
				7	निजी	कृषि	2 14 0.1366	जगदीश, इन्दपाल पुत्रान दिवान सिंह पुत्र मांगेराम, श्रीमती धनो देवी विधवा व बीरमती, सरोज, बुला, ज्ञानपति पुत्रीयान दिवान सिंह पुत्र मांगेराम, नरेन्द्र, सचिन पुत्रान रमेश पुत्र दिवान सिंह, बलवीर सिंह पुत्र भलेराम
				8	निजी	कृषि	0 10 0.0253	
				14/1	निजी	कृषि	1 9 0.0733	श्रीमती सोनिया पुत्री समुन्द सिंह पुत्र जिले सिंह वासी सुन्दर बिहार (नई दिल्ली) मकान नं 2/91
				14/2	निजी	कृषि	0 16 0.0405	
				15	निजी	कृषि	2 19 0.1492	बृहडिया पुत्र दलीप पुत्र सन्ता, कृष्ण पत्नी बृहडिया पुत्र दलीप
				16/1	निजी	कृषि	1 16 0.0911	
				16/2	निजी	कृषि	0 8 0.0202	श्रीमती सोनिया पुत्री समुन्द सिंह पुत्र जिले सिंह वासी सुन्दर बिहार (नई दिल्ली) मकान नं 2/91
				17	निजी	कृषि	0 1 0.0025	
			25//	11	निजी	कृषि	0 0 0.0000	ओमकार, सूबे सिंह पुत्रान व शीला पुत्री भलेराम पुत्र श्याकण राजदीप पुत्र व सुनीता पुत्री प्रेमो पुत्र भलेराम, श्रीमती गायत्री विधवा व कृष्णा, शकुन्तला, निमला पुत्रीयान व बलराज साजन सिंह, जय सिंह, खांद पुत्रान ताराचन्द्र पुत्र श्याकण, श्रीमती कृष्ण विधवा व अजमेर सिंह पुत्रान अतर सिंह पुत्र भलेराम
				20	निजी	कृषि	3 12 0.1821	
				21	निजी	कृषि	6 0 0.3035	
			28//	21	निजी	कृषि	5 2 0.2580	शमशेर सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र मुन्शीराम, हरकेश पुत्र धर्म सिंह, कृष्ण कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह, श्रीमती चन्दरो पत्नी धर्म सिंह पुत्र देईराम, रमेश कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह अमित पुत्र कर्मवीर पुत्र फते सिंह
				22	निजी	कृषि	4 0 0.2023	
				23	निजी	कृषि	2 6 0.1163	
				422	निजी	रास्ता	0 8 0.0202	जुमला मालकान व हस्ब रसद रकबा वासीदेह
				24	निजी	कृषि	0 9 0.0228	शमशेर सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र मुन्शीराम, हरकेश पुत्र धर्म सिंह, कृष्ण कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह, श्रीमती चन्दरो पत्नी धर्म सिंह पुत्र देईराम, रमेश कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह अमित पुत्र कर्मवीर पुत्र फते सिंह
			29//	19	निजी	कृषि	0 7 0.0177	श्रीमती ज्ञानो रामप्यासी पुत्रीयान व प्रीतराम रामेहर पुत्रान देईराम पुत्र अमृत
				20	निजी	कृषि	1 2 0.0556	श्रीमती ज्ञानो रामप्यासी पुत्रीयान व प्रीतराम, रामेहर पुत्रान देईराम पुत्र अमृत
				पानी की नाली	सरकारी	पानी की नाली	1 16 0.0911	185-हरियाणा सरकार
				21	निजी	कृषि	6 7 0.3212	ईश्वर, कर्मवीर पुत्रान व श्रीमती ममकोर, शीला पुत्रीयान दयानन्द श्रीमती गुड्डी विधवा व सुमीत, अमित पुत्रान व काली, मन्जू पुत्रीयान जयपाल पुत्र दयानन्द
				22/1	निजी	कृषि	3 5 0.1644	महावीर पुत्र छोदू पुत्र प्रधी, रमेश पुत्र प्रधी पुत्र छोदू, रामकिशन पुत्र छोदू पुत्र भोला, श्रीमती समो पत्नी जागराम पुत्र रामचरण, सुरजमान पुत्र फूलचन्द पुत्र चेताराम, रामफल पुत्र प्रधी पुत्र छोदू, संजय पुत्र ओमप्रकाश पुत्र रामभगत, राजवीर पुत्र रामकिशन पुत्र छोदू, जयवीर पुत्र रामकिशन पुत्र छोदू, रामपाल पुत्र रामकिशन आदि हिस्सेदार
				22/2	निजी	कृषि	4 0 0.2023	
				23	निजी	कृषि	7 4 0.3642	शमशेर सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र मुन्शीराम, हरकेश पुत्र धर्म सिंह, कृष्ण कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह, श्रीमती चन्दरो पत्नी धर्म सिंह पुत्र देईराम, रमेश कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह अमित पुत्र कर्मवीर पुत्र फते सिंह
				24	निजी	कृषि	4 11 0.2302	
				25	निजी	कृषि	4 17 0.2453	
			30//	11	निजी	कृषि	3 13 0.1846	जय सिंह, भरथ सिंह, रण सिंह पुत्रान मोतड़ पुत्र बुन्दी
				12	निजी	कृषि	0 9 0.0228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				16	निजी	कृषि	1	0.0860	श्रीमती ज्ञानो रामप्यारी पुत्रीयान व प्रीतराम रामेहर पुत्रान देईराम पुत्र अमृत	
				17/1	निजी	कृषि	0	0.0000		
				184	माईनर सरकारी	माईनर	3	0.1518	हरियाणा सरकार	
				17/2	निजी	कृषि	2	0.1290	श्रीमती सुन्दर विद्या व श्रीमती कमला, करतारी पुत्रीयान धर्मचन्द पुत्र मातु, किताब सिंह, राजेन्द्र, रामशेर, जगदीश पुत्रान धर्मचन्द पुत्र मातु, ईश्वर पुत्र धर्मचन्द पुत्र मातु	
				18	निजी	कृषि	5	0.2757	हजूर पुत्र टेकराम पुत्र रूपचन्द	
				19/1	निजी	कृषि	2	0.1416	जय सिंह, भरथ सिंह, रण सिंह पुत्रान मोलढ पुत्र बुन्टी	
				19/2	निजी	कृषि	4	0.2378	हजूर पुत्र टेकराम पुत्र रूपचन्द	
				20	निजी	कृषि	5	0.2580		
				22	निजी	कृषि	0	0.0278	जय सिंह, भरथ सिंह, रण सिंह पुत्रान मोलढ पुत्र बुन्टी	
				23	निजी	कृषि	2	0.1467		
				24	निजी	कृषि	4	0.2403	श्रीमती सुन्दर विद्या व श्रीमती कमला, करतारी पुत्रीयान धर्मचन्द पुत्र मातु, किताब सिंह, राजेन्द्र, रामशेर, जगदीश पुत्रान धर्मचन्द पुत्र मातु, ईश्वर पुत्र धर्मचन्द पुत्र मातु	
				25/1	निजी	कृषि	1	0.0885		
				25/2	निजी	कृषि	1	0.0885	ईश्वर,कर्मवीर पुत्रान व श्रीमती ममकौर, शीला पुत्रीयान दयानन्द श्रीमती गुब्बडी विद्या व सुमीत, अमित पुत्रान व काली,मन्जू पुत्रीयान जयपाल पुत्र दयानन्द	
			31//	1	निजी	कृषि	1	0.0506	ओमकार, सुबे सिंह पुत्रान व शीला पुत्री भलेराम पुत्र श्याकण,राजदीप पुत्र व सुनीता पुत्री प्रेमो पुत्र भलेराम, श्रीमती गायत्री विद्या व कृष्णा, शकुन्तला, मिमला पुत्रीयान व बलराज, साजन सिंह, जय सिंह, चांद पुत्रान ताराचन्द्र पुत्र श्याकण, श्रीमती कृष्ण विद्या व अजमेर सिंह पुत्रान अतर सिंह पुत्र भलेराम	
				6	निजी	कृषि	0	0.0278	जय सिंह, भरथ सिंह, रण सिंह पुत्रान मोलढ पुत्र बुन्टी	
				7	निजी	कृषि	4	0.2504	सविन्द्र पुत्र सतीश पुत्र रिसाला, सतीश कुमार पुत्र व डेरा परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा, श्रीमती ईन्द्रावती, सन्तोष विद्या व विकास, योगेन्द्र पुत्रान व कविता, पूजा पुत्रीयान कृष्ण कुमार पुत्र रिसाल सिंह	
				8/1	निजी	कृषि	1	0.0607		
				8/2	निजी	कृषि	4	0.2504		
				9	निजी	कृषि	1	0.0733		
				13/1	निजी	कृषि	0	0.0152		
				14/1	निजी	कृषि	4	0.2150		
				14/2	निजी	कृषि	0	0.0000	हजूर सिंह पुत्र टेकराम पुत्र रूपचन्द	
				15/1	निजी	कृषि	3	0.1593	जय सिंह, भरथ सिंह, रण सिंह पुत्रान मोलढ पुत्र बुन्टी	
				15/2	निजी	कृषि	4	0.2074		
				16	निजी	कृषि	0	0.0430	हजूर पुत्र टेकराम पुत्र रूपचन्द	
			50//	2	निजी	कृषि	0	0.0025	महावीर पुत्र छोदू पुत्र प्रवी,रमेश पुत्र प्राथी पुत्र छोदू,रामकिशन पुत्र छोदू पुत्र मोला, श्रीमती समो पत्नी जागेराम पुत्र रामस्वरूप सूरजमान पुत्र फूलचन्द पुत्र चेताराम, रामफल पुत्र प्राथी पुत्र छोदू, संजय पुत्र ओमप्रकाश पुत्र राममगत, राजवीर पुत्र रामकिशन पुत्र छोदू,जयवीर पुत्र रामकिशन पुत्र छोदू, रामपाल पुत्र रामकिशन आदि हिस्सेदार	
				3	मिन	निजी	कृषि	0	0.0278	3/1 रामशेर सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र मुन्हीराम, हरकेश पुत्र धर्म सिंह,कृष्ण कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह, श्रीमती चन्दरो पत्नी धर्म सिंह पुत्र देईराम, रमेश कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह अमित पुत्र कर्मवीर पुत्र फते सिंह, 3/2 सतवीर, दलवीर पुत्रान बलवन्त सन्तोष विद्या ईश्वर बलजीत, रणजीत पुत्रान ईश्वर
				4	निजी	कृषि	1	0.0683	रामशेर सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र मुन्हीराम, हरकेश पुत्र धर्म सिंह,कृष्ण कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह, श्रीमती चन्दरो पत्नी धर्म सिंह पुत्र देईराम, रमेश कुमार पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह अमित पुत्र कर्मवीर पुत्र फते सिंह	
				5	निजी	कृषि	2	0.1113		
			51//	1	निजी	कृषि	3	0.1568		
				2	निजी	कृषि	4	0.2125		
				3	निजी	कृषि	5	0.2782		
				4	निजी	कृषि	7	0.3794	रामधारी पुत्र हरनाम पुत्र कान्हा, कलीराम, सतावीर सिंह, बलवीर सिंह पुत्रान व श्रीमती भूर्ती देवी, कृष्णा देवी, दर्शना देवी, कमलेश देवी पुत्रीयान जते सिंह पुत्र धनिया	
				5	निजी	कृषि	5	0.2706		
				6	निजी	कृषि	3	0.1619		
				7	निजी	कृषि	0	0.0202		
			52//	1	निजी	कृषि	1	0.0961		
				रास्ता	निजी	रास्ता	0	0.0228	506-ग्राम पंचायत	
				8/2	निजी	कृषि	0	0.0455	सत्यवान कप्तान सिंह, कवम सिंह,आजाद सिंह पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, लीलाराम पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, बाबूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र खुनाथ, साहब सिंह, अजीत सिंह पुत्रान राजादास पुत्र रतीराम	
				9	निजी	कृषि	5	0.2605	शान्ती पत्नी सुबे सिंह पुत्र श्रीराम, खजानी पत्नी प्रताप सिंह पुत्र श्रीराम, चन्दराम, रामनियास, कर्मवीर पुत्रान फते पुत्र श्रीराम फते सिंह, सुबे सिंह प्रताप सिंह पुत्रान श्रीराम	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				10	निजी	कृषि	6	17	0.3465	रामधारी पुत्र हरनाम पुत्र कान्हा, कलीराम, सतबीर सिंह, बलबीर सिंह पुत्रान व श्रीमती मूर्ती देवी, कृष्णा देवी, दर्शन देवी, कमलेश देवी पुत्रीयान फते सिंह पुत्र धनिया	
				11/2	निजी	कृषि	0	3	0.0076	प्रवीण पुत्र प्रताप, सुखचैन पुत्र सुबे सिंह, चन्दराम, रामनिवास, कर्मबीर पुत्रान फते सिंह	
				12	निजी	कृषि	3	16	0.1922	सत्यवान कप्तान सिंह, कदम सिंह, आजाद सिंह पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, लीलाराम पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, बाबूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र खुनाथ, साहब सिंह, अजीत सिंह पुत्रान राजादास पुत्र रतीराम	
				13/1	निजी	कृषि	2	8	0.1214		
				206	सरकारी	सडक	1	4	0.0607	भोपाल, धर्मवीर, सुखवीर पुत्रान देशरज, ओमप्रकाश पुत्र रामभगत, देशराज, रामभगत पुत्रान शिवलाल, श्रीमती सुन्दरी विधवा व राजेन्द्र सिंह, जगदीश पुत्रान व कमला, करतारो पुत्रीयानधर्मचन्द, रामनारायण, रामभज पुत्रान रिसाला, श्रीमती सावित्री विधवा जयकरण, श्रीमती बख्तावरी विधवा व महावीर पुत्र व श्रीमती कमला, रामरति शकुन्तला पुत्रीयानअमर सिंह, ऋषिकेश, रोहताश पुत्रान मधुरा, फूलचन्द, चन्द्रभान, सज्जन, राजेन्द्र पुत्रान टिका, श्रीमती सिद्धी विधवा व सलोचन्द, मुन्नी, विमला, गीता पुत्रीयानव नरेश, शिव कुमार पुत्रान देवकीनन्दन पुत्र टिका, नरेन्द्र, जोगिन्द्र कुमार पुत्रान देशराज, दिनदयाल पुत्र हरबन्स, जगन्नाथ, शिवदत्त, राधेश्याम, विश्वनाथ पुत्रान चन्दनलाल व अन्य	
				13/2	निजी	कृषि	3	12	0.1821	सत्यवान कप्तान सिंह, कदम सिंह, आजाद सिंह पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, लीलाराम पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, बाबूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र खुनाथ, साहब सिंह, अजीत सिंह पुत्रान राजादास पुत्र रतीराम	
				14	निजी	कृषि	2	6	0.1163		
				16/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	लीलाराम पुत्र राजेन्द्र पुत्र देवकराम	
				16/2	निजी	कृषि	2	19	0.1492	दिलबाग पुत्र जुगलाल पुत्र भाबर, रानी विधवा व ज्योती, मोनिका पुत्रीयान रामकुमार पुत्र हवा सिंह, फते सिंह पुत्र श्रीराम पुत्र तोखा, सुखचैन पुत्र सुबे सिंह पुत्र श्रीराम, प्रवीण पुत्र प्रताप पुत्र श्रीराम, रामचन्द, जिले सिंह, हवा सिंह, बलवान पुत्रान सुनहरा पुत्र श्रीपाल, लहणा पुत्र वजीर पुत्र पृथी	
				17	निजी	कृषि	7	0	0.3541		
				18	निजी	कृषि	1	11	0.0784	सत्यवान कप्तान सिंह, कदम सिंह, आजाद सिंह पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, लीलाराम पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकराम, बाबूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र खुनाथ, साहब सिंह, अजीत सिंह पुत्रान राजादास पुत्र रतीराम	
				24	निजी	कृषि	0	19	0.0481	दिलबाग पुत्र जुगलाल पुत्र भाबर रानी विधवा व ज्योती, मोनिका पुत्रीयान रामकुमार पुत्र हवा सिंह, फते सिंह पुत्र श्रीराम पुत्र तोखा, सुखचैन पुत्र सुबे सिंह पुत्र श्रीराम, प्रवीण पुत्र प्रताप पुत्र श्रीराम, रामचन्द, जिले सिंह, हवा सिंह, बलवान पुत्रान सुनहरा पुत्र श्रीपाल, लहणा पुत्र वजीर पुत्र पृथी	
				25	निजी	कृषि	6	10	0.3288		
				53//	424	निजी	रास्ता	0	12	0.0304	जुमला मालकान व हरब रसद रकबा वासीदेह
				21	निजी	कृषि	2	12	0.1315	मंगल सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्र केहरी पुत्र बुन्टीराम, दर्शन सिंह, कृष्णा, भूपेन्द्र, मंगल सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्रान केहरी	
				55//	1/1	निजी	कृषि	2	11	0.1290	
				1/2	निजी	कृषि	4	11	0.2302	मंगल सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्र केहरी पुत्र बुन्टीराम, दर्शन सिंह, कृष्णा, भूपेन्द्र पुत्रान मंगल सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्रान केहरी	
				2 मिन	निजी	कृषि	1	6	0.0658	राजपती पत्नी रामप्रताप उर्फ मंगल पुत्र केहरी	
				8	निजी	कृषि	0	2	0.0051	महीपाल, रणधीर सिंह, रामफल पुत्रान सूरत सिंह पुत्र हरनाम, जगमाल पुत्र सूरत सिंह पुत्र हरनाम, रमेश पुत्र पृथी पुत्र छोदू	
				9	निजी	कृषि	6	7	0.3212	राजपती पत्नी रामप्रताप उर्फ मंगल पुत्र केहरी	
				10	निजी	कृषि	2	11	0.1290		
				12	निजी	कृषि	5	6	0.2681	महीपाल, रणधीर सिंह, रामफल पुत्रान सूरत सिंह पुत्र हरनाम, जगमाल पुत्र सूरत सिंह पुत्र हरनाम, रमेश पुत्र पृथी पुत्र छोदू	
				13	निजी	कृषि	1	18	0.0961		
				19	निजी	कृषि	1	0	0.0506	देवेन्द्र, दिलवार, पुत्रान किदार सिंह पुत्र मामचन्द	
				56//	5	निजी	कृषि	0	19	0.0481	दिलबाग पुत्र जुगलाल पुत्र भाबर रानी विधवा व ज्योती, मोनिका पुत्रीयान रामकुमार पुत्र हवा सिंह, फते सिंह पुत्र श्रीराम पुत्र तोखा, सुखचैन पुत्र सुबे सिंह पुत्र श्रीराम, प्रवीण पुत्र प्रताप पुत्र श्रीराम, रामचन्द, जिले सिंह, हवासिंह, बलवान पुत्रान सुनहरा, लहणा पुत्र वजीर पुत्र पृथी
				गोंव का कुल क्षेत्रफल			265	19	13.4533		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			6 सावीपुर / 32	13//	181	निजी	रास्ता	1 0 0.0506	ग्राम पंचायत
					13	निजी	कृषि	0 17 0.0430	ग्राम पंचायत खन्नाकरत प्रताप पुत्र प्रभु चन्दनकर
					17	निजी	कृषि	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत खन्नाकरत रामनिवास पुत्र सुस्त सिंह यशोवन्त
					18	निजी	कृषि	6 10 0.3288	
					23	निजी	कृषि	4 19 0.2504	
					24	निजी	कृषि	2 10 0.1265	
					180	पंचायत	रास्ता	0 13 0.0329	ग्राम पंचायत
				15//	161	पंचायत	रास्ता	0 9 0.0228	ग्राम पंचायत
					3	निजी	कृषि	2 0 0.1012	जगदीश राम पुत्र चन्दन, रामेश्वर, दिलवान पुत्रान देवराय, जय कर्म, सत्यवीर, जयवीर पुत्रान होरीया
					4	निजी	कृषि	5 10 0.2782	सुरे सिंह पुत्र बिजान, केहरी सिंह, डरी सिंह पुत्रान जगन्ना, राजवीर, कर्मवीर, जयवीर पुत्रान व कनोरा, मन्जीत पुत्रीयाय केहरी
					6/1	निजी	कृषि	0 4 0.0101	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, होरीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, नरेंद्र सिंह, कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल
					6/2	निजी	गैर-कृषि	0 1 0.0025	कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री व नरेंद्र सिंह पुत्र श्रीचन्द, धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, जेनीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल, उमेद सिंह पुत्र चन्दन, रामेश्वर, अजमेर, राजेश पुत्रान ओम प्रकाश, साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान हुकुम सिंह, कुलवन्त सिंह, भुपेन्द्र सिंह, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर सिंह, जयवीर सिंह पुत्रान सुनेहरा
					7/1	निजी	कृषि	3 11 0.1796	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, होरीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, नरेंद्र सिंह, कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल
					7/2	निजी	कृषि	3 8 0.1720	उमेद सिंह पुत्र चन्दन
					7/3	निजी	गैर-कृषि	0 7 0.0177	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, होरीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, नरेंद्र सिंह, कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल, उमेद सिंह पुत्र चन्दन, रामेश्वर, अजमेर, राजेश पुत्रान ओम प्रकाश, साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान हुकुम सिंह, कुलवन्त सिंह, भुपेन्द्र सिंह, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर सिंह, जयवीर सिंह पुत्रान सुनेहरा
					8/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076	उमेद सिंह पुत्र चन्दन
					14/1	निजी	गैर-कृषि	0 4 0.0101	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, होरीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, नरेंद्र सिंह, कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल, उमेद सिंह पुत्र चन्दन, रामेश्वर, अजमेर, राजेश पुत्रान ओम प्रकाश, साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान हुकुम सिंह, कुलवन्त सिंह, भुपेन्द्र सिंह, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर सिंह, जयवीर सिंह पुत्रान सुनेहरा
					14/2	निजी	कृषि	3 7 0.1695	साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान होकन सिंह, कुलवन्त, भुपेन्द्र, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर, जयवीर पुत्रान सुनेहरा
					14/3	निजी	कृषि	1 18 0.0961	रामेश्वर, अजमेर, राजेश कुमार पुत्रान ओम प्रकाश
					15/1	निजी	गैर-कृषि	0 3 0.0076	धर्मपाल पुत्र श्री चन्द, होरीयासे विद्या व बीरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान व सरोज पुत्री मीजी, श्रीमती सुखमा, चमेली, शक्ति, यशवन्ती पुत्रीयाय श्री चन्द, नरेंद्र सिंह, कर्म सिंह चर्क करन सिंह पुत्रान व सुरजमुखी पुत्री श्री चन्द, सरोज देवी पत्नी व राजपाल, राम निवास, सुरेन्द्र सिंह, जोगिन्द्र पुत्रान धर्मपाल, उमेद सिंह पुत्र चन्दन, रामेश्वर, अजमेर, राजेश पुत्रान ओम प्रकाश, साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान हुकुम सिंह, कुलवन्त सिंह, भुपेन्द्र सिंह, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर सिंह, जयवीर सिंह पुत्रान सुनेहरा
					15/2	निजी	कृषि	0 14 0.0354	साधु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान होकन सिंह, कुलवन्त, भुपेन्द्र, नसीब पुत्रान टेक राम, राजवीर, जयवीर पुत्रान सुनेहरा
					15/3	निजी	कृषि	1 3 0.0582	रामेश्वर, अजमेर, राजेश कुमार पुत्रान ओम प्रकाश
					16	निजी	कृषि	3 8 0.1720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17 मिन	निजी	कृषि	4 0 0.2023	17/1 रामेश्वर, अजमेर, राजेश कुमार पुत्रान ओम प्रकाश 17/2 रामु राम, सुभाष, सत्यवान पुत्रान होक्म चन्द, कुलवन्त सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, नसीब पुत्रान टेक राम, राजबीर, जयदीप पुत्रान सुनेहरा
				24	निजी	कृषि	2 15 0.1391	फतेह सिंह पुत्र कन्हैया खानाकारत सज्जन सिंह, दलीप, राजमल
				25	निजी	कृषि	3 19 0.1998	पुत्रान पोहलु गैर मौरुली
				71	पंचायत	रास्ता	0 12 0.0304	ग्राम पंचायत
				845	पंचायत	रास्ता	0 12 0.0304	ग्राम पंचायत
			25//	4	निजी	कृषि	1 19 0.0986	टेक राम पुत्र नाहना
				5	निजी	कृषि	4 15 0.2403	
				6	निजी	कृषि	5 18 0.2985	
				7	निजी	कृषि	1 10 0.0759	टेक राम पुत्र नाहना
				14	निजी	कृषि	0 16 0.0405	सरदारा पुत्र जोगी राम
				15	निजी	कृषि	6 12 0.3339	राम देई पत्नी रत्तन सिंह, मार्गे राम पुत्र रत्तन सिंह, राजेन्द्र दत्तक पुत्र रण सिंह, धनपत, रनपत, जुगती पुत्रान फत्ता, हरपाल, वेदपाल पुत्रान महेन्द्र सिंह खानाकारत रणपत, धनपत हिस्सेदारान
				189	पंचायत	रास्ता	0 12 0.0304	ग्राम पंचायत
				16	निजी	कृषि	6 13 0.3364	कुला पत्नी व सुपेन्द्र, रमेश, सुमेर, बलजीत, ज्ञानेन्द्र पुत्रान भरत सिंह श्रीधाम एजुकेशन सोसाइटी शादीपुर
				17	निजी	कृषि	0 2 0.0051	
				25	निजी	कृषि	7 7 0.3718	
			29//	165	पंचायत	पानी की नाली	3 12 0.1821	ग्राम पंचायत
				5	निजी	कृषि	6 16 0.3440	महा सिंह दत्तक पुत्र जुगलाल, नरेश कुमार, अनील कुमार पुत्रान महा सिंह
				6	निजी	कृषि	6 2 0.3086	बलवन्त पुत्र मुणिया
				15/1	निजी	कृषि	4 13 0.2352	
				15/2	निजी	कृषि	0 14 0.0354	ओम प्रकाश पुत्र बदलु
				16	निजी	कृषि	4 14 0.2378	
				25	निजी	कृषि	4 2 0.2074	
			30//	10	निजी	कृषि	0 6 0.0152	जगदीश राम पुत्र चन्दन, रामेश्वर, दिलबाग पुत्रान देशराम, जय कर्ण, सतबीर, धर्मवीर पुत्रान होरीया
				11	निजी	कृषि	0 18 0.0455	
				20	निजी	कृषि	1 12 0.0809	
				21	निजी	कृषि	2 6 0.1163	
			35//	1	निजी	कृषि	2 18 0.1467	अजीत, हरी चन्द पुत्रान शंकर, महावीर, सुरजमल, सरजीत, बलजीत पुत्रान दलीप सिंह, राज कुमार, करन सिंह पुत्रान सुरत सिंह रिताली देवी पत्नी टेकराम
				10	निजी	कृषि	3 6 0.1669	
				194	पंचायत	रास्ता	0 7 0.0177	ग्राम पंचायत
				11 मिन	निजी	कृषि	4 6 0.2175	11/1 दरीया पुत्र कालु राम 11/2 राजेन्द्र, बेद प्रकाश पुत्रान भलेराम 11/3 रणबीर, जसबीर सिंह, अन्तराम, हरकेश पुत्रान सुबे सिंह
				20 मिन	निजी	कृषि	4 18 0.2479	20/1 राजेन्द्र, बेद प्रकाश पुत्रान भलेराम 20/2 रणबीर, जसबीर सिंह, अन्तराम, हरकेश पुत्रान सुबे सिंह
				21/1	निजी	कृषि	2 2 0.1062	राजेन्द्र, बेद प्रकाश पुत्रान भलेराम
				74	पंचायत	रास्ता	1 4 0.0607	ग्राम पंचायत
				21/2	निजी	कृषि	1 3 0.0582	रणबीर, जसबीर सिंह, अन्तराम, हरकेश पुत्रान सुबे सिंह
			36//	5	निजी	कृषि	3 10 0.1771	अजीत, हरी चन्द पुत्रान शंकर, महावीर, सुरजमल, सरजीत, बलजीत पुत्रान दलीप सिंह, राज कुमार, करन सिंह पुत्रान सुरत सिंह रिताली देवी पत्नी टेकराम
				6/1	निजी	कृषि	2 13 0.1341	सोहनी पुत्री व बदामो पत्नी विवाना, उमेश सिंह, चन्दर सिंह पुत्रान रणपत पुत्र फटटा, राजेन्द्र दत्तक पुत्र रण सिंह, स्वामी गो ख्वा गैशाला जुलाना
				6/2	निजी	कृषि	0 3 0.0076	राजेन्द्र पुत्र रण सिंह
				15	निजी	कृषि	2 2 0.1062	
				16	निजी	कृषि	1 10 0.0759	
				25	निजी	कृषि	0 14 0.0354	
			43//	5/2	निजी	कृषि	0 3 0.0076	बेदप्रकाश पुत्र हरनारायण, जापान पुत्र मनकुल, सुमेर सिंह पुत्र प्रताप, बलवान सिंह, रामफल पुत्रान जन्कुराम, धन्नी देवी पुत्री इन्दर सिंह, कुल सिंह पुत्र छेनु, लक्ष्मी विधवा व विरेन्द्र, जगबीर पुत्रान व कान्ता पुत्री फते सिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, छोटेलास पुत्र श्योकरन, बलबीर पुत्र श्योकरन, रमेश पुत्र रामसरूप, देवेन्द्र पुत्र धन सिंह, कृष्ण पुत्र रामसरूप, निर्मला पत्नी राजबीर, भवर सिंह पुत्र ग्रामा सिंह, नरेश पुत्र बेलानीराम, राजबाला पत्नी महावीर व अन्य
			44//	1/1	निजी	कृषि	7 4 0.3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1/2	निजी	पानी की नाली	0 1	0.0025	बेद प्रकाश पुत्र हरनारायण, अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला, लक्ष्मी पत्नी व विरेन्द्र, जगदीर पुत्रान व कान्हा देवी पुत्री फतेसिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, रामफल, ओम सिंह, सतपाल पुत्रान शोभा चन्द, फुल सिंह पुत्र धेनु
				10/1	निजी	पानी की नाली	0 8	0.0202	
				10/2	निजी	कृषि	6 18	0.3490	अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला
				75	पंचायत	रास्ता	0 12	0.0304	ग्राम पंचायत
				11/1	निजी	कृषि	5 19	0.3010	अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला
				11/2	निजी	पानी की नाली	0 11	0.0278	बेद प्रकाश पुत्र हरनारायण, अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला, लक्ष्मी पत्नी व विरेन्द्र, जगदीर पुत्रान व कान्हा देवी पुत्री फतेसिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, रामफल, ओम सिंह, सतपाल पुत्रान शोभा चन्द, फुल सिंह पुत्र धेनु
				12 मिन	निजी	कृषि	0 4	0.0101	12/1 अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला 12/2 बेद प्रकाश पुत्र हरनारायण, अनुप सिंह दत्तक पुत्र राम कला, लक्ष्मी पत्नी व विरेन्द्र, जगदीर पुत्रान व कान्हा देवी पुत्री फतेसिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, रामफल, ओम सिंह, सतपाल पुत्रान शोभा चन्द, फुल सिंह पुत्र धेनु
				19 मिन	निजी	कृषि	0 8	0.0202	19/1 चन्द, सिंह पुत्र रणपत 19/2 राजेन्द्र दत्तक पुत्र रण सिंह, चन्द, उमेश पुत्रान रणपत, जुगती पुत्र फत्ता, हरकान दत्तक पुत्र व छोटी पत्नी धनपत 19/3 चन्द, सिंह पुत्र रणपत
				20	निजी	कृषि	6 18	0.3490	बेद प्रकाश पुत्र हरनारायण, जापान पुत्र मनकुल, सुमेर सिंह पुत्र प्रताप, बलवान सिंह, रामफल पुत्रान जन्कु राम, धन्नी देवी पुत्री इन्दर सिंह, फुल सिंह पुत्र धेनु, लक्ष्मी विद्या व विरेन्द्र, जगदीर पुत्रान व कान्हा पुत्री फते सिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, छोटे लाल पुत्र श्योकरन, बलबीर पुत्र श्योकरन, रमेश पुत्र राम सरूप, देवेन्द्र पुत्र धन सिंह, कृष्ण पुत्र राम सरूप, निर्मला पत्नी राजबीर, भंवर सिंह पुत्र गंगा सिंह, नरेश पुत्र बेलानीराम, राजबाला पत्नी महावीर व अन्य
				21	निजी	कृषि	7 0	0.3541	
				22 मिन	निजी	कृषि	0 4	0.0101	22/1 चन्दर पुत्र रणपत 22/2 राजेन्द्र दत्तक पुत्र रण सिंह, चन्द, उमेश पुत्रान रणपत, जुगती पुत्र फत्ता, हरकान दत्तक पुत्र व छोटी पत्नी धनपत
			50//	1/1	निजी	कृषि	6 18	0.3490	बेद प्रकाश पुत्र हरनारायण, जापान पुत्र मनकुल, सुमेर सिंह पुत्र प्रताप, बलवान सिंह, रामफल पुत्रान जानकु राम, धन्नी देवी पुत्री इन्दर सिंह, फुल सिंह पुत्र धेनु, लक्ष्मी विद्या व विरेन्द्र, जगदीर पुत्रान व कान्हा पुत्री फते सिंह, स्वराजपाल पुत्र शकुन्तला, छोटे लाल पुत्र श्योकरन, बलबीर पुत्र श्योकरन, रमेश पुत्र राम सरूप, देवेन्द्र पुत्र धन सिंह, कृष्ण पुत्र राम सरूप, निर्मला पत्नी राजबीर, भंवर सिंह पुत्र गंगा सिंह, नरेश पुत्र बेलानीराम, राजबाला पत्नी महावीर जानाकाशत लक्ष्मी, विरेन्द्र, जगदीर, शकुन्तला, कान्हा हिस्सेदारान
				1/2	निजी	कृषि	0 8	0.0202	चन्द सिंह पुत्र रणपत
				10 मिन	निजी	कृषि	7 8	0.3743	10/1 चन्द सिंह पुत्र रणपत
				76	पंचायत	रास्ता	1 1	0.0531	ग्राम पंचायत
				11/1	सरकारी	सड़क	0 13	0.0329	हरियाणा सरकार
				11/1	निजी	कृषि	5 3	0.2605	11/2 सुबे सिंह पुत्र बिजा, केहरी सिंह, हरी सिंह पुत्रान जमुना राजबीर, कर्मवीर, जयवीर पुत्रान व कमलेश, मन्जीत पुत्रीयान केहरी
				20	निजी	कृषि	6 8	0.3238	सुबे सिंह पुत्र बिजा, केहरी सिंह, हरी सिंह पुत्रान जमुना राजबीर, कर्मवीर, जयवीर पुत्रान व कमलेश, मन्जीत पुत्रीयान केहरी
				21/1	निजी	कृषि	2 0	0.1012	बिजे, हरीसिंह पुत्रान जमुना, राजबीर, कर्मवीर, जयवीर पुत्रान व कमलेश, मन्जीत पुत्रीयान केहरी
				21/2	निजी	कृषि	0 15	0.0379	मीर सिंह पुत्र जोगी राम
				21/3	निजी	कृषि	2 19	0.1492	सुबे सिंह पुत्र बिजा, केहरी सिंह, हरी सिंह पुत्रान जमुना राजबीर, कर्मवीर, जयवीर पुत्रान व कमलेश, मन्जीत पुत्रीयान केहरी
			51//	16	निजी	कृषि	0 2	0.0051	मीर सिंह पुत्र जोगी राम
				25	निजी	कृषि	0 8	0.0202	
			58//	5	निजी	कृषि	0 14	0.0354	मीर सिंह पुत्र जोगी राम
				6	निजी	कृषि	1 0	0.0506	
				15	निजी	कृषि	1 8	0.0708	
				16	निजी	कृषि	1 16	0.0911	रघवीर सिंह पुत्र मुन्का
				25	निजी	कृषि	2 4	0.1113	बेद सिंह पुत्र मुन्का

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				59//	1	निजी	कृषि	5 12 0.2833	रमेश कुमार, शीशपाल पुत्रान हवा सिंह, हवा सिंह, ओम प्रकाश पुत्रान मुखरन, सत्यवान पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती संतोष विद्या व राहुल पुत्र विरेन्द्र, राम रत्ती, राज देवी पुत्रीयान करतार सिंह खनाकाशत रमेश कुमार, शीशपाल, हवा सिंह, ओम प्रकाश, सत्यवान, विरेन्द्र हिस्सेदारान	
					10	निजी	कृषि	5 6 0.2681		
					11	निजी	कृषि	5 0 0.2529		
					20	निजी	कृषि	4 12 0.2327		
					21	निजी	कृषि	4 4 0.2125		
				60//	1	निजी	कृषि	3 16 0.1922		
					10	निजी	कृषि	3 10 0.1771		
					11	निजी	कृषि	3 4 0.1619		
					20	मिन	निजी	कृषि	2 16 0.1416	20/1 रमेश कुमार, शीशपाल पुत्रान हवा सिंह, हवा सिंह, ओम प्रकाश पुत्रान मुखरन, सतवान पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती संतोष विद्या व राहुल पुत्र विरेन्द्र, राम रत्ती, राज देवी पुत्रीयान करतार सिंह खनाकाशत रमेश कुमार, शीशपाल, हवा सिंह, ओम प्रकाश, सत्यवान, विरेन्द्र हिस्सेदारान 20/2 दलीप सिंह पुत्र जवाहरा, अनुप सिंह, कुलवन्त सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्रान दलीप सिंह, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र सुखबीर, दिलबाग सिंह पुत्र फुल सिंह, मनोज देवी पत्नी महावीर
					21	निजी	कृषि	2 8 0.1214	रनवीर पुत्र फुल सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र फुल सिंह, श्रीमती अंगुरी पत्नी राजेन्द्र पुत्र फुल सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, श्रीमती रामरति पत्नी जयपाल, अनुप सिंह पुत्र दलीप सिंह, श्रीमती मायावती विद्या व विक्रम, देवेन्द्र पुत्रान व रेखा पुत्री कुलवन्त सिंह, श्रीमती सुशिला विद्या व मनोज, मनीष पुत्रान विरेन्द्र, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र सुखबीर बेद सिंह पुत्र हीरा मुर्तहानान	
				61//	201	निजी	रास्ता	0 4 0.0101	201/1 रघबीर सिंह पुत्र झुन्डा, 201/2/1 सज्जन सिंह पुत्र झुन्डा	
					5	मिन	निजी	कृषि	2 6 0.1163	5/1 रघबीर सिंह पुत्र झुन्डा 5/2 बेद सिंह पुत्र झुन्डा 5/3 सज्जन सिंह पुत्र झुन्डा
					6	मिन	निजी	कृषि	2 16 0.1416	6/1 सज्जन सिंह पुत्र झुन्डा 6/2 रमेश, शीशपाल पुत्रान हवा सिंह, हवा सिंह, ओम प्रकाश पुत्रान मुखरन, सतवान पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती संतोष विद्या व राहुल पुत्र विरेन्द्र, राम रत्ती, राज देवी पुत्रीयान करतार सिंह खनाकाशत रमेश कुमार, शीशपाल, हवा सिंह, ओम प्रकाश, सत्यवान, विरेन्द्र हिस्सेदारान
					15	निजी	कृषि	3 4 0.1619	रमेश कुमार, शीशपाल पुत्रान हवा सिंह, हवा सिंह, ओम प्रकाश पुत्रान मुखरन, सतवान पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती संतोष विद्या व राहुल पुत्र विरेन्द्र, राम रत्ती, राज देवी पुत्रीयान करतार सिंह खनाकाशत रमेश कुमार, शीशपाल, हवा सिंह, ओम प्रकाश, सत्यवान, विरेन्द्र हिस्सेदारान	
					16/1	मिन	निजी	कृषि	3 12 0.1821	16/1/1 रमेश कुमार, शीशपाल पुत्रान हवा सिंह, हवा सिंह, ओम प्रकाश पुत्रान मुखरन, सतवान पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती संतोष विद्या व राहुल पुत्र विरेन्द्र, राम रत्ती, राज देवी पुत्रीयान करतार सिंह खनाकाशत रमेश कुमार, शीशपाल, हवा सिंह, ओम प्रकाश, सत्यवान, विरेन्द्र हिस्सेदारान 16/1/2 रनवीर पुत्र फुल सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र फुल सिंह, श्रीमती अंगुरी पत्नी राजेन्द्र पुत्र फुल सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह श्रीमती रामरति पत्नी जयपाल, अनुप सिंह पुत्र दलीप सिंह, श्रीमती मायावती विद्या व विक्रम, देवेन्द्र पुत्रान व रेखा पुत्री कुलवन्त सिंह, श्रीमती सुशिला विद्या व मनोज, मनीष पुत्रान विरेन्द्र, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र सुखबीर, बेद सिंह पुत्र हीरा मुर्तहानान
					25	निजी	कृषि	3 18 0.1973	दलीप सिंह पुत्र जवाहरा, अनुप सिंह, कुलवन्त सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्रान दलीप सिंह, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र सुखबीर, दिलबाग सिंह पुत्र फुल सिंह, मनोज देवी पत्नी महावीर	
				67//	5	निजी	कृषि	4 8 0.2226	रनवीर पुत्र फुल सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र फुल सिंह, श्रीमती अंगुरी पत्नी राजेन्द्र पुत्र फुल सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, श्रीमती रामरति पत्नी जयपाल, अनुप सिंह पुत्र दलीप सिंह, श्रीमती मायावती विद्या व विक्रम, देवेन्द्र पुत्रान व रेखा पुत्री कुलवन्त सिंह, श्रीमती सुशिला विद्या व मनोज, मनीष पुत्रान विरेन्द्र, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र सुखबीर बेद सिंह पुत्र हीरा मुर्तहानान	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				6/1 मिन	निजी	कृषि	4	6	0.2175	6/1/1 रत्नवीर पुत्र कुल सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र कुल सिंह, श्रीमती अंगुरी पत्नी राजेन्द्र पुत्र कुल सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह श्रीमती रामरति पत्नी जयपाल, अनुप सिंह पुत्र दलीप सिंह, श्रीमती मायावती विधवा व विक्रम, देवेन्द्र पुत्रान व रेखा पुत्री कुलवन्त सिंह, श्रीमती सुशिला विधवा व मनोज, मनीष पुत्रान विरेन्द्र, सुमीत्रा पत्नी व विकास कुमार पुत्र, सुखवीर, बेद सिंह पुत्र हीरा मुतहनान
				6/2	निजी	कृषि	0	14	0.0354	6/1/2 ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज, सुरजमान, महावीर, कुलदीप सिंह, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज
				15	निजी	कृषि	2	8	0.1214	ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज, सुरजमान, महावीर, कुलदीप सिंह, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज
			68//	1/1	निजी	रास्ता	0	8	0.0202	जयपाल, राजपाल, अजाद पुत्रान हरी सिंह, लक्ष्मी पत्नी व बाला, धर्मो पुत्रीयान हरी सिंह, राम प्यारी पत्नी व रोशनी, शीला पुत्रीयान व रामफल, सुभाष, सुरेश पुत्रान महापाल, सुरजमान, महावीर, कुलदीप, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज, श्रीमती ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज
				1/2	निजी	रास्ता	0	4	0.0101	
				1/3	निजी	कृषि	2	0	0.1012	राम प्यारी पत्नी व रोशनी, शीला पुत्रीयान व रामफल, सुभाष, सुरेश पुत्रान महापाल, जयपाल, राजपाल, अजाद पुत्रान हरी राम
				10 मिन	निजी	कृषि	2	6	0.1163	10/1 जयपाल, राजपाल, अजाद पुत्रान हरी सिंह, लक्ष्मी पत्नी व बाला, धर्मो पुत्रीयान हरी सिंह, राम प्यारी पत्नी व रोशनी, शीला पुत्रीयान व रामफल, सुभाष, सुरेश पुत्रान महापाल, सुरजमान, महावीर, कुलदीप, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज, श्रीमती ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज
				11	निजी	कृषि	1	8	0.0708	10/2 ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज, सुरजमान, महावीर, कुलदीप सिंह, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज
				गोच का कुल क्षेत्रफल			310	1	15.6842	ईन्दरा विधवा व विमला पुत्री बलराज, सुरजमान, महावीर, कुलदीप सिंह, शीशपाल, अशोक पुत्रान बलराज
		7 ब्राह्मण वास /25	24//	15	निजी	कृषि	2	10	0.1265	श्रीराम, रामफल पुत्रान टेकू, अमरनाथ, भीखु, राममहर पुत्रान पोहकर
				16	निजी	कृषि	5	16	0.2934	
				25	निजी	कृषि	6	4	0.3136	
			25//	20	निजी	कृषि	1	19	0.0986	
				21	निजी	कृषि	1	4	0.0607	श्रीराम, रामफल पुत्रान टेकू, अमरनाथ, भीखु, राममहर पुत्रान पोहकर
			26//	1	निजी	कृषि	0	14	0.0354	
			27//	5	निजी	कृषि	5	15	0.2909	
				6	निजी	कृषि	0	19	0.0481	
				गोच का कुल क्षेत्रफल			25	1	1.2672	लखीराम, भाईराम, रघुवीर पुत्रान देवक राम उर्फ भईयाराम महा सिंह, रामेहर पुत्रान नेकी, रामभगत पुत्र हया सिंह
		8 बुद्धा चेडा /31	93//	6	निजी	कृषि	6	11	0.3313	बलदेवा पुत्र फते पुत्र चंदगी, सुन्दर सिंह पुत्र जिले सिंह पुत्र फते सिंह, उदे सिंह पुत्र मुन्नी पुत्र चंदगी
				15	निजी	कृषि	7	4	0.3642	
				16/1	निजी	कृषि	6	11	0.3313	दयानन्द, धर्मवीर पुत्रान काशीराम पुत्र भगवाना
				16/2	निजी	कृषि	0	16	0.0405	विद्या देवी विधवा जयसिंह पुत्र देवीसिंह, बीरमान पुत्र देवीराम पुत्र गोपाला, दीपक पुत्र बीरमान पुत्र देवीराम, मुकेन्द्र पुत्र जयसिंह पुत्र देवीसिंह
				24	निजी	कृषि	0	1	0.0025	धर्मचन्द, रामकुमार, महेंद्र पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, शकुलला विधवा व सुभर, संजीव पुत्रान व सुदेश, पूनम, सुमन पुत्रीयान प्रताप पुत्र रिसाला, दयानन्द, रामपाल, भीरा, कृष्ण पुत्रान काशी पुत्री भगवाना
				25	निजी	कृषि	7	7	0.3718	
			94//	1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	कुलपती विधवा व राजेन्द्र, रामपाल, सत्यवान पुत्रान कलिया पुत्र श्रीचन्द्र, ईश्वर सिंह पुत्र श्रीचन्द्र पुत्र धन सिंह
				10	निजी	कृषि	0	10	0.0253	बलदेवा पुत्र फते पुत्र चंदगी, सुन्दर सिंह पुत्र जिले सिंह पुत्र फते सिंह, उदे सिंह पुत्र मुन्नी पुत्र चंदगी
				11	निजी	कृषि	0	4	0.0101	दयानन्द, धर्मवीर पुत्रान काशीराम पुत्र भगवाना

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				108//				ताराचन्द पुत्र व प्रकाश पुत्री धाम्नु पुत्र रामजीलाल, हुकमचन्द पुत्र व छत्रो पुत्री धाम्नु पुत्र रामजीलाल, भीमा पुत्र धाम्नु पुत्र रामजीलाल, रामकरण पुत्र मुला पुत्र चन्दगी, राजमल पुत्र मुला पुत्र चन्दगी प्रकाश पुत्र गब्दु पुत्र नाहनू, जगवीर पुत्र जिले सिंह पुत्र शिवा, उमेश पुत्र जिले सिंह पुत्र शिवा, गुलाब पुत्र टेका पुत्र निहाला, भूला विधवा व सुखे सिंह पुत्र व रामरति, मायावती पुत्रीयान टेका पुत्र निहाला, फूलपति विधवा व किशानी पुत्री व प्रकाश पुत्र, श्यामा पुत्री व पूरण, कपूरा, नके सिंह, बलवन्त पुत्रान बादल पुत्र अमीलाल व अन्य		
				11/1	निजी	कृषि	0	0.0658	श्रीमती राजरानी, रेखा, ज्योती पुत्रीयान नके सिंह, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी व सुमित्रा देवी पुत्री प्रभु दयाल पुत्र अमीचन्द, रामचन्द पुत्र सुखदेह पुत्र बदलू, सूरजमल पुत्र गांधी, श्रीमती भतेरी विधवा मनजीत पुत्री नके सिंह पुत्र चादराम, जोगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु दयाल पुत्र अमीचन्द, श्रीमती मनोहरी विधवा व राजकली, राजपती, राजरानी पुत्रीयान व महेन्द्र सिंह सत्यवेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र गांधी	
				11/2/2	निजी	कृषि	0	0.0025	ताराचन्द पुत्र व प्रकाश पुत्री धाम्नु पुत्र रामजीलाल, हुकमचन्द पुत्र व छत्रो पुत्री धाम्नु पुत्र रामजीलाल, भीमा पुत्र धाम्नु पुत्र रामजीलाल, रामकरण पुत्र मुला पुत्र चन्दगी, राजमल पुत्र मुला पुत्र चन्दगी प्रकाश पुत्र गब्दु पुत्र नाहनू, जगवीर पुत्र जिले सिंह पुत्र शिवा, उमेश पुत्र जिले सिंह पुत्र शिवा, गुलाब पुत्र टेका पुत्र निहाला, भूला विधवा व सुखे सिंह पुत्र व रामरति, मायावती पुत्रीयान टेका पुत्र निहाला, फूलपति विधवा व किशानी पुत्री व प्रकाश पुत्र श्यामा पुत्री व पूरण, कपूरा, नके सिंह, बलवन्त पुत्रान बादल पुत्र अमीलाल व अन्य	
				20	निजी	कृषि	3	0.1922	श्रीमती राजरानी, रेखा, ज्योती पुत्रीयान नके सिंह, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी व सुमित्रा देवी पुत्री प्रभु दयाल पुत्र अमीचन्द, रामचन्द पुत्र सुखदेह पुत्र बदलू, सूरजमल पुत्र गांधी, श्रीमती भतेरी विधवा मनजीत पुत्री नके सिंह पुत्र चादराम, जोगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु दयाल पुत्र अमीचन्द, श्रीमती मनोहरी विधवा व राजकली, राजपती, राजरानी पुत्रीयान व महेन्द्र सिंह सत्यवेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र गांधी	
				21/1	निजी	कृषि	0	0.0481		
				21/2	निजी	कृषि	3	0.1720		
				22	निजी	कृषि	0	0.0126		
				640	पंचायत	पानी की नाली	0	0.0152	ग्राम पंचायत	
				109//	4/2	निजी	कृषि	0	0.0051	धर्मचन्द, रामकुमार, महेन्द्र पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, शंकुलाला विधवा व सुमेर, संजीव पुत्रान व सुदेश, पुनम, सुमन पुत्रीयान प्रताप पुत्र रिसाला, दयानन्द, रामपाल, भीरा, कृष्ण पुत्रान काशी पुत्री भगवाना
				5	निजी	कृषि	7	0.3693		
				6	निजी	कृषि	6	0.3238		
				641	पंचायत	पानी की नाली	1	0.0607	ग्राम पंचायत	
				15/1	निजी	कृषि	0	0.0126	धर्मचन्द, रामकुमार, महेन्द्र पुत्रान रिसाला पुत्र भगवाना, शंकुलाला विधवा व सुमेर, संजीव पुत्रान व सुदेश, पुनम, सुमन पुत्रीयान प्रताप पुत्र रिसाला, दयानन्द, रामपाल, भीरा, कृष्ण पुत्रान काशी पुत्री भगवाना	
				15/2	निजी	कृषि	3	0.1518	श्रीमती राजरानी, रेखा, ज्योती पुत्रीयान नके सिंह, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी व सुमित्रा देवी पुत्री प्रभुदयाल पुत्र अमीचन्द, रामचन्द पुत्र सुखदेह पुत्र बदलू, सूरजमल पुत्र गांधी, श्रीमती भतेरी विधवा मनजीत पुत्री नके सिंह पुत्र चादराम, जोगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभुदयाल पुत्र अमीचन्द, श्रीमती मनोहरी विधवा व राजकली, राजपती, राजरानी पुत्रीयान व महेन्द्र सिंह सत्यवेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र गांधी	
				16/1	निजी	कृषि	0	0.0126		
				16/2	निजी	कृषि	1	0.0607		
				25	निजी	कृषि	0	0.0177		
				642	पंचायत	पानी की नाली	0	0.0126	ग्राम पंचायत	
				114//	1	निजी	कृषि	1	0.0809	श्रीमती राजरानी, रेखा, ज्योती पुत्रीयान नके सिंह, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी व सुमित्रा देवी पुत्री प्रभुदयाल पुत्र अमीचन्द, रामचन्द पुत्र सुखदेह पुत्र बदलू, सूरजमल पुत्र गांधी, श्रीमती भतेरी विधवा मनजीत पुत्री नके सिंह पुत्र चादराम, जोगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभुदयाल पुत्र अमीचन्द, श्रीमती मनोहरी विधवा व राजकली, राजपती, राजरानी पुत्रीयान व महेन्द्र सिंह सत्यवेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र गांधी
				2/1	निजी	कृषि	0	0.0101		
				2/2	निजी	कृषि	3	0.1872	मेसर्स रिटार्न्स इन्डस्ट्रीज लि० रजि० आफिस 222 मेक्स रोडवरत IV नीरमज प्वाइंट मार्फत सुरेन्द्र गुप्ता	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				8	निजी	कृषि	0	2	0.0051	श्रीमती दानी विद्या मेधारिया पुत्र रामसरूप, भगवानी, ओमपती, सन्तरो, भतेरी पुत्रीयान मेधारिया पुत्र रामसरूप कर्म सिंह पुत्र जोगीराम पुत्र रामसरूप, राजवीर सिंह पुत्र जिले सिंह पुत्र दुलीचन्द, मलाराम, बारू पुत्रान रामसरूप पुत्र गोकुल, रामफल पुत्र जोगीराम पुत्र रामसरूप, श्रीमती सोना विद्या व शान्ती, धनपति पुत्रीयान दुलीचन्द पुत्र रामसरूप व अन्य
				9	निजी	कृषि	3	18	0.1973	
				10	निजी	कृषि	1	12	0.0809	
				12	निजी	कृषि	1	7	0.0683	
				177	पंचायत	रास्ता	0	5	0.0126	ग्राम पंचायत
				13	निजी	कृषि	3	16	0.1922	लखमी पुत्र तैजू पुत्र माईघन, श्रीमती रामदे पुत्री बनवारी पुत्र कुन्दन
				684/1	पंचायत	रास्ता	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
				18	निजी	कृषि	3	16	0.1922	धारा, जिले सिंह, उदे सिंह, रामचन्द्र पुत्रान मुशी पुत्र मेहर सिंह
				19	निजी	कृषि	1	10	0.0759	श्रीमती दानी विद्या मेधारिया पुत्र रामसरूप, भगवानी, ओमपती, सन्तरो, भतेरी पुत्रीयान मेधारिया पुत्र रामसरूप कर्म सिंह पुत्र जोगीराम पुत्र रामसरूप, राजवीर सिंह पुत्र जिले सिंह पुत्र दुलीचन्द, मलाराम, बारू पुत्रान रामसरूप पुत्र गोकुल, रामफल पुत्र जोगीराम पुत्र रामसरूप, श्रीमती सोना विद्या व शान्ती, धनपति पुत्रीयान दुलीचन्द पुत्र रामसरूप व अन्य
				643	पंचायत	पानी की नाली	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत
				22	निजी	कृषि	0	0	0.0000	बलवीर, प्रेम, महावीर पुत्रान व सुनहरी, ओमपति पुत्रीयान रामसरूप पुत्र नानक, श्रीमती जन्ती देवी विद्या व साहब सिंह, कप्तान सिंह पुत्रान व श्रीमती शकुन्तला पुत्री जगदेव सिंह पुत्र रामसरूप, रोहतास पुत्र धाराराम पुत्र मुशीराम
				23/1	निजी	कृषि	1	12	0.0809	
				644	पंचायत	पानी की नाली	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
				23/2	निजी	कृषि	2	4	0.1113	धारा, जिले सिंह, उदे सिंह, रामचन्द्र पुत्रान मुशी पुत्र मेहर सिंह
				24	निजी	कृषि	1	14	0.0860	
			125//	20	निजी	कृषि	0	9	0.0228	राज सिंह, बजीर पुत्र बीरखा, दयानन्द पुत्र ज्ञानी, विमला, राजरानी पुत्रीयान बीरखा, श्रीमती धनकौर विद्या व अनिल कुमार, रामशेर पुत्रान व श्रीमती राजवन्ती पुत्री दिवाना पुत्र बजेराम, मनोज पुत्र राज सिंह पुत्र बीरखा, रोहतास पुत्र दीवाना पुत्र बजेराम, सुशील कुमार, महेंद्र कुमार पुत्र बिरखमान पुत्र राधा किरान, अजीत, जीनेन्द्र पुत्र भईयाराम, अनूप सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र देवकराम
				21/1	निजी	कृषि	1	14	0.0860	
				178	पंचायत	रास्ता	0	10	0.0253	ग्राम पंचायत
				21/2	निजी	कृषि	0	19	0.0481	आजाद सिंह पुत्र होशियार सिंह, राजबाला, राजवन्ती पुत्रीया होशियार सिंह, रामप्रकाश, जोगीराम, साधुराम, हरिमन्धो पुत्रान मागेराम, कप्तान पुत्र होशियार सिंह, ईश्वर पुत्र होशियार सिंह, जगदीप पुत्र मेहर सिंह पुत्र बालूराम, भईयाराम पुत्र दानीराम पुत्र देवतीया
				647	पंचायत	पानी की नाली	0	4	0.0101	ग्राम पंचायत
			126//	3	निजी	कृषि	1	12	0.0809	बलवीर, प्रेम, महावीर पुत्रान व सुनहरी, ओमपति पुत्रीयान रामसरूप पुत्र नानक, श्रीमती जन्ती देवी विद्या व साहब सिंह, कप्तान सिंह पुत्रान व श्रीमती शकुन्तला पुत्री जगदेव सिंह पुत्र रामसरूप, रोहतास पुत्र धाराराम पुत्र मुशीराम
				4	निजी	कृषि	3	16	0.1922	धारा, जिले सिंह, उदे सिंह, रामचन्द्र पुत्रान मुशी पुत्र मेहर सिंह
				6	निजी	कृषि	0	19	0.0481	ओमप्रकाश पुत्र ममन पुत्र छोदू, रमेश पुत्र लालजी पुत्र छोदू, श्रीमती खजानी विद्या व राकेश, जसवीर पुत्रान व सुनीता पुत्री रामभज पुत्र लालजी, दयानन्द पुत्र ज्ञानी पुत्र हरी सिंह मुरतहन रामपत पुत्र लालजी पुत्र छोदू
				7/1	निजी	कृषि	2	16	0.1416	धारा, जिले सिंह, उदे सिंह, रामचन्द्र पुत्रान मुशी पुत्र मेहर सिंह
				7/2	निजी	कृषि	1	9	0.0733	रामभज पुत्र मागेराम पुत्र रामचन्द्र, जीनेशचन्द्र जैन पुत्र फतेहचन्द्र जैन पुत्र कपूरचन्द्र, चन्द पुत्र मिरछी पुत्र ईश्वर, रामशेर, रामनिवास पुत्रान रामफल पुत्र बनी सिंह
				8	निजी	कृषि	0	3	0.0076	
				14	निजी	कृषि	1	12	0.0809	
				15/1	निजी	कृषि	1	18	0.0961	राज सिंह, बजीर पुत्र बीरखा, दयानन्द पुत्र ज्ञानी, विमला, राजरानी पुत्रीयान बीरखा, श्रीमती धनकौर विद्या व अनिल कुमार, रामशेर पुत्रान व श्रीमती राजवन्ती पुत्री दिवाना पुत्र बजेराम, मनोज पुत्र राज सिंह पुत्र बीरखा, रोहतास पुत्र दीवाना पुत्र बजेराम, सुशील कुमार, महेंद्र कुमार पुत्र बिरखमान पुत्र राधा किरान, अजीत, जीनेन्द्र पुत्र भईयाराम, अनूप सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र देवकराम
				15/2	निजी	कृषि	1	18	0.0961	
				16/1	निजी	कृषि	3	7	0.1695	सुरेश कुमार पुत्र बृजमान पुत्र राधाकिशन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/2	निजी	कृषि	1 5 0.0632	मेसर्ज खरब राईस मील
				17	निजी	कृषि	0 10 0.0253	
				25/1	निजी	कृषि	1 16 0.0911	
				25/2	निजी	कृषि	0 12 0.0304	सुरेश कुमार पुत्र बृजमान पुत्र राधाकिशन
				133/	5/2/2	निजी	1 0 0.0506	अरीष कुमार पुत्र रामदियाल पुत्र किशनलाल
				134/	1/1	निजी	0 17 0.0430	अरीष कुमार पुत्र रामदियाल पुत्र किशनलाल
				1/2	निजी	कृषि	3 13 0.1846	वतार सिंह पुत्र मातु पुत्र नानक, कमला, बाला, राजकुमारी पुत्रीयान बारू पुत्र मातु, बलवान पुत्र टेकराम, पनमेशरी विधवा व रणधीर सिंह, राजेन्द्र पुत्रान बारू पुत्र मातु, श्रीमती मृति देवी पत्नी मदनलाल पुत्र दलीपचन्द, श्रीमती मन्जू पत्नी सुभाषचन्द पुत्र रतनलाल, रोहित पुत्र सतीश पुत्र सन्तराम, मोहित पुत्र पवन कुमार पुत्र सन्तराम, श्रीमती राजबाला विधवा व रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व सुनीता पुत्री जगत सिंह पुत्र मातु
				2	निजी	कृषि	0 3 0.0076	
				9	निजी	कृषि	3 16 0.1922	
				10	निजी	कृषि	1 13 0.0835	10/1, 10/2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहर सिंह पुत्र गिरधारीलाल
				687	निजी	कृषि	1 13 0.0835	687/1 ग्राम पंचायत, गैर मुमकीन- सत्यनारायण, हरगुलाल, चंदरमान, प्यारेलाल, प्रताप पुत्रान व पटौरी विधवा व घनेली, लक्ष्मी, रोशनी, मुन्नी पुत्रीयान ताराचंद 687/3 गैर मुमकीन अबादी- चंदन पुत्र जवाहरा आर्दो सी0 एल0 इन्डस्ट्रीज, बुडा खंडा व अन्य
				11	निजी	कृषि	1 16 0.0911	बनी सिंह सुखवीर सिंह, प्रकाश, सुनहरा सिंह पुत्रान देशराज पुत्र बुजाराम
				12	निजी	कृषि	3 16 0.1922	वतार सिंह पुत्र मातु पुत्र नानक, कमला, बाला, राजकुमारी पुत्रीयानबारू पुत्र मातु, बलवान पुत्र टेकराम, पनमेशरी विधवा व रणधीर सिंह, राजेन्द्र पुत्रान बारू पुत्र मातु, श्रीमती मृति देवी पत्नी मदनलाल पुत्र दलीपचन्द, श्रीमती मन्जू पत्नी सुभाषचन्द पुत्र रतनलाल, रोहित पुत्र सतीश पुत्र सन्तराम, मोहित पुत्र पवन कुमार पुत्र सन्तराम, श्रीमती राजबाला विधवा व रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व सुनीता पुत्री जगत सिंह पुत्र मातु
				13	निजी	कृषि	0 0 0.0000	वतार पुत्र मातु पुत्र नानक
				18	निजी	कृषि	1 16 0.0911	वतार सिंह पुत्र मातु पुत्र नानक, कमला, बाला, राजकुमारी पुत्रीयानबारू पुत्र मातु, बलवान पुत्र टेकराम, पनमेशरी विधवा व रणधीर सिंह, राजेन्द्र पुत्रान बारू पुत्र मातु, श्रीमती मृति देवी पत्नी मदनलाल पुत्र दलीपचन्द, श्रीमती मन्जू पत्नी सुभाषचन्द पुत्र रतनलाल, रोहित पुत्र सतीश पुत्र सन्तराम, मोहित पुत्र पवन कुमार पुत्र सन्तराम, श्रीमती राजबाला विधवा व रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्रान व सुनीता पुत्री जगत सिंह पुत्र मातु
				19/1	निजी	कृषि	1 16 0.0911	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी रतनलाल पुत्र दलीपचन्द
				692	पंचायत	रास्ता	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत
				19/2	निजी	कृषि	1 16 0.0911	बनी सिंह सुखवीर सिंह, प्रकाश, सुनहरा सिंह पुत्रान देशराज पुत्र बुजाराम
				22	निजी	कृषि	1 16 0.0911	रामदिया पुत्र धर्मवीर पुत्र ताराचन्द, श्रीमती सत्यवती विधवा व सुरेश, सुनील पुत्रान जयभगवान पुत्र मातु श्री भगवान पुत्र मातु पुत्र मुखराम, रमेश पुत्र श्री भगवान पुत्र मातु, मेहर सिंह, केहर सिंह पुत्रान रिसाला पुत्र कुडा, प्रताप सिंह जगदीश सिंह पुत्रान हरदेवा पुत्र मातु हरकेश, रमेश पुत्रान मनकुल पुत्र नन्दू संजय कुमार, सुनील कुमार, प्रवीण कुमार पुत्रान बलवान सिंह पुत्र देका व अन्य
				23/1	निजी	कृषि	1 14 0.0860	श्रीम सिंह, जोरा सिंह, राम कुमार, राम नियास पुत्रान व सुनहरी, पतासी, शकुन्तला पुत्रीयान धर्मा पुत्र ताले, मौजी पुत्र ताले पुत्र मुखराम, चाद, राममेहर पुत्र व गुलाबी पुत्री दलीपा पुत्र ताले प्रित सिंह पुत्र मीर सिंह, ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण पुत्र ताले, कवर सिंह, सुखवीर सिंह पुत्रान सुन्दराम पुत्र माईधन, बिलेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह पुत्र दलीपा
				23/2	निजी	कृषि	2 2 0.1062	
				138/	2/2	निजी	0 2 0.0051	दिलबाग पुत्र देशराज पुत्र धन सिंह नियासी खड़ी मत्तानिया लह0 नरवाना
				3/1	निजी	कृषि	1 14 0.0860	
				3/2	निजी	कृषि	2 11 0.1290	श्रीम सिंह, जोरा सिंह, राम कुमार, राम नियास पुत्रान व सुनहरी, पतासी, शकुन्तला पुत्रीयान धर्मा पुत्र ताले, मौजी पुत्र ताले पुत्र मुखराम, चाद, राममेहर पुत्र व गुलाबी पुत्री दलीपा पुत्र ताले, प्रित सिंह पुत्र मीर सिंह, ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण पुत्र ताले, कवर सिंह, सुखवीर सिंह पुत्रान सुन्दराम पुत्र माईधन, बिलेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह पुत्र दलीपा
				4	निजी	कृषि	1 4 0.0607	
				7	निजी	कृषि	3 16 0.1922	
				8	निजी	कृषि	1 16 0.0911	
				13/1	निजी	कृषि	0 6 0.0152	
				13/2	निजी	कृषि	0 2 0.0051	
				14/1	निजी	कृषि	1 9 0.0733	
				14/2	निजी	कृषि	2 2 0.1062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				169	पंचायत	पानी की नाली	0 5 0.0126	ग्राम पंचायत
				15	मिजी	क्षेत्र	0 7 0.0177	नीम सिंह, जोरा सिंह, राम सुन्दर, राम निवास कुमन व सुन्दरी, गजरा, लक्ष्मण प्रदीपन कोई पत नहीं, कोई कुल नहीं कुल गुजरान, पति, रामचन्द्र कुल व गुजराने कुली बंसीधर कुल नहीं सिंह कुल नीर सिंह, लोनालका कुल हरनारायण कुल नहीं, राम सिंह, सुन्दरी सिंह कुमन सुन्दर कुल नरसिंह सिरोहा कुल कुमन सिंह कुल नहीं
				691	पंचायत	पराग	0 3 0.0076	ग्राम पंचायत
					नौव का कुल क्षेत्रफल		158 15 8.0385	

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई-रोहतक/रोहतक-जौंद/भू.अ./12-13/जौंद]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2013

S.O. 96(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 1369 (E) dated 18th June 2012, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 71 on the stretch of land from Km.307.000 to Km.327.000 (Rohtak-Jind Section) in Jind District in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification has been published in the “Dainik Bhaskar” and “Times of India” both dated 13th July 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 307.000 to KM 327.000 (Rohtak-Jind section) of the National Highway No. 71 in Jind District in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the Village hadbast number	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area			Name of Interested person
				Rectangle number	Field number			Kanal	Marla	Hectare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jind	1. Jind	(1) Anup Garh	23//	11	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Om Prakash S/o Ram Narayan, Smt. Kamla W/o Om Prakash S/o Ram Narayan
			H. B. No. 58		12	Panchayat	Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat
					18/1.2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Harjender Singh, Sukhvinder Singh, Kripal Singh S/o Rajendra Singh, Bijender S/o Hari Singh, Ram Dhari, Pratap Singh S/o Tara Chand, Smt. Sarjo W/o Hawa Singh
					18/1/3	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Bijender S/o & Shanti D/o Hari Singh, Rajendra S/o Hari Singh, Ram Rati W/o Bijender, Tara Chand S/o Jug Lal, Karamveer, Randhir, Dharamveer S/o Ramdhari, Sumesh S/o Pratap, Suresh, Ramesh, S/o Hawa Singh, Chander S/o Jug Lal, Manbhari W/o Chander Singh, Bharat Singh S/o Jug Lal, Satywan, Randheer, Ashok S/o Dharampal, Naseeb Kumar, Rajesh Kumar S/o Dhoop Singh
					18/2	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Manbhari W/o Chander Singh, Bharat Singh S/o Jug Lal, Satywan, Randheer, Ashok S/o Dharampal, Naseeb Kumar, Rajesh Kumar S/o Dhoop Singh
					19/1	Panchayat	Irrigated	0	3	0.0076	Village Panchayat
					19/2	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Salveer Singh S/o Hamir Singh
					20/1	Panchayat	Irrigated	0	1	0.0025	Village Panchayat
					20/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Satbeer Singh S/o Hamir Singh
					22	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Smt. Sunehari D/o & Bheem Singh, Dhajja Ram, Mehar Singh S/o Saroop Singh, Smt. Dayawanti W/o & Suman D/o & Shuakin S/o Sultan, Bharat Singh S/o Gohli, Ajmer, Ramesh S/o Basau
					23	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Bijender S/o & Shanti D/o Hari Singh, Rajendra S/o Hari Singh, Ram Rati W/o Bijender, Tara Chand S/o Jug Lal, Karamveer, Randhir, Dharamveer S/o Ramdhari, Sumesh S/o Pratap, Suresh, Ramesh, S/o Hawa Singh, Chander S/o Jug Lal, Manbhari W/o Chander Singh, Bharat Singh S/o Jug Lal, Satywan, Randheer, Ashok S/o Dharampal, Naseeb Kumar, Rajesh Kumar S/o Dhoop Singh
				32//	2	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Ajmer Singh, Ramesh S/o Basau, Smt. Savitri W/o & Krishan, Jasveer Singh, Surender S/o & Smt. Mukesh D/o Raghuveer Singh, Randheer S/o Gohli Ram
					3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Bijender S/o & Shanti D/o Hari Singh, Rajendra S/o Hari Singh, Ram Rati W/o Bijender, Tara Chand S/o Jug Lal, Karamveer, Randhir, Dharamveer S/o Ramdhari, Sumesh S/o Pratap, Suresh, Ramesh, S/o Hawa Singh, Chander S/o Jug Lal, Manbhari W/o Chander Singh, Bharat Singh S/o Jug Lal, Satywan, Randheer, Ashok S/o Dharampal, Naseeb Kumar, Rajesh Kumar S/o Dhoop Singh
					8	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Ajmer Singh, Ramesh S/o Basau, Smt. Savitri W/o & Krishan, Jasveer Singh, Surender S/o & Smt. Mukesh D/o Raghuveer Singh, Randheer S/o Gohli Ram
					9	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Singh, Surender S/o & Smt. Mukesh D/o Raghuveer Singh, Randheer S/o Gohli Ram
					13/1	Private	Irrigated	1	10	0.0759	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				13/2	Private	Irrigated	2	2	0.1062	Satveer S/o Basau	
				18	Private	Irrigated	3	12	0.1821		
				23	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Smt. Khazani Devi W/o Jai Singh	
				24	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Dalveer Singh, Wazir Singh S/o Jai Singh	
				25/1/1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Laxman S/o Neki, Rajendra, Bijender S/o & Smt. Sarti Wd/o Laxman	
				25/1/2	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Dalip S/o Neki	
				25/2	Government	Road	0	1	0.0025	Haryana Government P.W.D	
				48//	11	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Suresh kumar, Bijendra S/o Mangeram, Smt.Indrawati Widow & Smt. Kamlesh, Nirmal, Sumitra D/o Mangeram, Laxman singh S/o Nekiram other Share Holders
				20	Private	Company	1	0	0.0506	Dariya singh, Jile singh, Karaveer, Satveer, Rajendra, Dalveer, Suresh S/o Harphool, Charan singh S/o Lal Chandra, Ramniwash, Subhash, Rambhaji S/o Vimla D/o Sube, Smt. Kiranbala widow & Amit kumar, Sumit kumar S/o Dharamveer, Mahesh Kumar S/o Bajrang Dass, Birender Kumar S/o Nand Gopal	
				21/1	Private	Irrigated	1	5	0.0632	Dariya singh, Jile singh, Karaveer, Satveer, Rajendra, Dalveer, Suresh S/o Harphool, Charan singh S/o Lal Chandra, Ramniwash, Subhash, Rambhaji S/o Vimla D/o Sube, Smt. Kiranbala widow & Amit kumar, Sumit kumar S/o Dharamveer, Mauji Ram, Jagan Nath, Vishnu Dutt S/o Chandgi	
				21/2	Private	Company	1	0	0.0506	Dariya singh, Jile singh, Karaveer, Satveer, Rajendra, Dalveer, Suresh S/o Harphool, Charan singh S/o Lal Chandra, Ramniwash, Subhash, Rambhaji S/o Vimla D/o Sube, Smt. Kiranbala widow & Amit kumar, Sumit kumar S/o Dharamveer, M/s Jindal Industries Jind	
				49//	4	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Smt. Kiran Bala Wd/o Dharamveer, Dariya Singh, Jile Singh, Karamveer Singh, Satveer Singh, Rajendra Singh, Balveer Singh, Suresh Kumar S/o Harphool, Amit Kumar, Sumit Kumar S/o Dharamveer, Dalbeer, Jagveer S/o Vishnu Dutt, Maujiram, Jagan Nath S/o Chandgi
				5/1	Government	Road	0	1	0.0025	Haryana Government P.W.D	
				5/2/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Laxman S/o Neki, Rajendra, Bijender S/o & Smt. Sarti Wd/o Laxman	
				6/1/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Dalip S/o Naki	
				6/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Suresh kumar, Bijendra S/o Mangeram, Smt.Indrawati Widow & Smt. Kamlesh, Nirmal, Sumitra D/o Mangeram, Laxman singh S/o Nekiram other Share Holders	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7	Private	Irrigated	3 12	0.1821
				14	Private	Irrigated	0 2	0.0051
				15	Private	Irrigated	3 10	0.1771
				16	Private	Irrigated	3 12	0.1821
				25	Private	Irrigated	2 3	0.1088
				Path	Panchayat	Path	0 4	0.0101
				58// 5	Private	Irrigated	0 3	0.0076
				59// 1	Private	Irrigated	3 10	0.1771
				2	Private	Company	1 0	0.0506
				9/1	Private	Company	0 6	0.0152
				9/2	Private	Irrigated	0 15	0.0379
				10	Private	Irrigated	3 14	0.1872
				11	Private	Irrigated	3 14	0.1872
				12	Private	Irrigated	1 0	0.0506
				18	Private	Irrigated	1 0	0.0506

Smt. Kiran Bala W/o Dharamveer, Dariya Singh, Jile Singh, Karamveer Singh, Satveer Singh, Rajendra Singh, Balveer Singh, Suresh Kumar S/o Harphool, Amit Kumar, Sumit Kumar S/o Dharamveer, Dalbeer, Jagveer S/o Vishnu Dutt, Maujiram, Jagan Nath S/o Chandgi

Dariya Singh, Jile Singh, Karaveer, Satveer, Rajendra, Dalveer, Suresh S/o Harphool, Charan Singh S/o Lal Chandra, Ramniwash, Subhash, Rambhaji S/o Vimla D/o Sube, Smt. Kiranbala widow & Amit Kumar, Sumit Kumar S/o Dharamveer, Mauji Ram, Jagan Nath, Vishnu Dutt S/o Chandgi

Darya Singh, Jile Singh, Karamvir, Satvir, Rajendra, Balvir, Suresh S/o Harful, Charan Singh S/o Lal Chand, Ram Niwas, Subhash, Rambhaji S/o & Vimla D/o Suba, Smt. Kiran Bala Widow & Amit Kumar, Sumit Kumar S/o Dharmvir

435-Village Panchayat

Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsu, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsu, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D S/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar

Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsiram, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsu, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar

Prabhu Diwana S/o Chetram, Karamveer Singh Alias Dharamveer S/o Prabhu S R Memorial Siksha Samiti, 25 University, Mustri Patta Dahinda Smt. Vidya Devi W/o Bagwan Das Patta Garinda

Chandar S/o Badlu, Smt. Binu W/o Tarachand

Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsu, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsu, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D S/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar

Tekram, Ramdhari S/o Talu

Tekram, Ramdhari S/o Talu

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				19	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsai, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsai, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D S/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar	
				20	Private	Irrigated	0	4	0.0101		
				22	Private	Irrigated	3	14	0.1872		
				23/1/1	Private	Company	0	9	0.0228	M/s Navneet Udhog Pvt. Ltd. Director Mahaveer	
				23/1/2	Private	Company	0	7	0.0177	Lajpat Rai S/o Deepchand	
				23/2	Private	Company	0	3	0.0076	Vedpal, Ramdhari S/o Dhanpat, Sunehari Widow & Surendra singh, Narendra singh S/o & Nirmala devi D/o Ajmer singh, Roopchandra S/o Dhara, Dilpat S/o Mange Ram Mustri Patta Dahinda Roshan Lal S/o Om Parkash Patta Garinda	
				74/1	2	Private	Irrigated	3	14	0.1872	Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsai, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsai, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D S/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar
				3/1	Private	Company	0	11	0.0278	Vedpal, Ramdhari S/o Dhanpat, Sunehari Widow & Surendra singh, Narendra singh S/o & Nirmala devi D/o Ajmer singh, Roopchandra S/o Dhara, Dilpat S/o Mange Ram Mustri Patta Dahinda Roshan Lal S/o Om Parkash Patta Garinda	
				3/2/1	Private	Company	0	2	0.0051		
				3/2/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Dalbir Singh, Kulvir Singh, Yashvir Singh S/o Rajpal Singh	
				7/1	Private	Company	0	4	0.0101	M/s Shakti Wires Anupgarh Jind	
				7/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Dalbir Singh, Kulvir Singh, Yashvir Singh S/o Rajpal Singh	
				8	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Satvir Singh, Dharmvir Singh S/o Mansingh, Bhaleeram S/o Munsai, Bani Singh, Balvir Singh, Jagvir Singh, Vedparkash S/o Mehar Singh, Meher Singh S/o Gyni Ram, Partap Singh S/o Munsai, Ramher S/o Partap Singh, Balwan Singh, Ishwar Singh S/o & Smt. Rajkala, Sewawati D S/o Gulab Singh Khanakast Partap Hisedar	
				9	Private	Irrigated	0	6	0.0152		
				Total Area of the Village			89	8	4.522		
			(2) Kinana	29/1	Minor	Panchayat	Non-Irrigated	0	4	0.0101	230-Village Panchayat
			H. B. No. 59	13/1	Government	Non-Irrigated	1	2	0.0556	Haryana Government	
				13/2	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Smt. Harvansh Kaur Widow and Guru Darshan Kaur Sarvjeet Kaur, Harvinder Kaur D/o and Kuldeep Singh, Vikram Jeet, Baljeet Singh S/o Dalip Singh, Sher Singh S/o Chandan Singh, Smt Chandrapati W/o and Rajendra and Rajendra Singh S/o Sher Singh	
				14/1	Government	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Haryana Government	
				14/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Meera Devi W/o Naresh Kumar, Saroj Devi W/o Sushil Kumar, Anita W/o Virendra Kumar, Nahano Widow and Rajendra Singh, Rajkumar, Kuldeep, Ashok S/o Kaptan	
				17	Private	Irrigated	0	14	0.0354		

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				18	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Harvansh Kaur Widow and Guru Darshan Kaur Sarvjeet Kaur, Harvinder Kaur D/o and Kuldeep Singh, Vikram Jeet, Baljeet Singh S/o Dalip Singh, Sher Singh S/o Chandan Singh, Smt Chandrapati W/o and Rajendra and Rajendra Singh S/o Sher Singh	
				23/2	Private	Irrigated	0	10	0.0253		
				24	Private	Irrigated	2	19	0.1492		
				25	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Meera Devi W/o Naresh Kumar, Saroj Devi W/o Sushil Kumar, Anita W/o Virendra Kumar, Nahano Widow and Rajendra Singh, Rajkumar, Kuldeep, Ashok S/o Kaptan	
				43//	11	Government	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Shamlat Pana Rasan Hissedaran Bhagatu S/o Johari
				20	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Shamlat Pana Rasan Hissedaran Rajendra S/o Ram kumar, Balwan, Dharampal, Ajmer S/o Rulia, Ramphal, Surajbhan S/o Laxman S/o Maan Singh, Sohanlal S/o Mohluram, Jattha Singh S/o Rameshwar, Bhagatu S/o Johari, Krishan S/o Syokaran Singh, Jagdish S/o Chanduram	
				246	Panchayat	Non-Irrigated	7	0	0.3541	Village Panchayat	
				212	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Village Panchayat	
				21	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Shamlat Pana Rasan Makbuja Central Government T.E.K	
				720	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				44//	4	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Harvansh Kaur Widow and Guru Darshan Kaur Sarvjeet Kaur, Harvinder Kaur D/o and Kuldeep Singh, Vikram Jeet, Baljeet Singh S/o Dalip Singh, Sher Singh S/o Chandan Singh, Smt Chandrapati W/o and Rajendra and Rajendra Singh S/o Sher Singh Rahanan Lal Singh S/o Bhagwana
				5/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Meera Devi W/o Naresh Kumar, Saroj Devi W/o Sushil Kumar, Anita W/o Virendra Kumar, Nahano Widow and Rajendra Singh, Rajkumar, Kuldeep, Ashok S/o Kaptan	
				5/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Surta, Bhima S/o Dayaram, Smt. Anguri Widow Chanda, Satpal, Jai Singh, Chetram S/o and Smt Rambati, Dhanpati D/o Chandar, Balwan, Dharmvir, Karan Singh S/o Baldeva, Smt. Chhaoti Widow and Ramrati, Krishna, Om Wati, Bhateri D/o Baldeva	
				6	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Shamlat Pana Rasan Khanakast Bhim Singh, Surat Singh S/o Dayaram, Ram chand S/o Pirthi, Karan Singh S/o Baldeva, Sat Pal S/o Chanda, Karan Singh S/o Chandgi, Ramphal S/o Haniram	
				7	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Harvansh Kaur Widow and Guru Darshan Kaur Sarvjeet Kaur, Harvinder Kaur D/o and Kuldeep Singh, Vikram Jeet, Baljeet Singh S/o Dalip Singh, Sher Singh S/o Chandan Singh, Smt Chandrapati W/o and Rajendra and Rajendra Singh S/o Sher Singh Rahanan Lal Singh S/o Bhagwana	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				14	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Smt. Bedho widow and Harkesh, Bajjeet, Subhash, Narender S/o and Smt. Geeta D/o Fool Kumar, Smt. Lichhi Wd/o & Surendra, Mohindra, Rahul, Ss/o & Shila, Sumita, Vandana Ds/o Omprakash S/o Har Chand Khanakast Lichhi, Surendra, Mohindra, Rahul, Shila, Sumita, Vandana	
				244	Panchayat	Non-Irrigated	1	18	0.0961	Village Panchayat	
				245	Panchayat	Non-Irrigated	1	8	0.0708	Village Panchayat	
				15	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Shamlat Pana Rasan Khanakast Fool Kumar S/o Amar Singh Gair Morrosi	
				59//	249	Panchayat	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Village Panchayat
				60//	250	Panchayat	Non-Irrigated	1	16	0.0911	Village Panchayat
				2/1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Dhana Ram S/o Ruda Ram, Jai Singh S/o chandram, Kapoora S/o Hava Singh, Ishwar S/o Mangal Singh, Karmvir S/o Hari Singh, Ramesh S/o Hokmi, Dalvir S/o Jai Chand, Jasvir singh S/o Ram Kumar, Dinanath S/o Phool Singh, Sher Singh S/o Jodha Ram, Om Parkash S/o Surta Ram, Ramesh S/o Diwana Singh, Daya Singh, Satvir Singh S/o Jodha Ram, Rampyari Widow and surrender, Mukesh S/o and Smt. Dayawanti, Babli, Asha, Anita D/o Kartar singh	
				9/1 Min	Private	Non-Irrigated	0	9	0.0228	9/1/2/2-Tarachand S/o Ujala 9/1/2/3-Dhan Singh S/o Ujala, 9/1/2/4-Bhagatram, Satyawar, Motiram Ss/o Deviram Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				9/2	Private	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Jile Singh S/o Amar Singh, Smt. Birmati W/o Jile Singh Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				9/3	Private	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Subhash S/o Indra Singh, Smt Guddi W/o Subhash Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				9/4	Private	Path	0	2	0.0051	Anil Kumar, Naveen Kumar Ss/o Ram mehar S/o Srichand	
				9/5	Private	Non-Irrigated	0	2	0.0051	Hawa Singh S/o karan Singh, Smt Sunahari Devi W/o Hawa Singh Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				9/6	Private	Non-Irrigated	0	2	0.0051	Jaswant Singh S/o Hari Singh Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				9/7	Private	Non-Irrigated	0	2	0.0051	Phool Singh S/o Hari Singh Khanakast Rameshwar S/o Ramjilal	
				10	Private	Non-Irrigated	4	9	0.2251	Maher Singh S/o Jai Naryan Singh, Vijay Pal Singh S/o Ude Singh	
				11/1	Private	Irrigated	3	0	0.1518		
				11/2	Private	Non-Irrigated	0	12	0.0304	Rajesh, Sanjay S/o Ramphal	
				12	Private	Company	1	0	0.0506	Kusum Sharma W/o Dr. Naresh Sharma	
				18/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Kusum Sharma W/o Dr. Naresh Sharma	
				19/1	Private	Non-Irrigated	0	7	0.0177	Rajesh, Sanjay S/o Ramphal	
				19/2	Private	Irrigated	2	19	0.1492	Smt. Babita Rani W/o Parveen Kumar, Ishwar Parkash S/o SriKishan	
				20/1 Min	Private	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Rajesh, Sanjay S/o Ramphal	
				20/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Smt. Babita Rani W/o Parveen Kumar, Ishwar Parkash S/o SriKishan	
				22	Private	Irrigated	3	12	0.1821		
				23	Private	Non-Irrigated	1	0	0.0506	Kusum Sharma W/o Dr. Naresh Sharma	
				73//	2/2	Private	Irrigated	3	12	0.1821	M/s Sainik Tranport Centre Kinana

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mansa Singh S/o Ganga Singh, Smt. Sukhvinder Kaur widow, Amarjeet Kaur D/o & Harvinder Singh, Vikram Jeet Singh, Hardev Singh S/o Dheer Singh Khanakast Sukhvinder Kaur, Amarjeet Kaur, Harvinder Singh, Vikram Jeet Singh, Hardev Singh Vian Smt. Raj Kaur W/o Jagjeet Singh, Sakuntla W/o Dilbag Singh	
				7	Private	Irrigated	1	5	0.0632		
				8	Private	Irrigated	3	6	0.1669	M/s Sanik Transport Centre Kinana	
				9	Private	Irrigated	0	5	0.0126		
				13	Private	Irrigated	3	12	0.1821		
				211	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Village Panchayat	
				14	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Rajendra, Hari Om, Shri Pal S/o Purn, Rakesh, Mukesh, S/o Jai Pal Khana kast Rajendra Hissedar Vian Ravisankar S/o Devraj, Smt. Sahabo W/o Raghbir Singh	
				17	Private	Factory	1	0	0.0506		
				18	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Shamlat pana Rasan Khanakast Champa devi W/o Mohan Lal Gair Mourusi	
				23	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Shamlat pana Rasan Khanakast Ranvir Singh, Rameshwar, Karan Singh, Ram Kumar, Kuldeep S/o Jile Singh Mustrian	
				24	Private	Irrigated	2	18	0.1467		
				218	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				25/1/1	Private	Company	0	6	0.0152	Digvijay Singh S/o Jasvir Singh, Kulvir Singh S/o Raghvir Singh	
				25/2/1/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Surat Singh S/o Rishal Singh, Jora Singh S/o Har Chand	
				25/2/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Dilavar Singh S/o Raj Singh	
				91//	4	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Shamlat pana Rasan Khanakast Ranvir Singh, Rameshwar, Karan Singh, Ram Kumar, Kuldeep S/o Jile Singh Mustrian
				5/1	Private	Company	0	12	0.0304	M/s Maha Lakshmi Kotan & Janral Mills Kinana, Jind	
				5/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Ravindra Kumar S/o Rameshwar Das	
				6/1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Sindhu Farm Pvt. Ltd. Kinana	
				6/2	Private	Non-Irrigated	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				7	Private	Irrigated	3	12	0.1821	The Haryana Marketing Society	
				14	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Comprasice Society Jind	
				15/1	Private	Irrigated	3	6	0.1669		
				274	Panchayat	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Village Panchayat	
				15/2	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Garib Ram, Nafe Singh, Dalip Singh, Anoop Singh, S/o Ram Singh	
				16	Private	Irrigated	3	12	0.1821	The Haryana Marketing Society	
				25	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Comprasice Society Jind	
				92//	11	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Araji Matruka Bila Allot Hissedar Via Surajbhan S/o Parbhu
				20	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Garib Ram, Nafe Singh, Dalip Singh, Anoop Singh S/o Ram Singh	
				21/1	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Anoop Singh, Garib Ram, Nafe Singh, Dalip Singh S/o Ram Singh, Aryan S/o Jogindra Singh	
				21/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Shamlat Pana Bhuglan	
				103//	1	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Rajsingh, Devender Singh S/o Naval Singh, Vinay Kumar S/o Hosiyar Singh
				2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Araji Matruka Bila Allot Hissedar Via Jile Singh, Arjun, Hava Singh, Ramkumar S/o Chanda	
				9	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Raj singh, Devender Singh S/o Naval Singh, Vinay Kumar S/o Hosiyar Singh	
				10	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Araji Matruka Bila Allot Hissedar Via Chatar Singh S/o Durga Ram, Sarvir S/o Dayaram	
				11	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Araji Matruka Bila Allot Chatar Singh S/o Durga Ram	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				12/1	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Param Mitra Manav Nirman Sansthan
				12/2	Government	Canal	0	5	0.0126	Haryana Government
				18/2/1/1	Government	Non-Irrigated	0	14	0.0354	Param Mitra Manav Nirman Sansthan
				18/2/1/2	Panchayat	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Village Panchayat
				18/2/2	Government	Canal	0	3	0.0076	Haryana Government
				19/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Araji Matraka Bila Allot Chatar Singh S/o Durga Ram
				19/2	Government	Canal	1	11	0.0784	Haryana Government
				19/3	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Araji Matraka Bila Allot Chatar Singh S/o Durga Ram
				20/1/1	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Araji Matraka Bila Allot Hissedar Via Sukhdev Singh S/o Kapoor Singh S/o Mansa Ram Mustri
				20/1/2	Government	Canal	0	0	0.0000	Haryana Government
				22/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt. Dayawanti S/o Rishal Singh
				22/2	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Satywan S/o Amritlal, Sindhu Farm Pvt. Ltd. Rohtak
				23	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Sindhu Education Foundation
				205	Private	Non-Irrigated	0	7	0.0177	Singhram S/o Dhan Singh, Ranvir Singh S/o Lahari, Sahab Singh S/o Bhadur, Om Parkash S/o Bhadur, Gopiram, Surajmal S/o Girdhari, Ramher S/o Balwant Singh And others
			104//	5	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Araji Matraka Bila Allot Hissedar Via Jile Singh, Arjun, Hava Singh, Ramkumar S/o Chanda
			124//	2/1	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Satywan S/o Amritlal, Sindhu Farm Pvt. Ltd. Rohtak
				2/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Satywan S/o Amritlal
				206	Private	Non-Irrigated	1	6	0.0658	Gair Mumkin- Randas S/o Ran Singh, Ramroop S/o Preet Singh, Bhanta S/o Prabhu, Ram mehar S/o Ran Singh, Ram Mehar S/o Amar Singh, Vijay Kumar, Ajay Kumar S/o Rajendra Singh, Sandeep S/o Ranbir Singh, Satveer, Krishna S/o Sube Singh, Provisional Government, Narayan S/o Mehtab Singh
				3/1	Panchayat	Irrigated	0	7	0.0177	Jumala Mustaraka Malkan & Digar Hekderan Araaji Hasb Rasad
				3/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Virendra Kumar, Om Kumar,
				7	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Naryan, Mukesh, Ravinder S/o
				8	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Mahtab Singh
				9	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Raghuvir Singh S/o Chhotu
				13	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Virendra Kumar, Om Kumar, Naryan, Mukesh, Ravinder S/o Mahtab Singh
				14/1	Private	Non-Irrigated	0	10	0.0253	Dharamvir Singh S/o Chandra Singh, Anil Kumar S/o Fool Singh, Subhasichandra S/o Darya
				14/2	Private	Non-Irrigated	0	8	0.0202	Subhash Chand S/o Darya Singh
				772	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat
				17/1/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Village Panchayat
				17/1/2	Private	Non-Irrigated	0	11	0.0278	Sindhu Education Foundation
				17/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	
				18	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Virendra Kumar, Om Kumar,
				23	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Naryan, Mukesh, Ravinder S/o
				24	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Mahtab Singh
				25	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Sindhu Education Foundation
			132//	11/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Devendra Kumar S/o Bhaskar Chand,
				20/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Surender Kumar S/o Santid
				20/2	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
				177	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat
				21/1	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Prem Singh S/o Katar Singh
				21/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Krishnavati S/o Chanduran, Smt. Kusum W/o Devender Kumar
			133//	4	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Virendra Kumar, Om Kumar, Naryan, Mukesh, Ravinder S/o Mahtab Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				13.1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Shamlat pana Rasan Khanakast Dilbag S/o Armit Mushatri Sindhu Education Foundation
				13.2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Virendra Kumar, Om Kumar, Naryan, Mukesh, Ravinder S/o Mahtab Singh
				13.3	Private	Irrigated	3	6	0.1664	Bhaya Ram, Hari Ram, Ramtool S/o Sita Ram, Seva Singh, Balwant Singh, Devi Singh S/o Jeevan Singh, Rampal, Dayanand, Man Singh, Siyanand S/o Pokhar Khanakast Bhayaram, Ramfool, Sewa Singh, Ramphai Hissedaran Vian Smt. Sukhivinder Kaur Widow, Harvinder Singh, Hardev Singh S/o and Smt. Amarjeet Kaur D/o Dheer Singh Jagat Singh S/o mansa Singh S/o Ganga Singh Mustrian
				13.4	Private	Irrigated	0	6	0.0152	
				13.5	Private	Irrigated	0	10	0.0553	
				13.6	Private	Irrigated	3	2	0.1568	
				13.7	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Shamlat pana rasan
				13.8	Private	Irrigated	0	1	0.0479	Devendra Kumar S/o Bhadur Chand, Surender Kumar S/o Santlal
				13.9	Private	Irrigated	3	12	0.1231	From Singh S/o Kehar Singh
				13.10	Private	Irrigated	0	6	0.0112	
				13.11	Private	Irrigated	2	12	0.1315	
				13.12	Path	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat
				13.13	Private	Non-Irrigated	6	2	0.1527	Parveen Kumar S/o Purusottam Lal
				13.14	Private	Irrigated	0	6	0.0423	Dalvir Singh S/o Shadi Ram
				13.15	Private	Non-Irrigated	1	2	0.0226	Parveen Kumar S/o Purusottam Lal
				13.16	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Dalvir Singh S/o Shadi Ram
				13.17	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Vikramjeet Singh S/o Dheera Singh
				13.18	Path	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat
				13.19	Private	Irrigated	0	17	0.1401	Maha Singh, Jile Singh S/o Keher Singh
				13.20	Private	Irrigated	0	1	0.0078	Maha Singh, Jile Singh S/o Keher Singh
				13.21	Private	Irrigated	1	0	0.0276	Karam Pal S/o Satvir
				13.22	Private	Irrigated	3	12	0.1521	Smt. Sonam devi W/o Rishupal
				13.23	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Maha Singh, Jile Singh S/o Keher Singh
				13.24	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Karan Singh, Rajendra, Randhir Singh S/o Harikishan, Sube Singh, Raghuvir Singh, Rameher S/o Sukhlal, Bharat Singh, Vijay Singh, Kartar Singh S/o Surat Singh, Chandra Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh
				13.25	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Smt. Joginder Kaur W/o Surender Singh
				13.26	Private	Irrigated	0	12	0.0553	Amarjeet Singh, Rajpal Singh, Charanjeet Singh S/o Surender Singh
				13.27	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Karan Singh, Rajendra, Randhir Singh S/o Harikishan, Sube Singh, Raghuvir Singh, Rameher S/o Sukhlal, Bharat Singh, Vijay Singh, Kartar Singh S/o Surat Singh, Chandra Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh
				13.28	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Amarjeet Singh, Rajpal Singh, Charanjeet Singh S/o Surender Singh
				13.29	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mukesh, Ravinder, Birender, Omkar, Naryan S/o Mahtab Singh
				13.30	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mukesh, Ravinder, Birender, Omkar, Naryan S/o Mahtab Singh
				13.31	Private	Irrigated	3	0	0.1518	Amarjeet Singh, Rajpal Singh, Charanjeet Singh S/o Surender Singh
				13.32	Private	Irrigated	0	13	0.0529	
				13.33	Private	Irrigated	3	12	0.1821	
				13.34	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mukesh, Ravinder, Birender, Omkar, Naryan S/o Mahtab Singh
				13.35	Private	Irrigated	1	0	0.0506	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				18/1	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Karan Singh, Rajendra, Randhir Singh S/o Harikishan	
				18/2	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Ram Naryan Eductoon Society Kinana	
				23	Private	Irrigated	0	15	0.0379		
				24	Private	Irrigated	2	17	0.1442		
				25	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shakuntla Devi W/o Madanlal	
				175//	4	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Ratiram, Dilbag, Atar Chandra, Satvir Preem, Bhoop Singh Ss/o Ram Kishan, Karan Singh, Rajendra, Randhir Singh S/o Harikishan
				5	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Smt. Shakuntla Devi W/o Madanlal	
				800	Private	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Anokha Singh, Hira Singh S/o Hajari, Mahavir, Mahatab, Satpal, Shripal, Kapoor Singh S/o and Smt. Birmi D/o Thambu, Randhir Singh S/o Harkishan, Mahender Singh, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pwan S/o Rajendra, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Prem Singh, Bhoop singh S/o Ramkishan, Kuldeep S/o Bhim Singh, Harish S/o Hajara, Amar Kaur Widow Hajara Singh etc. kahanakast Hari Singh Hissedar Vian Randhir Singh S/o Hari Kishan, Maherder, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pawan S/o Rajendra, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Prem Singh, Bhoop Singh S/o Ram Kishan	
				7	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Smt. Amar Kaur Widow and Anokha Singh, Hari Singh S/o Hajara, Mahavir, Mahatab, Satpal, Shripal, Kapoor Singh S/o and Smt. Brahmi D/o Thambu, Randhir Singh S/o Harkishan, Mahender Singh, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pwan S/o Rajendra, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir, Prem Singh, Bhoop singh S/o Ramkishan, Kuldeep S/o Bhim Singh, Hari Singh S/o Diwan singh Khanakast Smt. Anokha Singh Hissedar Vian Rati Ram, Dilbag, Atar Singh, Prem Singh, Sarvir singh, Bhoop singh S/o Ram Kishan, Karan Singh, Rajendra, Randhir S/o Hari Kishan, Maherder, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pawan S/o Rajendra	
			Total Area of the Village				220	6	11.1441		
		2. Julana	(I) Gusain Khera	8//	6	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mahavir Singh S/o Thambu
				7	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Bani Singh, Sish Pal, Mahendra S/o Dariya, Raghuvir S/o Mutwana, Juglal S/o Matu, Sube, Ram Vir S/o Sukhlal, Bhoop Singh S/o Deepu, Sandeep, Pardeep S/o Bhoop singh, Sokal Widow Deepu S/o Tale	
			H. B. No. 60	14/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Khanakast Santosh W/o Dharmvir S/o Sube, Sone S/o Dharmvir & Other Shareholders	
				14/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Bani Singh, Sish Pal, Mahendra S/o Dariya, Raghuvir S/o Mutwana, Juglal S/o Matu, Sube, Ram Vir S/o Sukhlal, Bhoop Singh S/o Deepu, Sandeep, Pardeep S/o Bhoop singh, Sokal Widow Deepu S/o Tale	
				15/1/1	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Khanakast Bani Singh, Bhoop Singh & Other Shareholders	
				15/1/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708		
				15/2	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Mahavir Singh S/o Thambu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				16	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Anoop Singh, Satyawat, Kuldeep, Yudhvir S/o and Nirmala, Vimla D/o Maha Singh, Smt. Lado and Jagat Singh, Dhamvir, Satpal, Rajpal S/o and Smt. Krishna D/o Hosyar Singh, Bhim Singh S/o Rangi S/o Saudagar, Ramniwas S/o Rampal, Dayanand S/o Pakhar, Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Ravinder S/o Siyanand, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Narender Singh, Devender Singh S/o Hava Singh, Rati Ram, Dilbag, Atar, Satvir, Prem, Bhoop Singh S/o Ramkishan S/o Sodagar, Karan Singh, Rajendra, Randhir S/o Harikishan, Baje Singh, Kartar S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Rampal S/o Naryan Singh, Dhamvir, Ramesh S/o Sube Singh S/o Sukhlal, Partap Singh S/o Ratan Singh S/o Lahari, Ranvir, Ramesh S/o Pahladha
				25	Private	Irrigated	3	8	0.1720	
				11	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Mahavir Singh S/o Thambu
				20/2	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Maharab Singh S/o Thambu
				21/1	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Anoop Singh, Satyawat, Kuldeep, Yudhvir S/o and Nirmala, Vimla D/o Maha Singh, Smt. Lado and Jagat Singh, Dhamvir, Satpal, Rajpal S/o and Smt. Krishna D/o Hosyar Singh, Bhim Singh S/o Rangi S/o Saudagar, Ramniwas S/o Rampal, Dayanand S/o Pakhar, Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Ravinder S/o Siyanand, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Narender Singh, Devender Singh S/o Hava Singh, Rati Ram, Dilbag, Atar, Satvir, Prem, Bhoop Singh S/o Ramkishan S/o Sodagar, Karan Singh, Rajendra, Randhir S/o Harikishan, Baje Singh, Kartar S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Rampal S/o Naryan Singh, Dhamvir, Ramesh S/o Sube Singh S/o Sukhlal, Partap Singh S/o Ratan Singh S/o Lahari, Ranvir, Ramesh S/o Pahladha
				21/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Sant Ram, Raj Kumar S/o Sewa Singh S/o Jeevan, Mahender, Khajan, Mohan, Sohan Lal S/o Balwant, Ajad, Teja, Madan S/o Devi Singh S/o Jeevan, Bhiya Ram, Hari Ram, Ram Pal S/o Sita Ram S/o Sukharam Khankezi Bhiya Ram, Hari Ram, Rampal

1	2	3	4	5	6	7	8		9		
				21//	1	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Anoop Singh, Saryawan, Kuldeep, Yudhvir S/o and Nirmala, Vimla D/o Maha Singh, Smt. Lado and Jagat Singh, Dharmvir, Satpal, Rajpal S/o and Smt. Krishna D/o Hosyar Singh, Bhim Singh S/o Rangi S/o Saudagar, Ramniwas S/o Rampal, Dayanand S/o Pakhar, Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Ravinder S/o Siyanand, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Narender Singh, Devender Singh S/o Hava Singh, Rati Ram, Dilbag, Atar, Satvir, Prem, Bhoop Singh S/o Ramkishan S/o Sodagar, Karan Singh, Rajendra, Randhir S/o Harikishan, Baje Singh, Kartar S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Rampal S/o Naryan Singh, Dharmvir, Ramesh S/o Sube Singh S/o Sukhlal, Partap Singh S/o Ratan Singh S/o Lahari, Ranvir, Ramesh S/o Pahladha
					2/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Sant Ram, Raj Kumar S/o Sewa Singh S/o Jeevan, Mahender, Khajan, Mohan, Sohan Lal S/o Balwant, Ajad, Teja, Madan S/o Devi Singh S/o Jeevan, Bhiya Ram, Hari Ram, Ram Pal, Sita Ram S/o Sukharam
					9 Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ram Niwas S/o Ram Pal, Dayanand, Shivnand S/o Pakhar, Bimla Widow Sulekha, Rakha, Anita D/o and Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Chandra Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir Singh, Prem Singh, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Mahender Singh, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pawan S/o Rajendra, Randhir Singh S/o Hari Kishan, Jile Singh, Kartar Singh S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Bhim Singh S/o Rango, Kamla Widow and Gyatri D/o and Devender, Naresh S/o Hava Singh, Ranvir, Balvir, Ramesh S/o Pahlad, Anguri D/o Pahlad, Vajir S/o Rango
					10	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Bani Singh, Sish Pal, Maherder S/o Darya, Raghuvir S/o Mutwana, Juglal S/o Matu, Sube, Ram Vir S/o Sukhlal, Bhoop Singh S/o Deepu, Sandeep, Pardeep S/o Bhoop Singh, Sokal Widow Deepu S/o Tale Khanakast Sube Hissedar
					11	Private	Irrigated	0	2	0.0051	
					12	Private	Irrigated	3	15	0.1897	
					13/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Ram Niwas S/o Ram Pal, Dayanand, Shivnand S/o Pakhar, Bimla Widow Sulekha, Rakha, Anita D/o and Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir Singh, Prem Singh, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Mahender Singh, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pawan S/o Rajendra, Randhir Singh S/o Hari Kishan, Jile Singh, Kartar Singh S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Bhim Singh S/o Rango, Kamla Widow and Gyatri D/o and Devender, Naresh S/o Hava Singh, Ranvir, Balvir, Ramesh S/o Pahlad, Anguri D/o Pahlad, Vajir S/o Rango

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				13.2	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Ramdhari, Umed Singh, Ramkaran, Sukhdev S/o Daichand S/o Niyadar	
				17	Private	Irrigated	0	2	0.0251	Ram Niwas S/o Ram Pal, Dayanand, Shivanand S/o Pakhar, Bimla Widow Sulekha, Rakha, Anita D/o and Rakesh, Rajesh S/o ManSingh, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Ratiram, Dilbag, Atar Singh, Satvir Singh, Prem Singh, Bhoop Singh S/o Ram Kishan, Mahender Singh, Mahipal S/o Karan Singh, Naresh, Pawan S/o Rajendra, Randhir Singh S/o Hari Kishan, Jile Singh, Kartar Singh S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Bhim Singh S/o Rango, Kamla Widow and Gyatri D/o and Devender, Naresh S/o Hava Singh, Ranvir, Balvir, Ramesh S/o Pahlad, Anguri D/o Pahlad, Vaji S/o Rango	
				18	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Anoop Singh, Satiyawan, Kuldeep, Yudhvir S/o and Nimula, Vimla D/o Maha Singh, Smt. Lado and Jagat Singh, Dharnvir, Satpal, Rajpal S/o and Smt. Krishna D/o Hosyar Singh, Bhim Singh S/o Rangi S/o Saudagar, Ramniwas S/o Rampal, Dayanand S/o Pakhar, Rakesh, Rajesh S/o Man Singh, Ravinder S/o Siyanand, Chander Singh, Suraj Bhan S/o Sher Singh, Naresh Singh, Devender Singh S/o Hava Singh, Rati Ram, Dilbag, Atar, Satvir, Prem, Bhoop Singh S/o Ramkishan S/o Sodagar, Karan Singh, Rajendra, Randhir S/o Harikishan, Baje Singh, Kartar S/o Surat Singh, Joginder S/o Bharat Singh, Rampal S/o Naryan Singh, Dharnvir, Ramesh S/o Sube Singh S/o Sukhlal, Partap Singh S/o Ratan Singh S/o Lahari, Ranvir, Ramesh S/o Pahladha	
				19	Private	Irrigated	3	18	0.1923		
				23	Private	Irrigated	3	14	0.1872		
				24	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				22//	5	Private	Irrigated	0	12	0.0304	
				26//	26 Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	
				5	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				6	Private	Irrigated	0	18	0.0455		
				7	Private	Irrigated	3	13	0.1846		
				14	Private	Irrigated	0	0	0.0000		
				15.1	Private	Irrigated	3	13	0.1846		

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				15/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Randhir Kapoor, Harkesh S/o Bhagwana, Bhoop Singh, Mahernder S/o Surja, Om Pati widow and Lal Singh, Jagdish, Surender, Hosyar S/o Ishwar, Bhie, Dhampal, Hukamchand S/o Sarooa, Ramkumar, Kaliram, Atar Singh S/o Gorkha, Krishan, Rambhaji, Om Parkash S/o Ram Das S/o Madu	
				16	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Shamsher Singh S/o Sultan, Dayanand, Siyanand S/o Pokhar, Vimla Widow and Sulekha, Rekha, Anita D/o and Rakesh, Rajesh S/o Mansingh, Rajbala Widow Bedparkash S/o Deshraj, Savita D/o Vedparkash S/o Surender, Birender, Surender S/o Vedparkash, Ramniwas S/o Rampal S/o Pokhar	
				27//	11	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Randhir Kapoor, Harkesh S/o Bhagwana, Bhoop Singh, Mahernder S/o Surja, Om Pati widow and Lal Singh, Jagdish, Surender, Hosyar S/o Ishwar, Bhie, Dhampal, Hukamchand S/o Sarooa, Ramkumar, Kaliram, Atar Singh S/o Gorkha, Krishan, Rambhaji, Om Parkash S/o Ram Das S/o Madu
				19	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ram Kishan, Ranvir Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S/o Sajuram	
				20	Private	Irrigated	2	5	0.1138	Shamsher Singh S/o Sultan, Dayanand, Siyanand S/o Pokhar, Vimla Widow and Sulekha, Rekha, Anita D/o and Rakesh, Rajesh S/o Mansingh, Rajbala Widow Bedparkash S/o Deshraj, Savita D/o Vedparkash S/o Surender, Birender, Surender S/o Vedparkash, Ramniwas S/o Rampal S/o Pokhar	
				21	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Raj Kishan, Balvir Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S	
				22	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S	
			38//	1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	S/o Chhajuram	
				2	Private	Irrigated	3	10	0.1771		
				3/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Jaivir S/o Ujala, Rajvir S/o Wajir Singh	
				3/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Sunehra S/o Chatar Singh	
				7/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000		
				7/2	Panchayat	Road	0	1	0.0025	village Panchayat	
				8/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Sunehra S/o Chatar Singh	
				8/2	Panchayat	Road	0	0	0.0000	village Panchayat	
				9	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Raj Kishan, Balvir Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S	
				13	Private	Irrigated	3	18	0.1973	S/o Chhajuram	
				14/1	Panchayat	Road	0	1	0.0025	village Panchayat	
				14/2	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Raj Kishan, Balvir Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S S/o Chhajuram Smt Saroj W/o Naresh	
				16	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Umed Singh S/o Moti, Narender, Virendra, Bijender, Devender S/o Birkharam	
				17/1	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Raj Kishan, Balvir Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar, Vijay Singh S	
				17/2	Private	Irrigated	1	7	0.0683	S/o Chhajuram	
				18	Private	Irrigated	1	1	0.0531	S/o Chhajuram	
				24	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Jagat Singh S/o Molu S/o Uderam	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25	Private	Irrigated	1 0	0.0506 Smt. Nahani Widow and Kamlesh D/o Parbhu, Ramchander, Dharmvir, Subhash, Kuldeep S/o Parbhu, Sukhvinder, Surender S/o Pahlad, Shamsher Singh S/o Ram Singh Tej Kaur D/o Ram Singh, Lakshmi Widow and Murti, Sheetal, Savitri D/o Partap
				112 Path	Panchayat	Path	0 2	0.0051 Village Panchayat
				47//	4	Private	Irrigated	0 2 0.0051 Jiyanand, Bedpal S/o Jile Singh
				5Min	Private	Irrigated	3 10	0.1771 S/o Jiyanand, Bedpal S/o Jile Singh, S/o Smt. Nahani Widow and Kamlesh D/o Parbhu, Ramchander, Dharmvir, Subhash, Kuldeep S/o Parbhu, Sukhvinder, Surender S/o Pahlad, Shamsher Singh S/o Ram Singh Tej Kaur D/o Ram Singh, Lakshmi Widow and Murti, Sheetal, Savitri D/o Partap
				6	Private	Irrigated	2 2	0.1062 Dayanand S/o Molu, M/s Haryana Leather Chemicals Ltd.
				48//	1/1	Private	Irrigated	0 45 0.0329 Santri Widow and Rampal S/o Pohl, Saroj D/o Rampal, Ajmer S/o Rampal, Jasvir S/o Rampal, Smt. Ramrati W/o Kapoor, Ram Kishan S/o Pohl, Bhagwana S/o Randhir, Chandan S/o Rishala, Balwant Singh, Kartar Singh, Satyawar S/o Banwari Lal, Jagvir S/o Balwant, Smt. Ramal Widow and Smt. Kamlesh, Bimla, Savitri D/o and Jai Bhagwan, Jagvir S/o Devkram, Snehlata W/o Mohan Lal and Lalita Devi W/o Sukhvinder Singh, Jagdish, Satpal S/o Mahasingh, Manfool, Ramher Singh S/o Shival
				1/2	Private	Irrigated	0 7	0.0177 Jumala Mashatraka Maalkan
				9/2	Private	Irrigated	0 0	0.0000 Jumala Mashatraka Maalkan
				89 Path	Panchayat	Path	0 1	0.0025 Village Panchayat
				10/1	Private	Irrigated	0 19	0.0481 Jumala Mashatraka Maalkan
				10/2	Private	Irrigated	0 17	0.0436 Dayanand S/o Molu, M/s Haryana Leather Chemicals Ltd.
				83	Panchayat	Water Channel	0 4	0.0101 Village Panchayat
				11	Private	Irrigated	3 18	0.1973 Dayanand S/o Molu, M/s Haryana Leather Chemicals Ltd.
				75	Private	Irrigated	1 0	0.0506 Village Panchayat
				19/2	Private	Irrigated	2 6	0.1163 Khanakast Smt. Nahani, Kamlesh & Ramchandra, Dharmvir, Subash, Kuldeep, Maha Singh, Rammehar, Pahlad Singh, Sukhvinder, Surender and other share holder
				20	Private	Irrigated	1 9	0.0733 Smt. Sato Widow and Bala D/o Sultan Singh, Surajmal S/o Bhola, Raikumar S/o Sultan Singh, Smt. Omwati W/o Jagvir Singh and Anita Devi W/o Omvir, Sanjeev S/o Sultan Singh, Sunita W/o Narendar and other share holders
				22	Private	Irrigated	3 8	0.1720
				78	Panchayat	Water Channel	0 4	0.0101 Village Panchayat
				23	Private	Irrigated	1 0	0.0506 Dilbag Singh, Om Parkash, Baljeet Singh, Nafe Singh, Sajan Kumar, Jender S/o Balwant Singh, Savitri Widow and Kavita, Sarita, Anju D/o Dhannvir, Rajendra Singh, Ajat Singh S/o Bhim Singh, Rajendra Singh, Ranvir Singh, Subhash S/o Maha Singh, Kapil Dev, Lalit Dev S/o Atar Singh
				53//	90	Panchayat	Water Channel	0 1 0.0025 Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				2	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Dilbag Singh, Om Parkash, Baljeet Singh, Nafe Singh, Sajan Kumar, Jitender S/o Balwant Singh, Savitri Widow and Kavita, Sarita, Anju D/o Dharmvir, Rajendra Singh, Ajat Singh S/o Bhim Singh, Rajendra Singh, Ranvir Singh, Subhash S/o Maha Singh, Kapil Dev, Lalit Dev S/o Atar Singh
				3	Private	Irrigated	2	0	0.1012	
				84	Panchayat	Water Channel	2	0	0.1012	Village Panchayat
				4	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Dilbag Singh, Om Parkash, Baljeet Singh, Nafe Singh, Sajan Kumar, Jitender S/o Balwant Singh, Savitri Widow and Kavita, Sarita, Anju D/o Dharmvir, Rajendra Singh, Ajat Singh S/o Bhim Singh, Rajendra Singh, Ranvir Singh, Subhash S/o Maha Singh, Kapil Dev, Lalit Dev S/o Atar Singh
				7	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
				8	Private	Irrigated	3	8	0.1720	
				13	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Mahavir Singh, Prem Singh, Balvir Singh S/o Ratan Singh, Murti Widow and Seema, Anita, Sunita D/o and Jasvir S/o Raj Kumar
				14	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Satvir Singh Gautam S/o Dhajja Ram
				16	Private	Irrigated	0	19	0.0481	
				17	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Smt. Nahni etc. Hissedar, Balvir and Anita, Meenu, Bijender Hissedar
				24/1	Private	Irrigated	2	7	0.1189	Govind Shay S/o Diyala Khanakast Karamvir, Dharmvir, Mahavir S/o Har Naryan S/o Chandgi
				24/2	Government	Road	0	4	0.0101	Haryana Government
				115	Government	Road	0	16	0.0405	Haryana Government
				Total Area of the Village			134	3	6.7861	
		(2) Gatauli	10//	25/1	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Balvir, Sultan S/o Ram Saroop, Ramkishan S/o Sunahari, Jaharo, Gyanwati, Rajbala, Santosh D/o Ramchander, Shila Devi Widow and Vikash S/o and Neetu D/o Raghuvir
		H. B. No. 49		25/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Rajaram S/o Juglal
				222	Panchayat	Water-Channel	0	1	0.0025	Village Panchayat
			12//	4	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Balvir, Sultan S/o Ram Saroop, Ramkishan S/o Sunahari, Jaharo, Gyanwati, Rajbala, Santosh D/o Ramchander, Shila Devi Widow and Vikash S/o and Neetu D/o Raghuvir
				5/1	Private	Irrigated	4	3	0.2099	
				5/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Ramdhan, Harvansh Lal S/o Radha Kishan
				6	Private	Irrigated	2	13	0.1341	Balvir, Sultan S/o Ram Saroop, Ramkishan S/o Sunahari, Jaharo, Gyanwati, Rajbala, Santosh D/o Ramchander, Shila Devi Widow and Vikash S/o and Neetu D/o Raghuvir
				15	Private	Irrigated	0	2	0.0051	
			13//	1 Min	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Ramdhan, Harvansh Lal S/o Radha Kishan
				10	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ramdhan, Harvansh Lal S/o Radha Kishan
				11	Private	Irrigated	5	1	0.2555	Balvir, Sultan S/o Ram Saroop, Ramkishan S/o Sunahari, Jaharo, Gyanwati, Rajbala, Santosh D/o Ramchander, Shila Devi Widow and Vikash S/o and Neetu D/o Raghuvir
				12	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ramdhan, Harvansh Lal S/o Radha Kishan
				221	Panchayat	Water-Channel	0	6	0.0152	Village Panchayat
				242	Panchayat	Water-Channel	0	2	0.0051	Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Private	Irrigated	0	11	0.0278	Balvir, Sultan S/o Ram Saroop, Ramkishan S/o Sunahari, Jaharo, Gyanwati, Rajbala, Santosh D/o Ranchander, Shila Devi Widow and Vikash S/o and Neetu D/o Raghuvir
					Private	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Balvir, Subhash S/o and Parksho, Kaho, Sumitra D/o and Mani Widow Ram Saroop, Ram Kishan S/o and Sunahari, Jaharo, Gyan Wati, Rajbala, Santosh D/o Ramchand, Ishwar, Dharmpal, Satvir, Dharmvir, Om Parkash, Ram Kumar, Jagdish, Vijender S/o Lahari, Birnati D/o Lahari, Bhim Singh, Krishan, Rajendra S/o Desha, Smt. Shila Widow and Vikash S/o and Nitu D/o Raghuvir
				243	Panchayat	Water-Channel	0	1	0.0025	Village Panchayat
				244	Panchayat	Water-Channel	0	1	0.0051	Village Panchayat
				245	Panchayat	Water-Channel	0	3	0.0152	Village Panchayat
				246	Panchayat	Water-Channel	0	1	0.0101	Village Panchayat
				247	Private	Irrigated	3	0	0.1922	Prem Singh S/o Baldev, Haryana Government
				248	Government	Non-Irrigated	0	2	0.0046	Haryana Government
				249	Private	Irrigated	0	11	0.1278	21/1 Ishwar Singh S/o Baldev 21/2 Prem Singh S/o Baldev, Haryana Government
				250	Panchayat	Path	3	0	0.1593	Village Panchayat
				251	Panchayat	Water-Channel	0	4	0.0401	Village Panchayat
				252	Private	Irrigated	0	1	0.0101	Godhu S/o Netram
				253	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Rajmal, Ramphal S/o Molad, Dharmpal, Subhash, Kuldeep Singh S/o Harchand, Dhoopa S/o Parbhu
				254	Panchayat	Path	0	4	0.0101	Village Panchayat
				255	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Godhu S/o Netram
				256	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				257	Private	Irrigated	1	1	0.1619	Rajmal, Ramphal S/o Molad, Dharmpal, Subhash, Kuldeep Singh S/o Harchand, Dhoopa S/o Parbhu
				258	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Dharmpal, Subhash, Kuldeep Singh S/o Harchand, Dhoopa S/o Parbhu
				259	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				260	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				261	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				262	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Rajmal, Ramphal S/o Molad, Dharmpal, Subhash, Kuldeep Singh S/o Harchand, Dhoopa S/o Parbhu
				263	Private	Irrigated	1	2	0.0586	Dharmpal, Subhash, Kuldeep Singh S/o Harchand, Dhoopa S/o Parbhu
				264	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				265	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Godhu S/o Netram
				350	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Smt. Dhodi D/o Jai Lal
				351	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Godhu S/o Netram
				61	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Premchand, Dharmender, Ravinder S/o Ram Kishan
				62	Private	Irrigated	0	4	0.0401	Sube Singh S/o Naki, Rajendra, Balraj S/o Sube Singh, Shila Widow and Deepak S/o Mahipal
				7	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Premchand, Dharmender, Ravinder S/o Ram Kishan
				15	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Sube Singh S/o Naki, Rajendra, Balraj S/o Sube Singh, Shila Widow and Deepak S/o Mahipal
				231	Panchayat	Path	0	8	0.0202	Village Panchayat
				26	Private	Irrigated	0	9	0.0000	Sube Singh S/o Naki, Rajendra, Balraj S/o Sube Singh, Shila Widow and Deepak S/o Mahipal
				360	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Village Panchayat
				361	Private	Irrigated	0	11	0.1278	Hannam S/o Bhagwana, Rajvir, Jagvir, Vinendra S/o Hannam
				362	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh
				363	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Shanti widow and Suresh Kumar, Ramesh Kumar, Rohit S/o Hosiyar Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				20	Private	Irrigated	4	18	0.2479	Sube Singh S/o Naki, Rajendra, Baira S/o Sube Singh, Shila Widow and Deepak S/o Mahipal
				21	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Bhim Singh S/o Ganeshi, Jaivir Singh, Sanjay Singh, Sandeep S/o Bhim Singh
				22	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Hariram S/o Bhagwana, Rajvir, Jagvir, Virendra S/o Hariram
				52// 1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Bhim Singh S/o Ganeshi, Jaivir Singh, Sanjay Singh, Sandeep S/o Bhim Singh
				2	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Bhim Singh
				3/1	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Hariram S/o Bhagwana, Rajvir, Jagvir, Virendra S/o Hariram
				3/2	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Krishan S/o Ujala Singh, Jile Singh,
				8	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Waji Singh, Mana S/o Fate Singh
				9	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Kartar Singh S/o Chater Singh,
				12	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Bhartho D/o Sudha, Chhatar Singh,
				13	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Tarachand S/o Nanhad
				14	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Krishan S/o Ujala Singh, Jile Singh,
				17	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Waji Singh, Mana S/o Fate Singh
				18	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Kartar Singh S/o Chater Singh,
				23	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Bhartho D/o Sudha, Chhatar Singh,
				24	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Tarachand S/o Nanhad
				25/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Krishan S/o Ujala Singh, Jile Singh, Waji Singh, Mana S/o Fate Singh
				65// 249	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Village Panchayat
				250	Panchayat	Path	0	9	0.0228	Village Panchayat
				4	Private	Irrigated	3	7	0.1695	Smt. Kamala W/o Rajendra, Narendra Surendra Bijendra S/o & Mukesh, Neelam D S/o Rajendra S/o Munshi, Ompati W/o Hukuma, Smt Krishna D/o Hukuma, Bhanpati W/o Omprakash, Reena, Sheela D S/o & Jayvir, Mahendra, Jitendra S/o Omprakash
				5	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Atar Singh, Raj Singh, Suresh S/o and Krishana, Sunita D/o Nafe Singh, Bijender, Narender S/o Dayanand
				6/1	Private	Irrigated	0	14	0.0354	
				6/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Taka S/o Bhagu
				6/3	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Smt. Kamala W/o Rajendra, Narendra Surendra Bijendra S/o & Mukesh, Neelam D S/o Rajendra S/o Munshi, Ompati W/o Hukuma, Smt Krishna D/o Hukuma, Bhanpati W/o Omprakash, Reena, Sheela D S/o & Jayvir, Mahendra, Jitendra S/o Omprakash
				7	Private	Irrigated	1	4	0.0607	
				15	Private	Irrigated	3	16	0.1922	
				16	Private	Irrigated	1	16	0.0911	
				66// 10/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Taka S/o Bhagu
				11	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Taka S/o Bhagu
				19	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Ram Kumar, Om Parkash, Ram
				20/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Niwas, Prem, Seva S/o Gopi
				20 2	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Smt. Kamala W/o Rajendra, Narendra Surendra Bijendra S/o & Mukesh, neelam D S/o Rajendra S/o Munshi, Ompati W/o Hukuma, Smt Krishna D/o Hukuma, Bhanpati W/o Omprakash, Reena, Sheela D S/o & Jayvir, Mahendra, Jitendra S/o Omprakash
				21	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Kishan dutt S/o Gagan
				22	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Ram Kumar, Om Parkash, Ram Niwas, Prem, Seva S/o Gopi
				86// 1	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Kishan dutt S/o Gagan, Rishi Ram, Ashwani Kumar, Ajay Kumar S/o Kishan Dutt
				2	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Ram Kumar, Om Parkash, Ram Niwas, Prem, Seva S/o Gopi
				8	Private	Irrigated	1	0	0.0506	8/1 Dalvir S/o Nidhar 8/2 Rameher S/o Kishan Lal
				9	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Kishan dutt S/o Gagan, Rishi Ram,
				10	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Ashwani Kumar, Ajay Kumar S/o Kishan Dutt
				12	Private	Irrigated	3	16	0.1922	
				13	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ram Kumar, Om Parkash, Ram Niwas, Prem, Seva S/o Gopi

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				17/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	17/1/1 Jagdish S/o Lahari, 17/1/2 Dharamveer S/o Lahari	
				17/2	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Rajendra S/o Ishwar, Smt Saraswati W/o Prem Chand	
				18	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Kishan dutt S/o Gagan, Rishi Ram, Ashwani Kumar, Ajay Kumar S/o Kishan Dutt	
				19/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Kishan Dutt	
				23	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Krishan, Ramesh, Suresh S/o and Ramrati W/o Takram	
				24	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Chander Bhan S/o Surat Singh	
				102//	3	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Mahavir, Parkash, Ranveer S/o Hariram, Vimla widow and kali, Neeta D/o Ishwar, Bijendra, Anil S/o Ishwar
				434//	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Panchayat Kastkar Surat Singh S/o Jhandu Gair Maurusi S/I	
				5/1 Min	Panchayat	Irrigated	0	19	0.0481		
				5/2	Panchayat	Irrigated	0	0	0.0000		
				440	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Village Panchayat	
				441	Panchayat	Path	0	8	0.0202	Village Panchayat	
				6	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Smt. Kaushlya W/o Ramphal, Smt. Seema D/o Amrit Lal, Dharmvir, Joginder Singh S/o Richpal, Amit, Ashok S/o Jagdish, Balbir, Dalvir S/o Kishan Lal, Krishan S/o Mahender, Nirmla Widow and Kusum D/o Ajit Singh	
				7	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Daryia Singh, Roopali S/o Nighaia, Pirthi, Rameher S/o Sher Singh	
				14	Panchayat	Irrigated	0	16	0.0405	Village Panchayat	
				15/1	Panchayat	Irrigated	3	0	0.1518	Village Panchayat	
				15/2	Panchayat	Non-Irrigated	0	16	0.0405	Village Panchayat	
				16	Panchayat	Irrigated	3	14	0.1872	Village Panchayat	
				25	Panchayat	Irrigated	1	8	0.0708	Village Panchayat	
				103//	11	Panchayat	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Village Panchayat
				20	Panchayat	Non-Irrigated	1	10	0.0759	Village Panchayat	
				21/1	Panchayat	Irrigated	2	8	0.1214	Village Panchayat	
				21/2	Panchayat	Irrigated	1	6	0.0658	Village Panchayat	
				22	Panchayat	Non-Irrigated	0	0	0.0000	Village Panchayat	
				127//	1	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Ramniwas, Jagdish S/o Jage Ram and Haryana Government
				2	Panchayat	Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat	
				9	Panchayat	Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat	
				10	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Ramniwas, Jagdish S/o Jage Ram and Haryana Government	
				11	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Dera Baba Bramh Puri Grathuman Baba Sube Puri Chela Lakshman Puri	
				12	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Gusani Khanakast ishwar Fatva Gair Moroosi	
				13	Panchayat	Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat	
				18	Panchayat	Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				19	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Dera Baba Bramh Puri Grathman	
				22	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Baba Sube Puri Chela Lakshman Puri	
				23	Private	Irrigated	3	14	0.1872	Gosani Khanakast ishwar Fatva Gair Morosi	
				253	Private	Non-Irrigated	0	11	0.0278	Village Panchayat	
				254	Private	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Village Panchayat	
				24/1/1	Panchayat	Irrigated	0	15	0.0379	Village Panchayat	
				24/1/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Haryana Government	
				24/2/1	Private	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Haryana Government	
				24/2/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Dhoop Singh, Dharmpal S/o and Anguri, Kitabo, Krishna D/o Saroop, Ved Kaur Widow and Renu, Kamlesh, Santosh D/o and Yogesh S/o Subhash, Mahavir, Dharmvir S/o and Om Pati, Rampati D/o Fool Singh, Bhagata, S/o Sherchand, Dharmpal S/o Chhoturam, Vishnudutt S/o Harfool, Ishwar S/o Shyo Chand, Krishan Kumar S/o Dalip, Naryan Dutt S/o Ram Kishan, Fool Singh S/o Norang, Ram Gopal, Sughan Singh S/o Driya Singh, Kuldeep Singh, Karmvir S/o Ramgopal, Navjeet, Vinit Singh S/o Sughan Singh, Jaswant, Ashok S/o Dhoop Singh, Narender, Jegginder S/o Jagat Singh, Rajendra, S/o Singh S/o Deep Chand	
				143//	3	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Smt. Shanti Widow and Bedo D/o and Rajendra, Radhe Shyam, Ramesh, Parkash S/o Tarachand, Sat Naryan S/o and Smt Goma, Kelo D/o Kundan, Banarsi S/o and Smt. Murti D/o Desraj, Surat Singh, Rameshwar Deas, Balkishan S/o and Lakshmi, Sona D/o Shiv Naryan, Ramavtar, Varu, Hamraj, Hosiyar S/o and Smt. Jeevani, Sheela, Gita D/o and Rishalo Widow Jagat Singh, Smt. Nirmala Widow and Purusottam S/o Richo D/o Rahe Shyam Randhir Singh S/o Takram, Rajesh Ku, ar S/o Randhir Singh, Rajvir S/o Bhale Ram
				4/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Rajvir Singh, Ramvir singh, Mahavir, Shri Bhagwan Ss/o Bhale, Bhale Ram, Satya naryan, Richhpal Ss/o and Smt. Kalawati widow Badlu, Pawan Kumar Ss/o Ram Bhagat S/o Badri, Suraj Bhan, Raj Mal Ss/o Mahalu, Chander Bhan S/o Hari Ram, Sushil kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar Ss/o LakshmiNaryan, Lakshmi naryan S/o Hari Ram, Jai Parkash, Satya Parkash Ss/o Rajmal, Baruram, Rameher, Jaishiyaram Ss/o Surajmal Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal Ss/o and Smt. Rajo D/o Chhotu, Roshan lal S/o Chhotu	
				6/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/2	Private	Irrigated	0 17	0.6430 Smt. Shanti Widow and Bedo D/o and Rajendra, Radhe Shyam, Ramesh, Parkash S/o Tarachand, Sat Naryan S/o and Smt Goma, Kelo D/o Kundan, Banarsi S/o and Smt. Murti D/o Desraj, Surat Singh, Rameshwar Deas, Balkishan S/o and Lakshmi, Sona D/o Shiv Naryan, Ramavtar, Varu, Hamraj, Hosiwar S/o and Smt Jeevani, Sherla, Gita D/o and Richalo Widow Jagat Singh, Smt. Nirmala Widow and Parasottam S/o Richo D/o Radhe Shyam Randhir Singh S/o Takram, Rajesh Kuar S/o Randhir Singh, Rajvir S/o Bhale Ram
				7 Min	Private	Irrigated	3 6	0.1669 Smt. Rampo Widow and Ramesh S/o Jaikaran, Abhe, Jora, Sudhir S/o Munsi, Smt Rampyari Widow Munshi
				8	Private	Irrigated	0 8	0.0202 Rajvir Singh, Ramvir Singh, Mahavir, Shri Bhagwan S/o Bhale, Bhale Ram, Satya naryan, Richpal S/o and Smt. Kalawati widow Badlu, Pawan Kumar S/o Ram Bhagat S/o Badri, Suraj Bhan, Raj Mal S/o Mahalu, Chander Bhan S/o Hari Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Lakshmi Naryan, Lakshmi naryan S/o Hari Ram, Jai Parkash, Satya Parkash S/o Rajmal, Baruram, Rameler, Jaishiyaram S/o Surajmal Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal S/o and Smt. Rajo D/o Chhotu, Roshan Lal S/o Chhotu
				14	Private	Irrigated	3 14	0.1872 Smt. Rampo Widow and Ramesh S/o Jaikaran, Abhe, Jora, Sudhir S/o Munsi, Smt Rampyari Widow Munshi
				15	Private	Irrigated	1 18	0.0961 Rajvir Singh, Ramvir Singh, Mahavir, Shri Bhagwan S/o Bhale, Bhale Ram, Satya naryan, Richpal S/o and Smt. Kalawati widow Badlu, Pawan Kumar S/o Ram Bhagat S/o Badri, Suraj Bhan, Raj Mal S/o Mahalu, Chander Bhan S/o Hari Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Lakshmi Naryan, Lakshmi naryan S/o Hari Ram, Jai Parkash, Satya Parkash S/o Rajmal, Baruram, Rameler, Jaishiyaram S/o Surajmal Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal S/o and Smt. Rajo D/o Chhotu, Roshan Lal S/o Chhotu
				16	Private	Irrigated	3 0	0.1518 Smt. Rampo Widow and Ramesh S/o Jaikaran, Abhe, Jora, Sudhir S/o Munsi, Smt Rampyari Widow Munshi
				17	Private	Irrigated	0 16	0.0705 Smt. Rampo Widow and Ramesh S/o Jaikaran, Abhe, Jora, Sudhir S/o Munsi, Smt Rampyari Widow Munshi
				25	Private	Irrigated	3 12	0.1821 Smt. Rampo Widow and Ramesh S/o Jaikaran, Abhe, Jora, Sudhir S/o Munsi, Smt Rampyari Widow Munshi
				899	Panchayat	Path	0 4	0.0101 Village Panchayat
				144// 20	Private	Irrigated	0 3	0.0076 Jaina S/o Khem Chand, Jiyaram, Raghuvir, Raghuvir S/o and Roshni D/o Musaddi
				21.1	Private	Irrigated	0 1	0.0025 Ram Kumar, Rankaran, Silak Kumar S/o Har Naryan, Har Naryan S/o Khanayan
				21/2 Min	Private	Irrigated	0 19	0.0481 21/2/1 Bhim Singh S/o Sumer Singh, Jiya Ram, Raghuvir S/o and Roshni D/o Musaddi 21/2/2 Jaina S/o Khem Chand, Jiyaram, Raghuvir, Raghuvir S/o and Roshni D/o Musaddi
				897	Panchayat	Path	0 1	0.0025 Village Panchayat
				167// 1/1 Min	Private	Irrigated	1 12	0.0809 Hakim Chand, Ram Chand, Rameher S/o Rishala, Ajit Singh S/o Dhani Ram, Hariom S/o Dhaniram, Baladevi Widow Mohan Lal
				1/2	Private	Irrigated	0 18	0.0455 Jiyaram, Raghuvir S/o Musaddi Ram, Ishwar, Om Parkash, Ramesh S/o Jai naryan, Varu Ram, Rameher, Jasiaram S/o Suraj Bhan, Jai Parkash, Sarparkash S/o Rajmal, Chanderbhan S/o Hariram, Susil, Satish, Radhe Shyam, Sewdesh Kumar S/o Lakshmi Naryan, Ram Tilak, Shiv Kumar S/o Shri Ram, Bhale Ram, Satya naryan, Richpal S/o Badsu, Roshan, Tara Chand, Om Parkash S/o Chhotu, Pawan S/o Rambhagat

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				2/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Joginder, jagdish, Ravinder, Surender, Jitender S/o and Santosh, Ramwati D/o Ramkishan	
				9	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Chander Singh, Partap Singh, Ratan Singh, Ajmer S/o Chandgi Ram, Rajesh Kumar S/o Prem Singh	
				10	Private	Irrigated	4	2	0.2074	Pawan Kumar S/o Ram Bhagat, Shiv Kumar, Ram Tilak S/o Shri Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Lakshmi Naryan, Chander Bhan S/o Hari Ram Khana Kast New India Siksha Samiti Gautoli Pattedar	
				11	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				446	Panchayat	Path	0	19	0.0481	Village Panchayat	
				12/1	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh	
				12/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	12/2/1 Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh, Smt. Chhoti widow and Ajad Singh, Naresh Kumar, Surender, Narender S/o and Prem, Nirmala, Saroj, Sunita D/o Med Singh 12/2/2 Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh	
				13	Private	Irrigated	0	0	0.0000	13/1 Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh, Smt. Chhoti Widow and Ajad Singh, Naresh Kumar, Surender, Narender S/o and Prem, Nirmala, Saroj, Sunita D/o Med Singh 13/2 Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh 13/3 Smt. Partiksha W/o Ramesh Chand	
				18	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Partiksha W/o Ramesh Chand	
				19	Private	Irrigated	3	16	0.1922	19/1 Karan Singh, Rajendra S/o Jile Singh 19/2 Ajit Singh S/o Surat Singh	
				23/1	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Ramesh, Rajesh S/o Sher Singh	
				23/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ramesh, Rajesh S/o Sher Singh	
				168//	5/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Hakim Chand, Ram chand, Rameher S/o Rishala, Ajit Singh S/o Dhani Ram, Hariom S/o Dhaniram, Baladevi Widow Mohan Lal
				445	Panchayat	Path	0	10	0.0253	Village Panchayat	
				Total Area of the Village			239	18	12.1356		
		(3) Jai Jai Wanti	4//	22	Private	Irrigated	2	13	0.1341	Jeeta S/o Matu S/o Singha, Takram S/o Matu, Om Parkash, Prem S/o Surajmal, Ranvir, Dharmvir, Foolkanwar, Pawn Kumar, Virendra, Surender S/o Jeeta	
			8//	21/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Jagvir S/o Ram Singh S/o Nathu, Atar Singh, jaivir, Jagvir, Jasvir Ss/o Ram Singh S/o Nathu and Smt. Sudesh Widow and Monika, parina, Asha Ds/o and Mandeep S/o Jai Bhagwan S/o Ramsingh	
				21/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025		
			9//	225	Panchayat	Non-Irrigated	0	6	0.0152	Village Panchayat	
				2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Jeeta S/o Matu S/o Singha, Tekram S/o Matu, Om Parkash, Prem S/o Surajmal, Ranvir, Dharmvir, Foolkanwar, Pawn Kumar, Virendra, Surender S/o Jeeta	
				3	Private	Irrigated	3	16	0.1922		
				4	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				7	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Anguri D/o Ranjeet, Smt. Ramrati D/o Ranjeet, Jayvir, Jasbir, Jagbir S/o Ram singh, Vivek S/o Jayprakash	
				8/1	Private	Irrigated	3	17	0.1948	Mukesh Kumar S/o Hariram	
				8/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177		
				13/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Smt. Anguri D/o Ranjeet, Smt. Ramrati D/o Ranjeet, Jayvir, Jasbir, Jagbir S/o Ram singh, Vivek S/o Jayprakash	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				14	Private	Irrigated	3	15	0.1897	14/1 Rajkumar S/o Anguri 14/2 Anguri, Ramrati D S/o Ranjeet, Jaiveer, Jasveer S/o Ram Singh, Vivek S/o Jai Parkash	
				15	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Uday S/o Sishu, Jile Singh S/o Uday Singh, Sushil Kumar, Anil Kumar, Satish Kumar, Sunil Kumar S/o Vir Singh, Balraj, Baljeet, Subhash S/o Rishala S/o Sishu	
				16	Private	Irrigated	1	10	0.0759		
				17	Private	Irrigated	4	2	0.2074		
				24/2	Private	Irrigated	0	10	0.0253		
				22/1	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Meena Devi W/o Karan Singh S/o Hari Singh, Smt. Shanti Devi Widow and Sandeep, Pardeep S/o Azad S/o Umed Singh, Smt Choti Wd/o and Narender, Surender S/o and Smt. Prem, Saroj, Nirmala, Sunita D/o Umed Singh S/o Kanshi	
				25/2	Private	Irrigated	1	5	0.0632	Hargyan Singh S/o Kanshi	
				25/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Karam Singh, Rajendra Singh S/o Jile Singh S/o Kashi Ram	
				16//	Private	Irrigated	2	13	0.1341	Hargyan Singh S/o Kanshi	
				5/2	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Meena Devi W/o Karan Singh S/o Hari Singh, Smt. Shanti Devi Widow and Sandeep, Pardeep S/o Azad S/o Umed Singh, Smt Choti Wd/o and Narender, Surender S/o and Smt. Prem, Saroj, Nirmala, Sunita D/o Umed Singh S/o Kanshi	
				6	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				17//	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Jeeta S/o Matu S/o Singha, Takram S/o Matu, Om Parkash, Prem S/o Surajmal, Ranvir, Dharmvir, Foolkanwar, Pawn Kumar, Virendra, Surender S/o Jeeta	
				9	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				10	Private	Irrigated	2	17	0.1442	Meena Devi W/o Karan Singh S/o Hari Singh, Smt. Shanti Devi Widow and Sandeep, Pardeep S/o Azad S/o Umed Singh, Smt Choti Wd/o and Narender, Surender S/o and Smt. Prem, Saroj, Nirmala, Sunita D/o Umed Singh S/o Kanshi	
				221 Path	Panchayat	Path	0	7	0.0177	Village Panchayat	
				89 Min	Private	Non-Irrigated	11	11	0.5843	89/1 Haryana Government 89/2 Mairam S/o Ram, Jay Singh S/o Gokal, Smt. Ghoghadi widow & Bhagwani, Bhateri D S/o & Chandgi, Tarachand, Phol Singh S/o & Chandu D/o Rang, Ramjan S/o Dulu, Deshray, Srichand S/o Juglal, Risala, Bare Singh S/o Shishu, Rangeet S/o Neta, Smt. Lixmi widow & Jora Singh, Ram Singh S/o & Soie, Khajani, Dhankaur D S/o Chandu, Kashiram S/o Tuhiya, And other Share Holders	
				428	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				12	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Kuldeep, Ramesh S/o Dheop Singh,	
				18	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Sube Singh, Jai Parkash S/o Hari	
				19	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Chand S/o Chhotu	
				221	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Village Panchayat	
				23/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Kuldeep, Ramesh S/o Dheop Singh, Sube Singh, Jai Parkash S/o Hari Chand S/o Chhotu	
				26//	272 Road	Government	Road	0	16	0.0400	Gaur Munkin Abadi- Japrakash, Lalbahadur S/o & Saraswati, Prakasho, Bimla D S/o Parkar S/o Ramjilal & Omprakash, Prem S/o Surajmal S/o Matu & Smt. Namkaur Widow & Jaibhagwan, Dharamveer, Jagdish S/o & Smt. Saratosh, Kamla D S/o Ramchander S/o Ramjilal
				2/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Haryana Government P W D	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				2/2	Government	Road	0	3	0.0076	Baru Ram, Ramehar, Siya Ram S/o Surajmal, Jai Parkash, Satparkash S/o Rajmal, Pawan Kumar S/o Ram Bhagat, Shiv Kumar, Ram Tilak S/o Sri Ram, Chanderbhan S/o Hari Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Laxmi Narayan Khanakashi Baruram, Ramehar, Jaisiyaram S/o Suraj Mal Hissedaran
				123 Min	Government	Road	3	2	0.1568	123/1 Provincial Government, 123/2 Village Panchayat
				3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Baru Ram, Ramehar, Siya Ram S/o Surajmal, Jai Parkash, Satparkash S/o Rajmal, Pawan Kumar S/o Ram Bhagat, Shiv Kumar, Ram Tilak S/o Sri Ram, Chanderbhan S/o Hari Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Laxmi Narayan Khanakashi Shri Ram, Ram Bhagat S/o Badri Parsad, Hari Ram S/o Ram Chand, Baruram, Ramher, Jaisiyaram S/o Surajmal Gair Maurusiyar
				7	Private	Non-Irrigated	1	0	0.0506	Chandrabhan S/o Hari ram, Rajendra, Sukhbir, Krishandatt, Nehru S/o Chandbhan S/o Hariam, Sushel kumar, Satish kumar, Radhe Shyam, Sudesh kumar S/o Laxminarayan S/o Hariam,
				8/1	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Baru Ram, Ramehar, Siya Ram S/o Surajmal, Jai Parkash, Satparkash S/o Rajmal, Pawan Kumar S/o Ram Bhagat, Shiv Kumar, Ram Tilak S/o Sri Ram, Chanderbhan S/o Hari Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Laxmi Narayan Khanakashi Baruram, Ramehar, Jaisiyaram S/o Suraj Mal Hissedaran
				8/2	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Gindodi Widow and Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o and Rajo D/o Chhotu S/o Neki, Bhele Ram S/o and Lakshmi D/o and Kalawati Widow Bablu S/o Neki, Sant Ramnati Widow and Santosh, Usha, Sushila D/o Samaryan S/o Badlu, Sant Savari Widow and Rajendra, Ramnath S/o Ruchpal S/o Badlu Khanakashi Bhokaram Hissedar
				9	Private	Irrigated	0	0	0.0000	
				13	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Gindodi Widow and Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o and Rajo D/o Chhotu S/o Neki, Bhele Ram, S/o and Lakshmi D/o and Kalawati Widow Bablu S/o Neki, Sant Ramnati Widow and Santosh, Usha, Sushila D/o Samaryan S/o Badlu, Sant Savari Widow and Rajendra, Ramnath S/o Ruchpal S/o Badlu Khanakashi Gindodi Widow and Rajo D/o and Om parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o Chhotu Hissedaran
				102	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8		9		
				14	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Gindodi Widow and Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o and Rajo D/o Chhotu S/o Neki, Bhele Ram, S/o and Lakshmi D/o and Kalawati Widow Bablu S/o Naki, Smt. Ramrati Widow and Santosh, Usha, Sushila D/o Satnaryan S/o Badlu, Smt. Savitri Widow and Rajendra, Rambhaj S/o Richpal S/o Badlu Khanakast Gandohi Widow and Rajo D/o and Om parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o Chhotu Hissedaran	
				15	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Gindodi Widow and Om Parkash, Tarachand, Roshan Lal, Ramher S/o and Rajo D/o Chhotu S/o Neki, Bhele Ram, S/o and Lakshmi D/o and Kalawati Widow Bablu S/o Naki, Smt. Ramrati Widow and Santosh, Usha, Sushila D/o Satnaryan S/o Badlu, Smt. Savitri Widow and Rajendra, Rambhaj S/o Richpal S/o Badlu Khanakast Hariram, Badri Hissedaran	
				17	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Pawan Kumar S/o Ram Bhagat, Shiv Kumar, Ramtilak S/o Sri Ram, Sushil Kumar, Satish Kumar, Radhe Shyam, Sudesh Kumar S/o Lakshmi Narayan, Chanderbhan S/o Hariram	
				18	Private	Irrigated	0	2	0.0051		
				24	Private	Irrigated	3	14	0.1872		
				25	Private	Irrigated	1	0	0.0596		
			38//	4	Private	Irrigated	0	0	0.0228		
				5/1	Private	Irrigated	4	5	0.1644		
				5/2	Private	Irrigated	0	5	0.0126		
				224	Panchayat	Non-Irrigated	0	1	0.0076	Village Panchayat	
				5/3	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Ishwar, Om Parkash, Ramesh S/o Jai Naryan S/o Khemchand and Smt. Rameti Widow and Krishna, Shila D S/o Jai Naryan S/o Khemchand, Jiyaram, Raghuvir S/o Masudi S/o Dyotia	
				6/1 Min	Private	Irrigated	2	16	0.1416	6/1/1 Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand S/o Rishala 6/1/2 Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand, Bala Devi Wd/o Mohan Lal, Hariom S/o Dhani Ram, Ajit singh S/o Dhani Ram	
				6/2	Private	Irrigated	0	15	0.0379	6/2/1 Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand S/o Rishala 6/2/2 Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand, Bala Devi Wd/o Mohan Lal, Hariom S/o Dhani Ram, Ajit singh S/o Dhani Ram	
				15/2	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Hukam Chand, Ramher S/o Risala, Bala Devi Wd/o Mohan Lal, Hariom S/o Dhani Ram, Ajit singh S/o Dhani Ram Bijender, Rajesh S/o Ram Chand, Smt. Premo Widow & Kamlesh, Sudesh, Rajrani D/o Ramchandra	
				39//	1	Private	Irrigated	0	8	0.0292	Ishwar, Om Parkash, Ramesh S/o Jai Naryan S/o Khemchand and Smt. Rameti Widow and Krishna, Shila D S/o Jai Naryan S/o Khemchand, Jiyaram, Raghuvir S/o Masudi S/o Dyotia
				4/3	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				10	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Hukam Chand, Ramher S/o Risala, Bala Devi Wd/o Mohan Lal, Hariom S/o Dhani Ram, Ajit Singh S/o Dhani Ram Bijender, Rajesh S/o Ram Chand, Smt.Premo Widow & Kamlesh, Sudesh, Rajrani D/o Ramchandra	
				11/1	Private	Path	0	2	0.0051	Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand, Bala Devi Wd/o Mohan Lal, Hariom S/o Dhani Ram, Ajit Singh S/o Dhani Ram	
				11/2	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Hukam Chand, Ramher S/o Risala S/o Bagwana, Bijender, Rajesh S/o Ram Chand S/o Rishala	
				12	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Surjeet, Subhash S/o Om Parkash, Smt. Shila Devi Widow and Mukesh, Sandeep, Ashish S/o and Smt. Monika D/o Tarif S/o Omparkash	
				19	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Surjeet, Subhash S/o Om Parkash, Smt. Shila Devi Widow and Mukesh, Sandeep, Ashish S/o and Smt. Monika D/o Tarif S/o Omparkash	
				20	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Om Parkash, Nafe Singh, Dhoop Singh S/o Shri Chand S/o Juglal	
				21/1	Panchayat	Irrigated	1	1	0.0531	Village Panchayat	
				22	Panchayat	Irrigated	2	18	0.1467	Village Panchayat	
				23	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Surjeet, Subhash S/o Om Parkash, Smt. Shila Devi Widow and Mukesh, Sandeep, Ashish S/o and Smt. Monika D/o Tarif S/o Omparkash	
				48//	2/1	Panchayat	Irrigated	1	2	0.0556	Village Panchayat
				106	Panchayat	Path	0	15	0.0379	Village Panchayat	
				2/2	Private	Irrigated	1	17	0.0936	Karam Singh, Rajendra Singh S/o Jile Singh S/o Kashi Ram, Smt. Meena Devi W/o Karan Singh S/o Hira Singh	
				3	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Surjeet, Subhash S/o Om Parkash, Smt. Shila Devi Widow and Mukesh, Sandeep, Ashish S/o and Smt. Monika D/o Tarif S/o Omparkash	
				105	Panchayat	Path	0	5	0.0126	Village Panchayat	
				7/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Dharmvir Datak S/o Bharat Singh, Nahni Widow and Muktyar, Satyawan S/o Samer, Rajiv Kumar S/o Dayanand, Ramrati D/o Samer Singh, Om Kumar, Suresh, Ramesh S/o Karan Singh, Azad, Ramphal, Rajkumar S/o Jora Singh, Kapur Singh S/o Chhotu other Share Holders	
				8	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Mange Ram S/o Ranjan, Satpal, Vijay Pal, Dhampal, Karan Singh S/o Mangeram, Suresh Kumar, Azad Singh S/o Chandgi, Tarachand, Fool Singh S/o Rangi	
				9	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Mange Ram S/o Ranjan, Satpal, Vijay Pal, Dhampal, Karan Singh S/o Mangeram, Suresh Kumar, Azad Singh S/o Chandgi, Tarachand, Fool Singh S/o Rangi	
				13	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Mange Ram S/o Ranjan, Satpal, Vijay Pal, Dhampal, Karan Singh S/o Mangeram, Suresh Kumar, Azad Singh S/o Chandgi, Tarachand, Fool Singh S/o Rangi	
				14	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Dharmvir Datak S/o Bharat Singh, Nahni Widow and Muktyar, Satyawan S/o Samer, Rajiv Kumar S/o Dayanand, Ramrati D/o Samer Singh, Om Kumar, Suresh, Ramesh S/o Karan Singh, Azad, Ramphal, Rajkumar S/o Jora Singh, Kapur Singh S/o Chhotu other Share Holders	
				17/1	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Jaswant Singh, Ashok Kumar S/o Dhoop Singh	
				17/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Narender, Joginder S/o Jagat Singh	
				18 Min	Private	Irrigated	3	16	0.1922	18/1 Uday S/o Sishu, Jile Singh S/o Uday Singh, Sushil Kumar, Anil Kumar, Satish Kumar, Sunil Kumar S/o Vir Singh, Balraj, Baljeet, Subhash S/o Rishala S/o Sishu 18/2 Jile Singh S/o Uday Singh S/o Kunja	

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				23	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Uday S/o Sishu, Jile Singh S/o Uday Singh, Seshil Kumar, Anil Kumar, Satish Kumar, Sunil Kumar S/o Vir Singh, Balraj, Baljeet, Subhash S/o Rishala S/o Sishu
				24	Private	Irrigated	3	16	0.1922	
				25/1	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Narender, Joginder S/o Jagat Singh
				25/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Jile Singh, Balwan S/o Kishan Lal S/o Khubram
			63/1	4	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Chatar Singh, Sultan Singh, Ramphal S/o Mishri S/o Pahlad
				5	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Birender S/o Deviram S/o Surjan
				6	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Smt. Sneh W/o Bhupender Singh S/o Muktyar Singh
				7	Private	Irrigated	0	6	0.0152	
				15	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Mahavir S/o Khaniya
				16	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Balwant, Ramkaran, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant
			64/1	10	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Birender S/o Deviram S/o Surjan
				93 Min	Private	Non-Irrigated	0	12	0.0304	Shamlath Thola Balu Hasd Rasad Rakha vasi Deh and other
				20/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Mahavir S/o Khaniya
				20/2	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Balwant, Ramkaran, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant
				21	Private	Irrigated	3	12	0.1821	
			69/1	1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Balwant, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant
				2	Private	Irrigated	3	1	0.1543	
				3 Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	3-1 M/s K O Enterprises Jai Jawanti Prop. Sanjeev Sarothi 3/2 Kaliram S/o Harinarayan Istokor S/o Jamsed S/o Asgar Ali
				8/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Dilbag, om paraksh, Baljeet Singh, Nafe Singh, Sajjan Kumar, Jitendra Singh S/o & Smt. Ishwanti Devi D/o Balwant Singh Smt. Nirmala, Surita D/o & Kapil dev, Lalit dev S/o Atar Singh, Harpal S/o Kedar Singh
				8/2	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Dharmvir Datar S/o Prabhu akes Bharat Singh, Smt. Brahma Widow & Anguri, Krishna D S/o & om kumar suresh, Ramesh S/o Karan Singh, Smt. Lixmi Widow & Azad Ramphal, Rajkumar S/o & Sheela D/o Jera Smt. Kamlesh, sudesh, Bali, Punam D S/o Sajjan
				9	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Balwant, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant
				12	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Balwant, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant
				13	Private	Irrigated	2	8	0.1214	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				13/2 Min	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Dharmvir Datta S/o Prabhu alias Bharat Singh, Smt. Brahma Widow & Anguri, Krishna D S/o & om kumar suresh, Ramesh S/o Karan Singh, Smt. Lixmi Widow & Azad Ramphal, Rajkuwar S/o & Sheela D/o Jora Smt. Kamlesh, sudesh, Bali, Punam D S/o Sajan	
				14	Private	Irrigated	0	3	0.0076		
				17 Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Jai Bhagwan, Raj Kumar Ss/o	
				18/1	Private	Irrigated	3	1	0.1543	Balwant, Shakti S/o Sher Singh, Smt. Foolpati Widow and Satpal, Suresh, Umesh S/o and Rajbala, Kavita D/o Ramkaran S/o Sher Singh, Jeet Singh, Kartar Singh, Satvir, Mahipal, Subhash, Ashok Kumar S/o Jaswant	
				18/2	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Muktyar Singh, Ramphal, Jagvir, Balwan S/o Bhagwana and Smt. Shanti Widow and Virendra S/o and Smt. Anita, Manju D S/o Mahavir S/o Bhagwana	
				23	Private	Irrigated	3	5	0.1644		
				111 Min	Panchayat	Non-Irrigated	0	11	0.0278	Village Panchayat	
				24/1	Private	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Azad, Ramphal, Rajkumar S/o Jora Singh S/o Chhotu, Jaswant Singh, Ashok Kumar S/o Dhoop Singh, Narender, Joginder S/o Jagat Singh S/o Sishpal, Kapoor Singh, Karan Singh S/o Chhotu, Bharat S/o Chhotu	
				24/2	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Narender, Joginder S/o Jagat Singh	
				25/3	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Jaswant Singh, Ashok Kumar S/o Dhoop Singh	
			83//	3/2	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Azad, Ramphal, Rajkumar S/o Jora Singh S/o Chhotu, Jaswant Singh, Ashok Kumar S/o Dhoop Singh, Narender, Joginder S/o Jagat Singh S/o Sishpal, Kapoor Singh, Karan Singh S/o Chhotu, Bharat S/o Chhotu	
				4	Private	Irrigated	4	4	0.2125		
				5	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Jaswant Singh, Ashok Kumar S/o Dhoop Singh	
				227	Panchayat	Path	0	5	0.0126	Village Panchayat	
				Total Area of the Village			175	15	8.8905		
			(4) Karsola	101//	1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Smt. Jagmati D/o Amar Singh, Bajeer Singh S/o Amar Singh, Karamveer S/o Sher Singh, Mahipal, Jaipal S/o Mahabeer, Sher Singh, Wajir Singh S/o Amar Singh, Mange Ram S/o Harnarayan, Ragheer, Balbeer, Kali Ram S/o Harnarayan, Smt. Reshma, Bhoola, Chandernati, Shanti D S/o Harnarayan and Others
			H. B. No. 40		10	Private	Irrigated	1	5	0.0632	
				11/1	Panchayat	Irrigated	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				Minor	Government	Canal	2	14	0.1366	243-Haryana Government	
				11/2/1	Panchayat	Irrigated	0	4	0.0101	Village Panchayat	
				11/2/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Samunder Singh, Raj Singh, Azad Singh, Joginder Singh S/o Hazari S/o Maman	
				12/1	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Daya Kishan, Lakshmi S/o Jogi Ram, Karan Singh S/o Baldeva, Dillagh, Jasbeer S/o Mukhtyara S/o Baldeva, Dayanand S/o Heera, Ramesh, Sunhera, Niranjan, Kabul S/o Darya	
				12/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Daya Kishan, Lakshmi S/o Jogi Ram, Karan Singh S/o Baldeva, Dillagh, Jasbeer S/o Mukhtyara S/o Baldeva, Dayanand S/o Heera, Ramesh, Sunhera, Niranjan, Kabul S/o Darya	
				19	Private	Irrigated	1	0	0.0506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				20/1	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Samunder Singh, Raj Singh, Azad Singh, Joginder Singh S/o Hazari S/o Maman	
				20/2	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Samunder Singh, Raj Singh, Azad Singh, Joginder Singh S/o Hazari, Smt. Lado W/o Hazari	
				21/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Ashok Kumar, Raju S/o Mahender Singh, Anil Kumar, Amit Kumar S/o Dilawar Singh	
				22	Private	Irrigated	3	11	0.1796		
				23	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Satbeer, Jagdish, Dharambeer, Bijender, Ashok, Surender S/o Om Parkash, Sanjay S/o Krishan, Vinod S/o Ram Kuwar, Satbeer S/o Lekh Ram, Jagveer, Rajpal, Satyan S/o Lekhran S/o Shankar	
				102//	6	Private	Irrigated	3	14	0.1872	Smt. Jagmati D/o Amar Singh, Bajee Singh S/o Amar Singh, Karamveer S/o Sher Singh, Mahipal, Jaipal S/o Mahabeer, Sher Singh, Wajir Singh S/o Amar Singh, Mange Ram S/o Hamarayan, Raghibeer, Balbeer, Kali Ram S/o Harnarayan, Smt. Reshma, Bhoola, Chandernati, Shanti D S/o Harnarayan and Others
				15	Private	Irrigated	0	13	0.0329		
				106//	828	Panchayat	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat
				2	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Samunder Singh, Raj Singh, Azad Singh, Joginder Singh S/o Hazari, Smt. Lado W/o Hazari	
				3/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Satbeer, Jagdish, Dharambeer, Bijender, Ashok, Surender S/o Om Parkash, Sanjay S/o Krishan, Vinod S/o Ram Kuwar, Satbeer S/o Lekh Ram, Jagveer, Rajpal, Satyan S/o Lekhran S/o Shankar	
				3/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Ramesh Kumar S/o Sri Chand	
				8	Private	Irrigated	0	16	0.0405		
				239	Panchayat	Pond	11	2	0.0615	Village Panchayat	
				268	Panchayat	Path	0	5	0.0126	Village Panchayat	
				14	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Dalip Singh S/o Nahana, Raldu S/o Nahana, Wajir Singh, Prakash Singh	
				17	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				829	Panchayat	Path	0	4	0.0101	Village Panchayat	
				23/2 Mun	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Dalip Singh S/o Nahana, Raldu S/o Nahana, Wajir Singh, Prakash Singh, Mahabeer Singh, Ram Kuwar S/o Raldu	
				24/1	Private	Irrigated	2	8	0.1214		
				24/2	Private	Irrigated	0	17	0.0430		
				25/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Raghibeer Singh S/o Sri Chand	
				132//	11	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Sunhera Singh S/o Sri Chand
				20	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				21	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Dharmpati S/o Sri Chand	
				22/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Sunhera Singh S/o Sri Chand	
				22/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Preeta S/o Girdhara, Sadhu Ram S/o Jeeta, Uttam, Sunil S/o Preeta S/o Girdhara	
				133//	4	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Isvar Singh, Pakhir S/o and Smt. Kitabo, Phooli Devi D S/o Jora Singh, Smt. Rukman W/o and Dheer Singh, Kuldeep, Dalel, Balwan S/o and Smt. Sumitra D/o Jagat Singh, Surajmal S/o Bharti, Smt. Gogha W/o and Smt. Mogha, Brahma, Rajkala, Bimla D S/o and Vijender, Joginder S/o Fatte Singh S/o Bharti
				5	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Raghibeer Singh S/o Sri Chand	
				6	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Sunhera Singh S/o Sri Chand	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				7	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Iswar Singh, Pakhir S/o and Smt. Kitabo, Phooki Devi D S/o Jora Singh, Smt. Rukman W/o and Dheer Singh, Kuldeep, Dalel, Balwan S/o and Smt. Sumitra D/o Jagat Singh, Surajmal S/o Bhartu, Smt. Gogha W/o and Smt. Mogha, Brahma, Rajkala, Bimla D S/o and Vijender, Joginder S/o Fatte Singh S/o Bhartu	
				14	Private	Irrigated	0	3	0.0076		
				15	Private	Irrigated	3	13	0.1846		
				16	Private	Irrigated	3	10	0.1771		
				25	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Dharampal S/o Sri Chand	
				136//	1/1	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Daya Kishan, Ram Kumar S/o Baldeva and Renu D/o Jai Bhagwan
					1/2	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Baldeva S/o Hamarayan, Khanakashi Baldeva Hissedar Tabadla Kuninda Sadhu Ram S/o Jeeta Ram
				2	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Preeta S/o Girdhala, Sadhu Ram S/o Jeeta, Uttam, Sunil S/o Preeta S/o Girdhara	
				10	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Daya Kishan, Ram Kumar S/o Baldeva and Renu D/o Jai Bhagwan	
				159//	22	Private	Irrigated	1	11	0.0784	22/1- Dayanand, Maha Singh, S/o Kapoor Singh, Nafe Singh S/o Kundan, Ramdas, Man Singh, Samunder Singh S/o Matu S/o Sarjeet, Daya Singh S/o & Fuli Widow Ram Kishan S/o Matu and Others
				160//	2	Private	Irrigated	6	12	0.3339	Ompati W/o Ramehar, Satbeer Singh, Jasbeer Singh S/o Jile Singh, Bheem Singh S/o Fate Singh, Krishan S/o Fate, Captaan S/o Jile Singh, Jile Singh S/o Molad, Kapil S/o Ishwar Singh S/o Jile Singh, Ramehar S/o Surat Singh, Smt. Kitabo, Premo D S/o & Ramphal S/o Ude Singh, Smt. Ramkali W/o and Ram Niwas, Ashok S/o and Pinki D/o Balraj, Ranbeer S/o Uday Singh, Om Singh S/o Jile Singh S/o Molad Ram, Vicky, Anup S/o Ramehar
					3	Private	Irrigated	3	0	0.1518	
					4	Private	Irrigated	0	1	0.0025	
				162//	18	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Deewan Singh S/o Tara Chand, Om Singh, Satyewan S/o Lakshmi Chand, Dharampal S/o Ram Chander, Prithi Singh, Ajayeb Singh S/o Hem Raj, Vijay Singh, Attar Singh S/o Singh Ram, Meher Singh, Mohar Singh S/o Ganga Singh, Karam Singh, Arvind Singh S/o Satvir Singh
					24	Private	Irrigated	2	0	0.1012	
					25	Private	Irrigated	1	2	0.0556	
Total Area of the Village							89	1	4.5047		
		(5) Julana	12//	480	Private	Path	0	4	0.0101	Jumala Maalkan & Hasab Rasad Rakaba Vasidheh	
		H.B. No. 33		9 Min	Private	Irrigated	0	14	0.0354	9/1 Nafe singh S/o Rishala S/o Khubaram	
				10	Private	Irrigated	1	17	0.0936	Ranveer S/o Ramchandra S/o Raldu	
				12	Private	Irrigated	3	0	0.1518	Ranveer S/o Ramchandra S/o Raldu	
				13 Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	13/1 Nafe singh S/o Rishala, 13/2 Ramchandra S/o Bhagwana, Ramphal, Bijendra S/o Ramchandra	
				18	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Satyanarayan S/o Bahagvana S/o Bakhtavar, Smt. Ramrati w/o Satyanarayan S/o Bhagvana, Smt. Nirmla devi wd/o & Ramrati Mother & Bharti D/o & Mohit, Rohit S/o Jitendra S/o Satyanarayan, Vijendra singh S/o Kitab singh S/o Fateh singh	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				19	Private	Irrigated	3	0.1669
				22	Private	Irrigated	0	0.0101
				23	Private	Irrigated	3	0.1644
				24	Private	Irrigated	0	0.0430
				482	Private	Path	0	0.0025
				485	Private	Path	0	0.0101
			24//	3	Private	Irrigated	3	0.1669
				5	Private	Irrigated	0	0.0455
				6	Private	Irrigated	1	0.0759
				7	Private	Irrigated	2	0.1366
				8	Private	Irrigated	0	0.0253
				14/1	Private	Irrigated	1	0.0733
				14/2	Private	Irrigated	0	0.0405
				15	Private	Irrigated	2	0.1492
				16/1	Private	Irrigated	1	0.0911
				16/2	Private	Irrigated	0	0.0202
				17	Private	Irrigated	0	0.0025
			25//	1	Private	Irrigated	0	0.0000
				20	Private	Irrigated	3	0.1821
				21	Private	Irrigated	6	0.3035
			28//	21	Private	Irrigated	5	0.2580
				22	Private	Irrigated	4	0.2023
				23	Private	Irrigated	2	0.1163
				402	Private	Path	0	0.0202
				24	Private	Irrigated	0	0.0228
			29//	19	Private	Irrigated	0	0.0177
				20	Private	Irrigated	1	0.0556
				Water Channel	Government	Water Channel	1	0.0911

Kapoor singh S/o Ramchandra S/o Raldu, Sumitra, Kamli, Sawitri, Sheela D S/o Ramchandra S/o Raldu

Satyanarayan S/o Bahagvana S/o Bakhtavar, Smt. Ramrati w/o Satyanarayan S/o Bhagvana, Smt. Nirmla devi wd/o & Ramrati Mother & Bharti D/o & Mohit, Rohit S/o Jitendra S/o Satyanarayan, Vijendra singh S/o Kitab singh S/o Fateh singh

Jumala Maalkan & Hasab Rasad Rakaba Vasideh

Jumala Maalkan & Hasab Rasad Rakaba Vasideh

Kapoor singh S/o Ramchandra S/o Raldu, Sumitra, Kamli, Sawitri, Sheela D S/o Ramchandra S/o Raldu

Chuhdiya S/o Dalip S/o Santa, Krishna w/o Chuhdiya S/o Dalip

Jagdish, Indrapal S/o Diwan singh S/o Mangeram, Smt. Dhanno devi wd/o & Beermati, Saroj, Bula, Gyanpati D S/o Dewan singh S/o Mangeram, Narendra, Sachin S/o Ramesh S/o Diwan singh, Balveer singh S/o Bhaleram

Smt. Soniya D/o Samundra singh S/o Jile singh Vashi Sundar Bihar New Delhi House No. 2/91

Chuhdiya S/o Dalip S/o Santa, Krishna w/o Chuhdiya S/o Dalip

Smt. Soniya D/o Samundra singh S/o Jile singh Vashi Sundar Bihar New Delhi House No. 2/91

Omkar, Sube singh S/o & Sheela D/o Bhaleram S/o Sayakard, Rajdeep S/o & Suneela D S/o Premo S/o Bhaleram, Smt. Gayatri Wd/o & Krishna, Sakonia, Nirmla D/o or Belraj, Sajjan singh, Jay singh, Chand S/o Tarachand S/o Sayokam, Smt. Krishna wd/o & Ajmer singh, Jasmer singh S/o Atar singh S/o Bhaleram

Shamsher singh S/o Chatar singh S/o Munshiram, Harkesh S/o Dharm singh, Krishan kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Smt. Chandro w/o Dharm singh S/o Dairam, Ramesh kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Amit S/o Kamveer S/o Fate singh

Jumala Maalkan & Hasab Rasad Rakaba Vasideh

Shamsher singh S/o Chatar singh S/o Munshiram, Harkesh S/o Dharm singh, Krishan kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Smt. Chandro w/o Dharm singh S/o Dairam, Ramesh kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Amit S/o Kamveer S/o Fate singh

Smt. Gyano, Rampyari D S/o & Preetram, Ram mehar S/o Dairam S/o Amrit

185-Haryana Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				21	Private	Irrigated	6	7	0.3212	Ishwar, Karamveer S/o & Smt. Mandawar, Sheela D S/o Dayanand, Smt. Guddi W/o & Sumit, Amit S/o & Kali, Manju D S/o Jaypal S/o Dayanand	
				22/1	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Mahaveer S/o Chhotu S/o Prathi, Ramesh S/o Prathi S/o Chhotu, Ramkishan S/o Chhotu S/o Bhola, Smt. Samo w/o Jageram S/o Ramswarup, Surajbhan S/o Phoolchandra S/o Chetram, Ramphal S/o Prathi S/o Chhotu, Sanjay S/o Omprakash S/o Rambhagat, Rajveer S/o Ramkishan S/o Chhotu, Jayveer S/o Ramkishan S/o Chhotu, Rampal S/o Ramkishan and Other Share Holders	
				22/2	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Sikamsher singh S/o Chatar singh S/o Munshiram, Harkesh S/o Dharm singh, Krishan kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Smt. Chandro w/o Dharm singh S/o Dairam, Ramesh kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Amit S/o Karmveer S/o Fateh singh	
				23	Private	Irrigated	7	4	0.3642	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				24	Private	Irrigated	4	11	0.2302	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchandra	
				25	Private	Irrigated	4	17	0.2453	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				30/	11	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Smt. Gayatri W/o Or Krishna, Sakuntla, Nirmla D/o or Balraj Sajan singh, Jay singh, Chand S/o Tarachand S/o Sayokard, Smt. Krishna w/o or Ajmer sing, Jashmer singh S/o Anur singh S/o Bhaleram
				12	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				16	Private	Irrigated	1	14	0.0860	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				17/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchandra	
				184	Government	Minor	3	0	0.1518	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				17/2	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				18	Private	Irrigated	5	9	0.2757	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchandra	
				19/1	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				19/2	Private	Irrigated	4	14	0.2378	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				20	Private	Irrigated	5	2	0.2580	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchandra	
				22	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				23	Private	Irrigated	2	18	0.1467	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				24	Private	Irrigated	4	15	0.2403	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchandra	
				25/1	Private	Irrigated	1	15	0.0885	Jay singh, Bhadrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				25/2	Private	Irrigated	1	15	0.0885	Smt. Sundar W/o, Smt. Kamla, Kartaro D/o Dharamchand S/o Matu, Kitav singh Rajendra, Samsher, Dharamchand S/o Matu, Ishwar S/o Dharamchand S/o Matu, Vashideh	
				31//	1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ishwar, Karamveer S/o & Smt. Mandawar, Sheela D S/o Dayanand, Smt. Guddi W/o & Sumit, Amit S/o & Kali, Manju D S/o Jaypal S/o Dayanand
				6	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Omkar, Sube singh S/o or Sheela D/o Bhaleram S/o Sayokard, Rajdeep S/o or Suncata D/o Prem S/o Bhaleram, Smt. Gayatri W/o Or Krishna, Sakuntla, Nirmla D/o or Balraj Sajan singh, Jay singh, Chand S/o Tarachand S/o Sayokard, Smt. Krishna w/o or Ajmer sing, Jashmer singh S/o Anur singh S/o Bhaleram	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				7	Private	Irrigated	4	19	0.2504	Ravindra S/o Satish S/o Rashila, Satish kumar, Satish kumar S/o or Dera parampitha sah Satnam singh Ji	
				8.1	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Dham dera Sachha Sauda Sirsa, Smt. Indrawati, Santosh Wd/o & Vikash, Yogendra S/o & Kawita, Puja D S/o Krishan Kumar S/o Rishal singh	
				8.2	Private	Irrigated	4	19	0.2504		
				9	Private	Irrigated	1	9	0.0733		
				10.1	Private	Irrigated	0	6	0.0152		
				14.1	Private	Irrigated	4	5	0.2150		
				14.2	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Hajura Singh S/o Tekaram S/o Roopchand	
				15.1	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Jay singh, Bhrath singh, Ran singh, Molad S/o Bunti	
				15.2	Private	Irrigated	4	2	0.2074		
				16	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Hajura S/o Tekaram S/o Roopchand	
				50/1	2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Mahaveer S/o Chhotu S/o Prathi, Ramesh S/o Prathi S/o Chhotu, Ramkishan S/o Chhotu S/o Bhola, Smt. Sano w/o Jageram S/o Rainswarup, Surajbhan S/o Phoolchandra S/o Chetram, Ramphal S/o Prathi S/o Chhotu, Sanjay S/o Omprakash S/o Rambhagat, Rajveer S/o Ramkishan S/o Chhotu, Jayveer S/o Ramkishan S/o Chhotu, Rampal S/o Ramkishan and Other Share Holders
				51/1	3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	3/1 Samsher singh S/o Chatar singh S/o Munshiram, Harkesh S/o Dharm singh, Krishan kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Smt. Chadro W/o Dharm singh S/o Dairam, Ramesh kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Amit S/o Krambeer S/o Fateh singh 3/2 Satvir, Dalbeer S/o Batwant, Santosh Wd/o Ishwar, Baljeet, Ranjeet S/o Ishwar
				51/2	1	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Samsher singh S/o Chatar singh S/o Munshiram, Harkesh S/o Dharm singh, Krishan kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Smt. Chadro W/o Dharm singh S/o Dairam, Ramesh kumar S/o Raj singh S/o Dharm singh, Amit S/o Krambeer S/o Fateh singh
				51/3	2	Private	Irrigated	4	4	0.2125	
				51/4	3	Private	Irrigated	5	10	0.2782	
				51/5	4	Private	Irrigated	7	10	0.3794	Ramdhari S/o Harnam S/o Kanha, Kaliram, satbeer singh, Balveer singh S/o or Smt. Murti devi,
				51/6	5	Private	Irrigated	5	7	0.2706	Krishna devi, Darsna devi, Kamlesh devi D S/o Fateh singh S/o Dhaniya
				51/7	6	Private	Irrigated	3	4	0.1619	
				51/8	7	Private	Irrigated	0	8	0.0202	
				51/9	8	Private	Irrigated	1	18	0.0961	
				51/10	9	Private	Irrigated	0	9	0.0228	506-Village Panchayat
				8.2	Private	Irrigated	0	18	0.0155	Satayvan, Kaptan singh, Kadam singh, Azad singh S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Lilaram S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Baburam S/o Laxminarayn S/o Raghunath, Sahab singh, Ajeet singh S/o Rajadash S/o Ratiram	
				9	Private	Irrigated	5	3	0.2605	Santi w/o Sube singh S/o Shri Ram, Khajani w/o Partap singh S/o Shri ram, Chandram, Ramniwash, Karamveer S/o Fate S/o Shri ram, Fate singh, Sube singh, Partap singh S/o Shri ram	
				10	Private	Irrigated	6	17	0.3465	Ramdhari S/o Harnam S/o Kanha, Kaliram, satbeer singh, Balveer singh S/o or Smt. Murti devi, Krishna devi, Darsna devi, Kamlesh devi D S/o Fateh singh S/o Dhaniya	
				11.2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Parveen S/o Partap, Sukhcham S/o Sube singh, Chandram, Ramniwash, Karamveer S/o Fate singh	

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				12	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Satayvan, Kaptan singh, Kadam singh, Azad singh S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Lilaram S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Baburam S/o Laxminarayn S/o Raghunath, Sahab singh, Ajeet singh S/o Rajadash S/o Ratiram
				13/1	Private	Irrigated	2	8	0.1214	
				206	Government	Road	1	4	0.0607	Bhopal, Dharmbeer, Sukhbeer Ss/o Deshraj, Omprakash S/o Rambhagat, Deshraj, Rambhagat Ss/o Shival, Smt. Sundari Wd/o & Rajendra singh, Jagdish Ss/o & Smt. Kamala, Kartaro Ds/o Dharmchandra, Ramnarayan, Rambhajan Ss/o Risala, Smt. Sabitri Wd/o Jaykaran, Smt. Bakhatawari Wd/o & Mahabeer S/o & Smt. Kamala, Ramrati, Sakuntla Ds/o Amar singh, Rishikesh, Rohtash Ss/o Mathura, Phulchandra, Chandrabhan, Sajjan, Rajendra Ss/o Tika, Smt. Laxmi Wd/o & Salochandra, Munni, Vimla, Gita Ds/o & Naresh, Shiv kumar Ss/o Dewkinandan, Jogendra kumar Ss/o Deshraj, Jaggnath, Shivdat, Radheshyam, Vishwanath Ss/o Chandan Lal and Others
				13/2	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Satayvan, Kaptan singh, Kadam singh, Azad singh S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Lilaram S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Baburam S/o Laxminarayn S/o Raghunath, Sahab singh, Ajeet singh S/o Rajadash S/o Ratiram
				14	Private	Irrigated	2	6	0.1163	
				16/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Lilaram S/o Rajendra singh S/o Dewakram
				16/2	Private	Irrigated	2	19	0.1492	Dilbag S/o Juglal S/o Bhabar, Rani wd/o & Joyti, Monika D S/o Rajkumar S/o Hawa singh, Fate singh S/o Shri ram S/o Tokha, Sukhchain S/o Sube singh S/o Shri ram, Parveen S/o Partap S/o Shriram, Ramchandra, Jile singh, Hawa singh, Balwan S/o Sunahra S/o Shripal, Lahna S/o Bajeer S/o Prithi
				17	Private	Irrigated	7	0	0.3541	
				18	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Satayvan, Kaptan singh, Kadam singh, Azad singh S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Lilaram S/o Rajendra singh S/o Dewakram, Baburam S/o Laxminarayn S/o Raghunath, Sahab singh, Ajeet singh S/o Rajadash S/o Ratiram

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				24	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Dilbag S/o Juglal S/o Bhabar, Rani wd/o & Joyti, Monika D S/o Rajkumar S/o Hawa singh, Fate singh S/o Shri ram S/o Tokha, Sukhchain S/o Sube singh S/o Shri ram, Parveen S/o Partap S/o Shriram, Ramchandra, Jile singh, Hawa singh, Balwan S/o Sunahra S/o Shripal, Lahna S/o Bajeer S/o Prithi	
				25	Private	Irrigated	6	10	0.3288		
				53// 424	Private	Path	0	12	0.0304	Jumala Maalkan & Hasab Rasad Rakaba Vasideh	
				21	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Mangal Singh alies Rampratap S/o Kehari S/o Buntiram, Darshan Singh, Krishna, Bhupendra S/o Mangal Singh alias Rampratap S/o Kehari	
				53// 11	Private	Irrigated	2	11	0.1290		
				12	Private	Irrigated	4	11	0.2302	Mangal Singh alies Rampratap S/o Kehari S/o Buntiram, Darshan Singh, Krishna, Bhupendra S/o Mangal Singh alias Rampratap S/o Kehari	
				2 Min	Private	Irrigated	1	6	0.0658	Rajpati w/o Rampartap alies Mangal S/o Kehari	
				8	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Mahipal, Randheer singh, Ramphal S/o Surat singh S/o Harnam, Jagmal S/o Surat singh S/o Harnam, Ramesh S/o Prithi S/o Chhotu	
				9	Private	Irrigated	6	7	0.3212	Rajpati w/o Rampartap alies Mangal S/o Kehari	
				10	Private	Irrigated	2	11	0.1290		
				12	Private	Irrigated	5	6	0.2681	Mahipal, Randheer singh, Ramphal S/o Surat singh S/o Harnam, Jagmal S/o Surat singh S/o Harnam, Ramesh S/o Prithi S/o Chhotu	
				13	Private	Irrigated	1	18	0.0961		
				19	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Devendra, Dilwar S/o Kidar singh S/o Manohar, Vasudeh	
				56// 5	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Dilbag S/o Juglal S/o Bhabar, Rani wd/o & Joyti, Monika D S/o Rajkumar S/o Hawa singh, Fate singh S/o Shri ram S/o Tokha, Sukhchain S/o Sube singh S/o Shri ram, Parveen S/o Partap S/o Shriram, Ramchandra, Jile singh, Hawa singh, Balwan S/o Sunahra S/o Shripal, Lahna S/o Bajeer S/o Prithi	
				Total Area of the Village			265	19	13.4533		
			(6) Shadipur	13	181	Panchayat	Path	1	0	0.0506	Village Panchayat
			H.B.No. 32	13	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Village Panchayat Khanakasht Pratap S/o Prabhu Chakotedar	
				17	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Village Panchayat Khanakasht Ramniwas S/o Surat Singh	
				18	Private	Irrigated	6	10	0.3288		
				23	Private	Irrigated	4	19	0.2504		
				24	Private	Irrigated	2	10	0.1265		
				180	Panchayat	Path	0	13	0.0329	Village Panchayat	
				15// 161	Panchayat	Path	0	9	0.0228	Village Panchayat	
					Private	Irrigated	2	0	0.1012	Jagdish Ram S/o Chandan, Ramchar, Dilbagh S/o Desh Ram, Jai Karan, Salbeer, Dharamveer S/o Hoshivara	
				1	Private	Irrigated	5	10	0.2782	Sube Singh S/o Bija, Hari Singh S/o Jamuna, Rajbeer, Karnbeer, Jaybeer S/o & Kamlesh, Manjeet D S/o Kehari	
					Private	Irrigated	0	4	0.0101	Dharampal S/o Srichand, Hoshivari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Maup, Smt. Sukhna, Chameli, Shanti, Ishwanti D S/o Srichand, Nafe Singh S/o Srichand, Karan Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o Srichand, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surender Singh, Joginder S/o Dharampal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				15/1	Private	Non-Irrigated	0	3	0.0076	Karam Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o Srichand, Nafe Singh, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surender Singh, Joginder S/o Dharampal, S/o Srichand, Umed Singh S/o Chandan, Ramehar, Ajmer, Rajesh S/o Om Parkash, Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hukun Singh, Kulwant Singh, Bhupender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera, Sukhma, Chameli, Shanti, Yashwanti D S/o Srichand, Hoshiyari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Mauji
				15/2	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hokam Singh, Kulwant, Bhupender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera
				15/3	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Ramehar, Ajmer, Rajesh Kumar S/o Om Parkash
				16	Private	Irrigated	3	8	0.1720	
				17 Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	17/1 Ramehar, Ajmer, Rajesh Kumar S/o Om Parkash 17/2 Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hokam Singh, Kulwant Singh, Bhupender Singh, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer, Jaideep S/o Sunhera
				24	Private	Irrigated	2	15	0.1391	Fateh Singh S/o Kahniya Khanakashi Sajjan Singh, Dalipa, Rajmal S/o Pohlu Gair Maunusi
				25	Private	Irrigated	3	19	0.1998	
				71	Panchayat	Path	0	12	0.0304	Village Panchayat
				845	Panchayat	Path	0	12	0.0304	Village Panchayat
			25//	4	Private	Irrigated	1	19	0.0986	Tek Ram S/o Nahana Ram
				5	Private	Irrigated	4	15	0.2403	
				6	Private	Irrigated	5	18	0.2985	
				7	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Tek Ram S/o Nahana Ram
				14	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Sardara S/o Joga Ram
				15	Private	Irrigated	6	12	0.3339	Ram Dei W/o Rattan Singh, Mange Ram S/o Rattan Singh, Rajendra Adopted Son Ram Singh, Dhanpat, Ranpat, Jugti S/o Fatta, Harpal, Ved Pal S/o Mahender Singh Khanakashi Ranpat, Dhanpat Hissedaram
				189	Panchayat	Path	0	12	0.0304	Village Panchayat
				16	Private	Irrigated	6	13	0.3364	Phooli W/o and Surender, Ramesh, Sumer, Baljeet, Gyanendra S/o Bharat Singh, Shree Shyam
				17	Private	Irrigated	0	2	0.0051	
				25	Private	Irrigated	7	7	0.3718	Education Society Shadipur
			29//	165	Panchayat	Water Channel	3	12	0.1821	Village Panchayat
				5	Private	Irrigated	6	16	0.3440	Maha Singh Adopted Son Jug Lal, Naresh Kumar, Anil Kumar S/o Maha Singh
				6	Private	Irrigated	6	2	0.3086	Balwant S/o Guniya
				15/1	Private	Irrigated	4	13	0.2352	
				15/2	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Om Parkash S/o Badlu
				16	Private	Irrigated	4	14	0.2378	
				25	Private	Irrigated	4	2	0.2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				6.2	Private	Non-Irrigated	0	1	0.0025	Karam Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o & Nafe Singh S/o Srichand, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surrender Singh, Joginder S/o Dharampal, S/o Srichand, Umed Singh S/o Chandan, Ramehar, Ajmer, Rajesh S/o Om Parkash, Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hukam Singh, Kulwant Singh, Bhoopender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera, Sukhma, Chameh, Shanti, Yashwanti D S/o Srichand, Hoshiyari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Mauji
				7.1	Private	Irrigated	3	11	0.1796	Dharampal S/o Srichand, Hoshiyari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Mauji, Smt. Sukhma, Chameh, Shanti, Ishwanti D S/o Srichand, Nafe Singh S/o Srichand, Karam Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o Srichand, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surrender Singh, Joginder S/o Dharampal
				7.2	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Umed Singh S/o Chandan
				7.3	Private	Non-Irrigated	0	7	0.0137	Karam Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o Srichand, Nafe Singh, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surrender Singh, Joginder S/o Dharampal, S/o Srichand, Umed Singh S/o Chandan, Ramehar, Ajmer, Rajesh S/o Om Parkash, Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hukam Singh, Kulwant Singh, Bhoopender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera, Sukhma, Chameh, Shanti, Yashwanti D S/o Srichand, Hoshiyari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Mauji
				8.1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Umed Singh S/o Chandan
				14.1	Private	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Karam Singh aka Karan Singh S/o and Surajmukhi D/o Srichand, Nafe Singh, Saroj Devi W/o and Rajpal, Ram Niwas, Surrender Singh, Joginder S/o Dharampal, S/o Srichand, Umed Singh S/o Chandan, Ramehar, Ajmer, Rajesh S/o Om Parkash, Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hukam Singh, Kulwant Singh, Bhoopender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera, Sukhma, Chameh, Shanti, Yashwanti D S/o Srichand, Hoshiyari W/o and Birender, Narender S/o and Saroj D/o Mauji
				14.2	Private	Irrigated	3	7	0.1695	Sadhu Ram, Subhash, Satyawar S/o Hukam Singh, Kulwant, Bhupender, Naseeb S/o Tek Ram, Rajbeer Singh, Jaideep Singh S/o Sunhera
				14.3	Private	Irrigated	1	18	0.0964	Ramehar, Ajmer, Rajesh Kumar S/o Om Parkash

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				30//	10	Private	Irrigated	0 6 0.0152	Jagdish Ram S/o Chandan, Ramehar,
					11	Private	Irrigated	0 18 0.0455	Dilbagh S/o Desh Ram, Jai Karan,
					20	Private	Irrigated	1 12 0.0809	Satbeer, Dharamveer S/o Hoshiyara
					21	Private	Irrigated	2 6 0.1163	
				35//	1	Private	Irrigated	2 18 0.1467	Ajit, Harichand S/o Shankar, Mahaveer, Surajmal, Sarjeet, Baljeet S/o Dalipa, Raj Kumar, Karan Singh S/o Surat Singh, Risali Devi W/o Tek Ram
					10	Private	Irrigated	3 6 0.1669	
					194	Panchayat	Path	0 7 0.0177	Village Panchayat
					11 Min	Private	Irrigated	4 6 0.2175	11/1 Dariya S/o Kaalu Ram 11/2 Rajendra, Bed Prakash S/o Bhale Ram, 11/3 Ranbeer, Jasbeer Singh, Antram, Harkesh S/o Sube Singh
					20 Min	Private	Irrigated	4 18 0.2479	20/1 Rajendra, Bed Prakash S/o Bhale Ram 20/2 Ranbeer, Jasbeer Singh, Antram, Harkesh S/o Sube Singh
					21/1	Private	Irrigated	2 2 0.1062	Rajendra, Bed Prakash S/o Bhale Ram
					74 Path	Panchayat	Path	1 4 0.0607	Village Panchayat
					21/2	Private	Irrigated	1 3 0.0582	Ranbeer, Jasbeer Singh, Antram, Harkesh S/o Sube Singh
				36//	5	Private	Irrigated	3 10 0.1771	Ajit, Harichand S/o Shankar, Mahaveer, Surajmal, Sarjeet, Baljeet S/o Dalipa, Raj Kumar, Karan Singh S/o Surat Singh, Risali Devi W/o Tek Ram
					6/1	Private	Irrigated	2 13 0.1341	Sohni D/o and Badamo W/o Deewana, Umed Singh, Chander Singh S/o Ranpat S/o Fatta, Rajendra adopted Son Ran Singh, Swami Go- raksha Gaushala Julana
					6/2	Private	Irrigated	0 3 0.0076	
					15	Private	Irrigated	2 2 0.1062	
					16	Private	Irrigated	1 10 0.0759	Rajendra S/o Ran Singh
					25	Private	Irrigated	0 14 0.0354	
				43//	5/2	Private	Irrigated	0 3 0.0076	Bed Prakash S/o Hamarayan, Japan S/o Manphool, Sumer Singh S/o Partap, Balwan Singh, Ramphal S/o Janku Ram, Dhanno Devi D/o Inder Singh, Phool Singh S/o Chetu, Laxmi W/o and Virendra, Jagbeer S/o and Kanta D S/o Fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Chote Lal S/o Shyokaran, Balbeer S/o Shyokaran, Ramesh S/o Ram Saroop, Devender S/o Dhan Singh, Krishan S/o Ram Saroop, Nirmala W/o Rajbeer, Bhawar Singh S/o Ganga Singh, Naresh S/o Belainiram, Rajbala W/o Mahaveer and others
				44//	1/1	Private	Irrigated	7 4 0.3642	
					1/2	Private	Water Channel	0 1 0.0025	Bed Parkash S/o Hamarayan, Anup Singh adopted son Ram Kala, Laxmi W/o and Birender, Jagbeer S/o and Kanta Devi D/o fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Ramphal, Om Singh, Satpal S/o Shobha Chand, Phool Singh S/o Chetu
					10/1	Private	Water Channel	0 8 0.0202	
					10/2	Private	Irrigated	6 18 0.3490	Anup adopted son Ram Kala
					75	Panchayat	Path	0 12 0.0304	Village Panchayat
					11/1	Private	Irrigated	5 19 0.3010	Anup adopted son Ram Kala
					11/2	Private	Water Channel	0 11 0.0278	Bed Parkash S/o Hamarayan, Anup Singh adopted son Ram Kala, Laxmi W/o and Birender, Jagbeer S/o and Kanta Devi D/o fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Ramphal, Om Singh, Satpal S/o Shobha Chand, Phool Singh S/o Chetu

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				12 Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	12/1 Anup adopted son Ram Kala 12/2 Ved Parkash S/o Harnarayan, Anup Singh adopted son Ram Kala, Laxmi W/o and Birender, Jagbeer S/o and Kanta Devi D/o fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Ramphal, Om Singh, Satpal S/o Shobha Chand, Phool Singh S/o Chetu
				19 Min	Private	Irrigated	0	8	0.0202	19/1 Chandra S/o Ranpat 19/2 Rajendra Dattak S/o Ran Singh, Chandra, Umed S/o Ranpat, Jugati S/o Fatte, Hargyan Dattak S/o Chhoti W/o Dhanpat 19/3 Chandra S/o Ranpat
				20	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Bed Prakash S/o Harnarayan, Japan S/o Manphool, Sumer Singh S/o Partap, Balwan Singh, Ramphal S/o Janku Ram, Dhanoo Devi D/o Inder Singh, Phool Singh S/o Chetu, Laxmi Wd/o and Virendra, Jagbeer S/o and Kanta D S/o Fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Chote Lal S/o Shyokaran, Balbeer S/o Shyokaran, Ramesh S/o Ram Saroop, Devender S/o Dhan Singh, Krishan S/o Ram Saroop, Nirmala W/o Rajbeer, Bhawar Singh S/o Ganga Singh, Naresh S/o Belainiram, Rajbala W/o Mahaveer and others
				21	Private	Irrigated	7	0	0.3541	
				22 Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	22/1 Chandra S/o Ranpat 22/2 Rajendra Dattak S/o Ran Singh, Chandra, Umed S/o Ranpat, Jugati S/o Fatte, Hargyan Dattak S/o Chhoti W/o Dhanpat
				50//	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Bed Prakash S/o Harnarayan, Japan S/o Manphool, Sumer Singh S/o Partap, Balwan Singh, Ramphal S/o Janku Ram, Dhanoo Devi D/o Inder Singh, Phool Singh S/o Chetu, Laxmi Wd/o and Virendra, Jagbeer S/o and Kanta D S/o Fateh Singh, Swarajpal S/o Shakuntala, Chote Lal S/o Shyokaran, Balbeer S/o Shyokaran, Ramesh S/o Ram Saroop, Devender S/o Dhan Singh, Krishan S/o Ram Saroop, Nirmala W/o Rajbeer, Bhawar Singh S/o Ganga Singh, Naresh S/o Belainiram, Rajbala W/o Mahaveer Khanakashi Laxmi, Virendra, Jagbeer, Shakuntala, Kanta Hissedaaran
				1/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Chandra S/o Ranpat
				10 Min	Private	Irrigated	7	8	0.3743	10/1 Chandra S/o Ranpat
				76	Panchayat	Path	1	1	0.0531	Village Panchayat
				11/1	Government	Road	0	13	0.0329	Haryana Government
				11/1	Private	Irrigated	5	3	0.2605	11/2- Sube Singh S/o Bija, Hari Singh S/o Jamuna, Rajbeer, Karnbeer, Jaybeer S/o & Kamlesh, Manjeet D S/o Kehari
				20	Private	Irrigated	6	8	0.3238	Sube Singh S/o Bija, Hari Singh S/o Jamuna, Rajbeer, Karnbeer, Jaybeer S/o & Kamlesh, Manjeet D S/o Kehari
				21/1	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Bije, Hari Singh S/o Jamuna, Rajbir, Karnbir, Jayvir S/o & Kamlesh, Manjeet D S/o Kehari
				21/2	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Meer Singh S/o Jogi Ram
				21/3	Private	Irrigated	2	19	0.1492	Sube Singh S/o Bija, Hari Singh S/o Jamuna, Rajbeer, Karnbeer, Jaybeer S/o & Kamlesh, Manjeet D S/o Kehari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				51//	16	Private	Irrigated	0 2 0.0051	Meer Singh S/o Jogi Ram
					25	Private	Irrigated	0 8 0.0202	
				58//	5	Private	Irrigated	0 14 0.0354	Meer Singh S/o Jogi Ram
					6	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Meer Singh S/o Jogi Ram
					15	Private	Irrigated	1 8 0.0708	
					16	Private	Irrigated	1 16 0.0911	Raghuver S/o Jhunda
					25	Private	Irrigated	2 4 0.1113	Bed Singh S/o Jhunda
				59//	1	Private	Irrigated	5 12 0.2833	Ramesh Kumar, Sheeshpal S/o Hawa Singh, Hawa Singh, Om Parkash S/o Mukhran, Satyawan S/o Om Parkash, Smt. Santosh W/o and Rahul S/o Virendra, Ram Ratti, Raj Devi D S/o Kartar Singh
					10	Private	Irrigated	5 6 0.2681	Khanakashi, Ramesh Kumar, Sheeshpal, Hawa Singh, Om Parkash, Satyawan, Birender Hissedaran
					11	Private	Irrigated	5 0 0.2529	
					20	Private	Irrigated	4 12 0.2327	
					21	Private	Irrigated	4 4 0.2125	
				60//	1	Private	Irrigated	3 16 0.1922	
					10	Private	Irrigated	3 10 0.1771	
					11	Private	Irrigated	3 4 0.1619	
					20 Min	Private	Irrigated	2 16 0.1416	20/1 Ramesh Kumar, Sheeshpal S/o Hawa Singh, Hawa Singh, Om Parkash S/o Mukhran, Satwan S/o Om Parkash, Smt. Santosh W/o and Rahul S/o Virendra, Ram Ratti, Raj Devi D S/o Kartar Singh Khanakashi, Ramesh Kumar, Sheeshpal, Hawa Singh, Om Parkash, Satyawan, Birender Hissedaran 20/2 Dalip Singh S/o Jwahara, Anup Singh, Kulwant Singh, Virendra Singh S/o Dalip Singh, Sumitra W/o and Vikas Kumar S/o Sukhbeer, Dilbagh Singh S/o Phool Singh, Manoj Devi W/o Mahaveer
					21	Private	Irrigated	2 8 0.1214	Ranveer S/o Phool Singh, Dilbag Singh S/o Phool Singh, Smt. Anguri W/o Rajendra S/o Phool Singh, Devendra S/o Mahendra Singh, Smt. Ramrati W/o jaypal, Anoop Singh S/o Dalip Singh, Smt. Mayawati W/o & Bikram, Devendra, S/o & Rekha D/o Kulwant Singh, Smt. Sushila W/o & Manoj, Manish S/o Birendra, Sumitra W/o & Vikash Kumar S/o Sukhbir, Bed Singh S/o Hawa Murthosen
				61//	201 Path	Private	Path	0 4 0.0101	201/1 Raghuver S/o Jhunda 201/2/1 Sajjan Singh S/o Jhunda
					5 Min	Private	Irrigated	2 6 0.1163	5/1 Raghuver S/o Jhunda 5/2 Bed Singh S/o Jhunda 5/3 Sajjan Singh S/o Jhunda
					6 Min	Private	Irrigated	2 16 0.1416	6/1 Sajjan Singh S/o Jhunda 6/2 Ramesh Kumar, Sheeshpal S/o Hawa Singh, Hawa Singh, Om Parkash S/o Mukhran, Satwan S/o Om Parkash, Smt. Santosh W/o and Rahul S/o Virendra, Ram Ratti, Raj Devi D S/o Kartar Singh Khanakashi, Ramesh Kumar, Sheeshpal, Hawa Singh, Om Parkash, Satyawan, Birender Hissedaran
					15	Private	Irrigated	3 4 0.1619	Ramesh Kumar, Sheeshpal S/o Hawa Singh, Hawa Singh, Om Parkash S/o Mukhran, Satwan S/o Om Parkash, Smt. Santosh W/o and Rahul S/o Virendra, Ram Ratti, Raj Devi D S/o Kartar Singh Khanakashi, Ramesh Kumar, Sheeshpal, Hawa Singh, Om Parkash, Satyawan, Birender Hissedaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				16/1 Min	Private	Irrigated	3	12	0 1821	16/1/1 Ramesh Kumar, Sheeshpal S/o Hawa Singh, Hawa Singh, Om Parkash S/o Mukhran, Satwan S/o Om Parkash, Smt Santosh Wd/o and Rahul S/o Virendra, Ram Ratti, Raj Devi D S/o Kartar Singh Khanakashi, Ramesh Kumar, Sheeshpal, Hawa Singh, Om Parkash, Sataywan, Birender Hissedaran 16/1/2 Dalip Singh S/o Jwahara, Anup Singh, Kulwant Singh, Virendra Singh S/o Dalip Singh, Sumitra W/o and Vikas Kumar S/o Sukhbeer, Dilbagh Singh S/o Phool Singh, Manoj Devi W/o Mahaveer	
				25	Private	Irrigated	3	18	0 1973	Dalip Singh S/o Jwahara, Anup Singh, Kulwant Singh, Virendra Singh S/o Dalip Singh, Sumitra W/o and Vikas Kumar S/o Sukhbeer, Dilbagh Singh S/o Phool Singh, Manoj Devi W/o Mahaveer	
				67/1	5	Private	Irrigated	4	8	0 2226	Ranveer S/o Phool Singh, Dilbag Singh S/o Phool Singh, Smt. Anguri W/o Rajendra S/o Phool Singh, Devendra S/o Mahendra Singh, Smt. Ramrati W/o jaypal, Anoop Singh S/p Dalip Singh, Smt Mayawati Wd/o & Bikram, Devendra, S/o & Rekha D/o Kulwant Singh, Smt Sushila Wd/o & Manoj, Manish S/o Birendra, Sumitra W/o & Vikash Kumar S/o Sukhbir, Bed Singh S/o Heera
				6/1 Min	Private	Irrigated	4	6	0 2175	6/1/1 Ranveer S/o Phool Singh, Dilbag Singh S/o Phool Singh, Smt Anguri W/o Rajendra S/o Phool Singh, Devendra S/o Mahendra Singh, Smt Ramrati W/o jaypal, Anoop Singh S/p Dalip Singh, Smt Mayawati Wd/o & Bikram, Devendra, S/o & Rekha D/o Kulwant Singh, Smt Sushila Wd/o & Manoj, Manish S/o Birendra, Sumitra W/o & Vikash Kumar S/o Sukhbir, Bed Singh S/o Heera Murthehen 6/1/2 Indra Wd/o and Bimala S/o Balraj, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep Singh, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj	
				6/2	Private	Irrigated	0	14	0 0354	Indra Wd/o and Bimala D/o Balraj, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep	
				15	Private	Irrigated	2	8	0 1214	Singh, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj	
				68/1	1/1	Private	Path	0	8	0 0202	Jaipal, Rajpal, Azad S/o Hari Singh, Laxmi W/o and Bala, Dharmo D S/o Hari Singh, Rampyari W/o and Roshni, Sheela D S/o and Ramphal, Subhash, Suresh S/o Mahipal, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj, Smt. Indra Wd/o and Bimala D/o Balraj
				1/2	Private	Path	0	4	0 0101	Jaipal, Rajpal, Azad S/o Hari Singh, Laxmi W/o and Bala, Dharmo D S/o Hari Singh, Rampyari W/o and Roshni, Sheela D S/o and Ramphal, Subhash, Suresh S/o Mahipal, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj, Smt. Indra Wd/o and Bimala D/o Balraj	
				2	Private	Irrigated	2	0	0 1012	Rampyari W/o and Roshni, Sheela D S/o and Ramphal, Subhash, Suresh S/o Mahipal, Jaipal, Rajpal, Azad S/o Hari Ram	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				10 Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	10/1 Jaipal, Rajpal, Azad S/o Hari Singh, Laxmi W/o and Bala, Dharmo D S/o Hari Singh, Rampyari W/o and Roshni, Sheela D S/o and Ramphal, Subhash, Suresh S/o Mahipal, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj, Smt. Indra W/o and Bimala D/o Balraj 10/2 Indra W/o and Bimala S/o Balraj, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep Singh, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj	
				11	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Indra W/o and Bimala D/o Balraj, Surajbhan, Mahaveer, Kuldeep Singh, Sheeshpal, Ashok S/o Balraj	
				Total Area of the Village			310	1	15.6842		
			(7) Brahmanwas	24//	15	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Sri Ram, Ramphal S/o Teku.
			H.B.No. 31		16	Private	Irrigated	5	16	0.2934	Amarnath, Bhikhu, Ram Mehar S/o Pohkar
					25	Private	Irrigated	6	4	0.3136	
				25//	20	Private	Irrigated	1	19	0.0986	Sri Ram, Ramphal S/o Teku, Amarnath, Bhikhu, Ram Mehar S/o Pohkar
					21	Private	Irrigated	1	4	0.0607	
				26//	1	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Sri Ram, Ramphal S/o Teku, Amarnath, Bhikhu, Ram Mehar S/o Pohkar
				27//	5	Private	Irrigated	5	15	0.2909	Sri Ram, Ramphal S/o Teku, Amarnath, Bhikhu, Ram Mehar S/o Pohkar
					6	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Lakhi Ram, Bhai Ram, Raghuveer S/o Devak Ram aka Bhaiya Ram, Maha Singh, Ram Mehar S/o Neki, Rambhagat S/o Hawa Singh
				Total Area of the Village			25	1	1.2672		
			(8) Buddha Khara	93//	6	Private	Irrigated	6	11	0.3313	Baldeva S/o Fate S/o Chandgi, Sundar Singh S/o Jile singh S/o Fate Singh, Ude singh S/o Munshi S/o Chandgi
					15	Private	Irrigated	7	4	0.3642	Dayanand, Dharamveer S/o Kanshiram S/o Bhagwana
			H.B.No. 31		16/1	Private	Irrigated	6	11	0.3313	Vidhya devi W/o Jay singh S/o Devi Singh, Veer bhan S/o Deviram S/o Gopala, Deepak S/o Veerbhan S/o Deviram, Mukendra S/o Jay singh S/o Devi singh
					16/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Dhramchand, Rajkumar, Mahendra S/o Rishala S/o Bhagwan,
					24	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Shakuntala W/o & Sumer, sanjeev S/o or sudesh, Punam, Suman D S/o Partap S/o Rishala, Dayanand, Rampal, Bheera, Krishan S/o Kanshi D/o Bhagwana
					25	Private	Irrigated	7	7	0.3718	
				94//	1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Phulpati W/o Rajendra, Rampal satyawan S/o Kaliya S/o shrinchandra, Ishwar singh S/o shrinchandra S/o Dhan singh
					10	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Baldeva S/o Fate S/o Chandgi, sundar singh S/o Jile singh S/o fate singh, Uday singh S/o Munshi S/o Chandagi
					11	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Dayanand, Dharamveer S/o Kanshiram S/o Bhagwana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				108//	10	Private	Irrigated	0 0 0.0000	Tarachand S/o & Prakash D/o Thambo S/o Ramjilal, Hukunchand S/o and Chhanno D/o Thambo S/o Ramjilal, Bhima S/o Thambo S/o Ramjilal, Ramkaran S/o Mula S/o Chandgi, Rajmal S/o Mulha S/o Chandgi, Saroop S/o Gabdu S/o Nahnu, Prakash S/o Gabdu S/o Nahnu, Jagweer S/o Jile singh S/o Siwa, Umesh S/o Jile singh S/o Siva Gulab S/o Teka S/o Nihala, Bhula Wd/o and Sube singh S/o Ramrati, Mayawati D/o Teka S/o Nihal, Phoolwati Wd/o Kishni D/o Prakash S/o Shayama D/o Purn kapura Nafe singh, Balwant S/o Badal S/o Amilal and Others
					11/1	Private	Irrigated	1 6 0.0658	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					12/2	Private	Irrigated	0 1 0.0025	Tarachand S/o & Prakash D/o Thambo S/o Ramjilal, Hukunchand S/o and Chhanno D/o Thambo S/o Ramjilal, Bhima S/o Thambo S/o Ramjilal, Ramkaran S/o Mula S/o Chandgi, Rajmal S/o Mulha S/o Chandgi, Saroop S/o Gabdu S/o Nahnu, Prakash S/o Gabdu S/o Nahnu, Jagweer S/o Jile singh S/o Siwa, Umesh S/o Jile singh S/o Siva Gulab S/o Teka S/o Nihala, Bhula Wd/o and Sube singh S/o Ramrati, Mayawati D/o Teka S/o Nihal, Phoolwati Wd/o Kishni D/o Prakash S/o Shayama D/o Purn kapura Nafe singh, Balwant S/o Badal S/o Amilal and Others
					20	Private	Irrigated	3 16 0.1922	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					21/1	Private	Irrigated	0 19 0.0481	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					21/2	Private	Irrigated	3 8 0.1720	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					22	Private	Irrigated	0 5 0.0126	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					640	Panchayat	Water Channel	0 6 0.0152	Gram Panchayat
				149/1	1/2	Private	Irrigated	0 2 0.0051	Dhramchand, Rajkumar, Mahendra S/o Rishala S/o Bhagwan, Shakuntala Wd/o & Sumer. Sanjeev S/o or sudes, Punam, Suman S/o Partap S/o Rishala, Dayanand, Rampal, Bheera, Krishan S/o Kanshi D/o Bhagwana
					5	Private	Irrigated	7 6 0.3693	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					6	Private	Irrigated	6 8 0.3238	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
					542	Panchayat	Water Channel	1 4 0.0607	Gram Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				15/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Dhramchand, Rajkumar, Mbendra S/o Rishala S/o Bhagwan, Shakuntala Wd/o or Smer, sanjeev S/o or sudesh, Punam, Suman D/o Partap S/o Rishala, Dayanand, Rampal, Bheera, Krishan S/o Kanshi D/o Bhagwana	
				15/2	Private	Irrigated	3	0	0.1518	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi	
				16/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126		
				16/2	Private	Irrigated	1	4	0.0607		
				25	Private	Irrigated	0	7	0.0177		
				642	Panchayat	Water Channel	0	5	0.0126	Gram Panchayat	
				114//	1	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Smt. Rajrani, Rekha, Joyti D/o Nafe singh, Smt. Santi devi w/o and Sumitra devi D/o Prabhu dayal S/o Amichand, Ramchand S/o Sukhdeh S/o Badlu, Surajmal S/o Gandhi, Smt. Bhateri Wd/o, Manjeet D/o Nafe singh S/o chandram, Jogendra singh, Virendra singh, Vijendra singh S/o Prabhu dayal S/o Amichand, Smt. Manohari Wd/o Rajkali, Rajpati, Rajrani D/o Mhendra singh, Satayvendra, Bijendra S/o Pream singh S/o Gandhi
				2/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101		
				2/2	Private	Irrigated	3	14	0.1872	M/S Reliance Industries Ltd. Rajistred Office 222 Mex Chambers iv Niramaj point marfi Surendra gupta	
				8	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt.Dani wd/o, Methariya S/o Ramswaroop, Bhagwani, ompati, Santaro, Bhateri D/o Mesriya S/o Ramswaroop, Karam singh S/o jogiram S/o Ramswaroop, Rajveer singh S/o Jile singh S/o Dulichand, Malaram, Baru S/o Ramsaroop, Smt. Sona Wd/o or Shanti, Dhanpati D/o Dulichand S/o Ramswaroop and Others	
				9	Private	Irrigated	3	18	0.1973		
				10	Private	Irrigated	1	12	0.0809		
				12	Private	Irrigated	1	7	0.0683		
				177	Panchayat	Path	0	5	0.0126	Gram Panchayat	
				13	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Lakhmi S/o Teja S/o Maidhan, Smt.Ramde D/o Banwari S/o kundan	
				684/1	Panchayat	Path	0	4	0.0101	Gram Panchayat	
				18	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Dhara, Jile singh, Ude singh, Ramchandra S/o Munshi S/o Mehar singh	
				19	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Smt.Dani wd/o, Methariya S/o Ramswaroop, Bhagwani, ompati, Santaro, Bhateri D/o Mesriya S/o Ramswaroop, karam singh S/o jogiram S/o Ramswaroop, Rajveer singh S/o Jile singh S/o Dulichand, Malaram, Baru S/o Ramsaroop, Smt. Sona Wd/o or Shanti Dhanpati D/o Dulichand S/o Ramswaroop and Others	
				643	Panchayat	Water Channel	0	2	0.0051	Gram Panchayat	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				22	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Balveer, Prem, Mahaveer Ss/o , Sunhari, ompati Ds/o Ramswaroop S/o Nank, Smt. Janti devi Wd/o Sahab singh, Kaptan singh S/o and Smt. Shakuntala D/o Jagdev singh S/o Ramswaroop, Rohtash S/o Radheram S/o Munshiram	
				23/1	Private	Irrigated	1	12	0.0809		
				644	Panchayat	Water Channel	0	4	0.0101	Gram Panchayat	
				23/2	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Dhara, Jile singh, Ude singh, Ramchandra S/o Munshi S/o Mehar singh	
				24	Private	Irrigated	1	14	0.0860		
				125//	20	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Raj singh, Vajeer S/o Birkha, Dayanand S/o Gayani, Vimla, Rajrani D/o Birkha, Smt. Dhankaur wd/o and Smt. Rajwanti D/o Diwana S/o Bajeram, Manoj S/o Raj singh S/o Birkha, Rohtash S/o Diwana S/o Bajeram, Susheel kumar, Mhendra kumar S/o Birakbhan S/o Radha kishan, Ajeet , Jitendra S/o Bhiyaram Anoop singh S/o Partap singh S/o Devkaran
				21/1	Private	Irrigated	1	14	0.0860		
				178	Panchayat	Path	0	10	0.0253	Gram Panchayat	
				21/2	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Azad singh S/o Hoshiyar singh, Rajbala, Rajwanti Ds/o Hoshiyar singh, Ramparkash, Jogiram, Sadhuram, Harimadho S/o Mangeram, Kaptan S/o Hoshiyar singh, Ishwar S/o Hoshiyar singh, Jagdeep S/o Mehar singh S/o Baluram, Bhiyaram S/o Daniram S/o Devatiya	
				647	Panchayat	Water Channel	0	4	0.0101	Gram Panchayat	
				126//	3	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Balveer, Prem, Mahaveer Ss/o , Sunhari, ompati Ds/o Ramswaroop S/o Nank, Smt. Janti devi Wd/o Sahab singh, Kaptan singh S/o and Smt. Shakuntala D/o Jagdev singh S/o Ramswaroop, Rohtash S/o Radheram S/o Munshiram
				4	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Dhara, Jile singh, Ude singh, Ramchandra S/o Munshi S/o Mehar singh	
				6	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Omparkash S/o Maman S/o Chhotu , Ramesh S/o Lalji S/o Chhotu, Smt. Khajani Wd/o and Rakesh Jasveer S/o Suneeta D/o Rambhaji S/o Lalji, Dayanand S/o Gayani S/o Hari singh, Murtahan Rampat S/o Lalji S/o Chhotu	
				7/1	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Dhara, Jile singh, Ude singh, Ramchandra S/o Munshi S/o Mehar singh	
				7/2	Private	Irrigated	1	9	0.0733	Rambhaji S/o Mangeram S/o Ramchandra, Jinesh chandra Jain S/o Fatehchandra Jain S/o Kapoor chandra, Chandra S/o Mirchi S/o Ishwar, Samsher, Ramniwash S/o Ramphal S/o Bani singh	
				8	Private	Irrigated	0	3	0.0076		
				14	Private	Irrigated	1	12	0.0809		
				15/1	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Raj singh, Vajeer S/o Birkha, Dayanand S/o Gayani, Vimla, Rajrani D/o Birkha, Smt. Dhankaur wd/o and Smt. Rajwanti D/o Diwana S/o Bajeram, Manoj S/o Raj singh S/o Birkha, Rohtash S/o Diwana S/o Bajeram, Susheel kumar, Mahendra kumar S/o Birakbhan S/o Radha kishan, Ajeet , Jinendra S/o Bhiyaram Anoop singh S/o Partap singh S/o Devkaram	
				15/2	Private	Irrigated	1	18	0.0961		

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				16/1	Private	Irrigated	3	7	0.1695	Suresh kumar S/o Brijbhan S/o Radhakishan
				16/2	Private	Irrigated	1	5	0.0632	M/S Kharab rice Mill
				17	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
				25/1	Private	Irrigated	1	16	0.0911	
				25/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Suresh kumar S/o Brijbhan S/o Radhakishan
				133//	5/2/2	Private	1	0	0.0506	Ashish kumar S/o Ramdayal S/o Kishanlal
				134//	1/1	Private	0	17	0.0430	Ashish kumar S/o Ramdayal S/o Kishanlal
				1/2	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Chatar singh S/o Matu S/o Nanak, Kamala, Bala, Rajkumari Ds/o Baru S/o Matu, Balwan S/o Tekram, Panmeshari wd/o, Randhir singh, Rajendra Ss/o Baru S/o Matu, smt.Murti devi w/o.Madanlal S/o Dalipchand, Smt. Manju w/o Subashchand S/o Ratanlal, Rohit S/o Satish S/o Santram, Mohit S/o Pawan Kumar S/o Santram, Smt. Rajbala wd/o, Ravindra, Bijendra S/o, Sunita D/o Jagat singh S/o Matu
				2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	
				9	Private	Irrigated	3	16	0.1922	
				10 Min	Private	Irrigated	1	13	0.0835	10/1, 10/2 Surendra Kumar S/o Mohar singh S/o Girdharilal
				687 Min	Panchayat	Path	0	3	0.0076	687/1 Gram Panchayat, Gair mumkin - Satyanarayan, Hargulal, chandrabhan, pyarelal, pratap Ss/o & Patauri Wd/o & Chameli, Lakshmi, Roshani, Munni Ds/o Tarachadra 687/3Gair Mumkin Abadi- Chandan S/o Jawahara, I.C.L. Industries, Budhakhera and Others
				11	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Bani singh, Sukhbir singh, Prakash, Sunahara Singh S/o Deshraj S/o Bujaram
				12	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Chatar singh S/o Matu S/o Nanak, Kamala, Bala, Rajkumari Ds/o Baru S/o Matu, Balwan S/o Tekram, Panmeshari wd/o, Randhir singh, Rajendra Ss/o Baru S/o Matu, smt.Murti devi w/o Madanlal S/o Dalipchand, Smt. Manju w/o Subashchand S/o Ratanlal, Rohit S/o Satish S/o Santram, Mohit S/o Pawan Kumar S/o Santram, Smt. Rajbala wd/o, Ravindra, Bijendra S/o, Sunita D/o Jagat singh S/o Matu
				13	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Chatur S/o Matu S/o Nanak
				18	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Chatar singh S/o Matu S/o Nanak, Kamala, Bala, Rajkumari Ds/o Baru S/o Matu, Balwan S/o Tekram, Panmeshari wd/o, Randhir singh, Rajendra Ss/o Baru S/o Matu, smt.Murti devi w/o Madanlal S/o Dalipchand, Smt. Manju w/o Subashchand S/o Ratanlal, Rohit S/o Satish S/o Santram, Mohit S/o Pawan Kumar S/o Santram, Smt. Rajbala wd/o, Ravindra, Bijendra S/o, Sunita D/o Jagat singh S/o Matu
				19/1	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Smt. Prem Devi w/o Ratanlal S/o Dalipchand
				692	Panchayat	Path	0	4	0.0101	Gram Panchayat
				19/2	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Bani singh, Sukhbir singh, Prakash, Sunahara Singh S/o Deshraj S/o Bujaram

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				2	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Ramdiya S/o Dharambir S/o Tarachand, Smt. Satyawati wd/o, Sushil, Mukesh, Sudesh, Shamila Ds/o Jaybhagwan S/o Matu, Suresh, Sunil S/o Jaybhagwan S/o matu, Sri Bhagwan S/o Matu S/o Mukhran, Ramesh S/o sri Bhagwan S/o Matu, Mehar singh, Kehar singh S/o Rishala S/o Kuda, Pratap singh Jagdish singh Ss/o Hardeva S/o Matu Harkesh, Ramesh Ss/o Manphul S/o Nandu Sanjay kumar, Sunil Kumar, Praveen Kumar Ss/o Balwan Singh S/o Teka And others	
				23/1	Private	Irrigated	1	14	0.0860	Bheem singh, Jora singh, Ram kuwar, Ram niwash S/o, Sunhari, Patasho, Sakuntala D/o Dharama S/o Taale, Mauji S/o Tale S/o Mukhran, Chand, Rammehar S/o, Gulabo D/o Dalipa S/o Taale, Preet Singh S/o Mir Singh, Omprakash S/o Hamarayan S/o Taale, Kavar Singh, Sukhbir Singh S/o Sunduram S/o Maidhan, Bilendra S/o Gulab Singh S/o Dalipa	
				23/2	Private	Irrigated	2	2	0.1062	Singh S/o Mir Singh, Omprakash S/o Hamarayan S/o Taale, Kavar Singh, Sukhbir Singh S/o Sunduram S/o Maidhan, Bilendra S/o Gulab Singh S/o Dalipa	
				138//	2/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Dilbag S/o Deshray S/o Dhan Singh Address-Khedi Masaniya Tehsil Narwana
				3/1	Private	Irrigated	1	14	0.0860		
				3/2	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Bheem singh, Jora singh, Ram kuwar, Ram niwash S/o, Sunhari, Patasho, Sakuntala D/o Dharama S/o Taale, Mauji S/o Tale S/o Mukhran, Chand, Rammehar S/o, Gulabo D/o Dalipa S/o Taale, Preet Singh S/o Mir Singh, Omprakash S/o Hamarayan S/o Taale, Kavar Singh, Sukhbir Singh S/o Sunduram S/o Maidhan, Bilendra S/o Gulab Singh S/o Dalipa	
				4	Private	Irrigated	1	4	0.0607		
				7	Private	Irrigated	3	16	0.1922		
				8	Private	Irrigated	1	16	0.0911		
				13/1	Private	Irrigated	0	6	0.0152		
				13/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051		
				14/1	Private	Irrigated	1	9	0.0733		
				14/2	Private	Irrigated	2	2	0.1062		
				169	Panchayat	Water Channel	0	5	0.0126	Gram Panchayat	
				15	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Bheem singh, Jora singh, Ram kuwar, Ram niwash S/o, Sunhari, Patasho, Sakuntala D/o Dharama S/o Taale, Mauji S/o Tale S/o Mukhran, Chand, Rammehar S/o, Gulabo D/o Dalipa S/o Taale, Preet Singh S/o Mir Singh, Omprakash S/o Hamarayan S/o Taale, Kavar Singh, Sukhbir Singh S/o Sunduram S/o Maidhan, Bilendra S/o Gulab Singh S/o Dalipa	
				691	Panchayat	Path	0	3	0.0076	Gram Panchayat	
				Total Area of the Village			158	15	3.0305		

[F. No. NHAI/PIU-Rohtak/Rohtak-Jind/LA/12-13/Jind]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.